

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्रमांक-बी-8-12-2017-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2017 मौसम खरीफ के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिए परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव.

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 क्रेडिट II दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों की अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी ।
2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है ।
3. खरीफ मौसम में 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक है । इसके मध्य अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसलवार ऋणी कृषकों का जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) का 100 प्रतिशत बीमा होना अनिवार्य है । जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) लागू होगा, जिसे पृथक से अधिसूचित किया जावेगा । ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु बीमित राशि समान होगी ।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो तथा मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो लागू होगी ।
5. म.प्र.राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा ।
6. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत निर्धारित जिलों के 5 समूह (क्लस्टर) में निम्नानुसार बीमा कंपनियां क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगी । निम्नानुसार क्लस्टरों के समक्ष दर्शाई गई बीमा कंपनियां संबंधित क्लस्टर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका (गाईडलाईन) राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्देशों, राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तथा राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार फसल बीमांकन का कार्य करेगी:-

क्लस्टर	संभाग	जिले	नियत क्रियान्वयन एजेन्सी
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	उज्जैन, शहडोल	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड
बी	इन्दौर, नर्मदापुरम	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
सी	सागर, ग्वालियर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर	एच.डी.एफ.सी इरगो
डी	जबलपुर, रीवा	जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया
ई	भोपाल, चंबल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर कलां, भिण्ड	ए.आई.सी. ऑफ इण्डिया

7. दावा राशि की गणना निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी ।

(श्रेष होल्ड उपज—वास्तविक उपज)

दावा राशि=-----x बीमित राशि

श्रेष होल्ड उपज

वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी । श्रेष होल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षों के उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी, किन्तु शासन द्वारा म.प्र. राज्य के लिये खरीफ मौसम हेतु वर्ष 2013 एवं 2015 एवं रबी मौसम में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 को आपदा वर्ष घोषित किया गया है । इस स्थिति में 2 आपदा वर्षों को विलोपित कर शेष 5 वर्षों के आंकड़ों के औसत उपज के आधार पर श्रेष होल्ड उपज की गणना की जावेगी । मूंग एवं उड़द हेतु आपदा वर्ष लागू नहीं होंगे एवं श्रेष होल्ड उपज की गणना पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी ।

8. यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र जिला/तहसील/पटवारी हल्कों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते है या औसत पैदावार के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस इकाई के उच्चतर इकाई की औसत पैदावार के आंकड़ों के आधार पर दावों का आंकलन किया जायेगा ।

9. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं:-

क्र.	गतिविधि	खरीफ	रबी
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितंबर से 15 जनवरी
2	किसानों के खातों से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि Debit from farmers account	1 अप्रैल से 16 अगस्त	15 सितंबर से 15 जनवरी
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र/प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	ऋणी हेतु 31 अगस्त एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 अगस्त	ऋणी हेतु 31 जनवरी एवं अऋणी कृषकों के लिये 22 जनवरी
4	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी साफ्टकापी फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त	ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये 31 जनवरी
5	फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि (संबंधित अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा शासन की वेबसाईड पर आंकड़े अपलोड किये जायेंगे)	31 जनवरी समस्त फसलों हेतु एवं तुअर कपास हेतु 31 मई	30 जून
6	अंतिम दावा वितरण	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अन्दर	

10. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं ।

- I. **बाधित बुआई/रोपण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा ।
  - II. **खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक)** : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लम्बी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जलभराव, कृमि व रोग एवं रोगों, भू-स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।
  - III. **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोड़ा जाता है ।
  - IV. **स्थानीय आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि-भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति ।  
सामान्य अपवर्जन: युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।
11. **बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर बिन्दु क्रमांक 10-(i) में आवरित जोखिम लागू होगा । म.प्र. राज्य में अधिसूचित फसलों हेतु बीमित इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुआई का रकबा जिला कलेक्टर द्वारा फसल मौसम के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेंगे तथा जिलावार एवं फसलवार बोनी की अवधि एवं अंतिम तिथि फसल मौसम के पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे । जिला कलेक्टर बाधित अथवा निष्फल बुआई/रोपण परिस्थितियों के तहत अनुमानित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को इकाई की प्रतिशतता के परिपेक्ष्य में अधिसूचित बीमा इकाई की घोषणा करेंगे । इस प्रावधान को जिला कलेक्टर द्वारा संकेतकों/परोक्ष संकेतकों के आधार पर, दी गई अधिसूचना के आधार पर अभिविनिर्दिष्ट किया जाता है ।**
- इस प्रावधान अंतर्गत प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरांत संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
12. **फसल अवस्था के बीच में बिन्दु क्रमांक 10-(ii) के अनुसार फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज श्रेष होल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । जिला कलेक्टर द्वारा परोक्षी संकेतकों के आधार पर नुकसान की अधिसूचना जारी की जावेगी । बीमा कंपनी संभावित नुकसान का बीमा कंपनी और जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर अग्रिम भुगतान किये जाने वाली धनराशि का निर्णय करेगी, एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन मार्गदर्शी निर्देश xii-c & d के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी (बीमा कंपनी) के माध्यम से दावा भुगतान सुनिश्चित करेगी ।**

ऑन अकाउन्ट भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।

(थ्रेश होल्ड उपज-अनुमानित उपज)

दावा राशि = -----x बीमित राशि का 25 % (अधिकतम)

थ्रेश होल्ड उपज

13. कटाई उपरांत फसल क्षति का आवरण एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर बिन्दु क्रमांक 10-(iii) अनुसार सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अंदर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत नुकसान का मूल्यांकन (उपज बीमा) करने के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घण्टों के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेंगे । अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत से कम प्रभावित होने पर प्रभावित कृषकों की पृथक-पृथक क्षति आंकलित कर दावा राशि की गणना की जावेगी । यदि अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं नुकसान की प्रतिशतता का निर्णय बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा किया जायेगा ।

नुकसान का मूल्यांकन बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त नुकसान मूल्यांकनकर्ता, ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी और संबंधित किसान के दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा ।

14. क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 10-(iv) के अनुसार बीमा आवरित होगा । अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत फसल क्षेत्र का 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र प्रभावित होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति की गणना की जावेगी । यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा तथा नुकसान की प्रतिशतता का निर्णय बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा किया जायेगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी/संबंधित बैंक/क्षेत्रीय कृषि विभाग/राजस्व विभाग/जिला प्रशासन या बीमा कंपनी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर की जावेगी । क्षति के आंकलन हेतु बीमा कंपनी/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घंटे के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेंगे ।

नुकसान का मूल्यांकन बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त नुकसान मूल्यांकनकर्ता, ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी और संबंधित किसान के दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा ।

नुकसान का मूल्यांकन बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त नुकसान मूल्यांकनकर्ता, ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी और संबंधित किसान के दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा ।

15. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी-8-5/2016/14-1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार-प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।

क्रमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व	सदस्य सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक भू-अभिलेख	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी (फसल बीमा के लिये अधिकृत एजेन्सी)	सदस्य

16. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।

17. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा।
18. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर काटी जावेगी। खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक-पृथक काटी जावेगी।
19. राज्य में अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलों के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर प्रमुख फसलों के 4, तहसील स्तर पर 16 एवं जिला स्तर पर 24 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किये जावेंगे।
20. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति से इतर अन्य जोखिमों में तात्कालिक राहत/दावा राशि भुगतान होने पर अंतिम वास्तविक उत्पादकता परिणाम के आधार पर बने अंतिम दावा राशि में समायोजन किया जावेगा। अंतिम दावा राशि अधिक होने पर तात्कालिक राहत राशि/दावा को अंतिम दावा राशि से घटाकर शेष भुगतान किया जावेगा एवं कम होने पर कृषक से कोई वसूली नहीं की जावेगी।
21. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकड़े व बोया गया रकबा राजस्व विभाग द्वारा शासन की वेबसाईड पर अंतिम दिनांक तक अपलोड किये जा सकेंगे, वे ही मान्य होंगे।
22. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक XXIV-4-M के अनुसार "योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाएँ ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी।
23. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन, को पटवारी हल्का स्तर पर ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास को तहसील स्तर पर एवं मूंग उड़द को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है। म.प्र.राज्य में निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
24. योजना के संबंधित अन्य दिशा-निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका संचालन पद्धतियों का अनुपालन करेंगे।

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जबलपुर	कुंडम										
	इमलई										
			00001	डबराकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	बधराजी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	देवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	पिपरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	धनवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	गुरैया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	फिफरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	भजिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	जुझारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00011	तिलसानी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00012	देहरीखुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	नवरगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	बीजापुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	अमझर		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	लुहकरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	पडरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	मडई		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	कल्याणपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	खुक्खम		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	डौली		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00023	बडखेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	जमगावं		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00025	कस्तरा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	रमपुरीकला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00027	दरगढ		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00028	दूरका		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00029	सरसवा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00030	कुरगवां		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00031	जैतपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	खिन्हा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00033	बैरागी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00034	लहसर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	टिकरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00036	घुघरा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00037	बदुवा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			कुंडम								
			00040	हाडीपानी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	सरौली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	संजारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00046	महगवां		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00047	सूपावारा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00048	कुवरहट		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00049	गौरी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00051	कोसमडोंगरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00052	झिरमिला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00053	ददरगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00054	मखरार		धानअसिंचित	-	-	-	-	-

		00056	खैरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00057	मोहनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	सहदरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00059	चौरईकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	भैसवाही	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00061	बिलदुकरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	कुडेहरदुली		-	-	-	मक्का	-
		00063	झिरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00064	हरदुलीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	देवहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	महेशपुरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00068	महगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>जबलपुर</b>								
			<b>खमहरिया (बरेला)</b>						
		0067	पिपरियाखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		0068	केलवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		0069	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0070	बारहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0071	सिलुवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0072	पिडरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		0073	हिनाँतिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0074	खमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0076	सालीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0077	महगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		0078	पिपरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		0079	कुकरीखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0080	बरेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		0081	बल्हवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0082	हिनाँतिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0083	बिलहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0084	बैरागी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0085	परतला		धानअसिचित	-	-	-	-
		0086	सिहोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0087	महगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		0088	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0089	पडवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		0090	बिलगढा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0091	पहाड़ीखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0092	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0093	रिछई		धानअसिचित	-	-	-	-
		0094	धनपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0095	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0096	मलारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0097	डूंडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0098	उमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0099	कुडारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0100	महगांव.		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>जबलपुर-2</b>								
		0016	तिलहरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0018	तेवर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0021	पडुआ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0022	पिपरिया (मैडिकल)	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0023	आमाहिनीता	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0024	भेडाघाट	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0026	नान्हाखेडा	धानसिचित	-	-	-	-	-

		0027	परासिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		0028	पेठाखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		0029	बढैयाखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>बरगी</b>								
		0032	ढोडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0033	मुकनवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0034	बहोरीपार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		0039	घाटपिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0040	टीगन		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0041	रिंगाझोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0044	पिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0045	सालीवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0047	मंगेला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0048	हल्की		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0051	बम्हनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0052	सिलुवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0055	चौरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0057	सहजपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		0058	सालीवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		0061	सगडाझपनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		0062	चारघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>पनागर</b>								
	<b>पनागर</b>								
		00001	सिंगलदीप	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00002	गुलदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00003	लखना	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00004	कालाडूमर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	खिरहनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	झमलिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	निरदपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	उदुबाकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	बम्हनीदी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	भिंडारीकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	मनकवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	सिंगौद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	लीटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	खमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	नुनियाकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	उमरिया चौबे	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	बम्हनीदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	मुदिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	पनागर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	मोहनिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	तिवारीखेडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	रैपूरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	कुसनेर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	पिपरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	बडखेरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	बडखेरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	पठरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	उमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	महगवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	इमलई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	जिझोरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	छतरपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	पडरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00034	मोहारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	धरहर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	सुन्दरपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	तिलगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
	<b>महाराजपुर</b>								
		00038	वीरनेर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	मझगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	निपानिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	तिंदनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	भरदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	पडरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	महगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	कन्दरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	गुडगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	सरसगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	उर्दुवाखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	बरोदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	बघौडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	खिरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	झगरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	मोहास	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	नगना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	मंगेला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	औरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	खिरियाकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	सूरतलाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	सूखा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00079	कठौदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00081	खजरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>पाटन</b>								
	<b>कटगी</b>								
		00001	कटगी		-	-	तुअर	-	-
		00005	लुहारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	भिडकी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00008	ककरहटा		-	-	तुअर	-	-
		00009	खजरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00010	गनयारी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00011	मूर्ई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	कुशली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00013	भिलौदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	खजरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	रमखिरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	गोपपुर		-	-	तुअर	-	-
		00018	तमोरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	कैमोरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	रियाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	सकरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	मादो		-	-	तुअर	-	-
		00020	पडरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	महगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सरौंद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	दिधौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	भरतरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	जमुनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	गंजखमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	बोरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00032	पौडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	काकरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	कैथरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	सहसन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	करारीमनकुवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	बिलखरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	आगासौद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>पाटन</b>								
		00039	आरछा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	बिनेकी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	लुहारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	बैनीखेडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	उजरोड	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	नीची	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	सिमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	नूनसर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	बरौदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	छैडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	जरोद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	उडना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	मेढी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	झामर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	खमौंद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	बरौदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	पौडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	पाटन(न.पंचा)	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	बूढीकोनी			-	-	तुअर	-
		00058	कोनीकला			-	-	तुअर	-
		00059	महूआखेडा			-	-	तुअर	-
		00060	गाझाघाट			-	-	तुअर	-
		00062	हरदुवा			-	-	तुअर	-
		00064	रिमझा			-	-	तुअर	-
		00065	(गुरु)पिपरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	सिमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	घनेटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	सहसन	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	बरही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	ग्वारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	पडरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	भुवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	उडना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	हरदुवा			-	-	तुअर	-
		00075	पौडी			-	-	तुअर	-
		00076	कांटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	मालाकला			-	-	तुअर	-
		00080	पौडीकला			-	-	तुअर	-
	<b>मझौली</b>								
		<b>पोडा</b>							
		00043	कूडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	कंजई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	कैलवास		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	दिवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	छिन्नी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	घनेटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	मुरैठ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	लमकना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00051	हथलेवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	लखनपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	बघेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	बरगवांदराची	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	झिगरई	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	हरिसिधी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	सिमरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	भीटा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	संगोडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	रिवझा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	पोडीकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	पोंडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	मरहटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बैहरकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	गुरजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	दर्शनी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	रौसरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	नांदघाट	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	तलाड	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	हरदुआ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	गोरहा भिटौनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	गांधीगज	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	खुडावत	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	दिनारीखमरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	बरगी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	मोहला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	हरदुआकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	धनगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	खलरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	महगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	डूडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	छपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	पहरूआ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मडई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	बडखेरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		<b>मझौली</b>							
		00001	मुडियामडौंद		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	उमरधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	जौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	पडवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	अभाना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	खितौला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	खाड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सिहोदा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	सिमरिया घाट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	अमगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	उमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	दिवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	मझगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	मझौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	हटौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	खबरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	पडरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	गढोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	सुहजनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	लुहारी		धानअसिचित	-	-	-	-

		00040	चनगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
शाहपुरा									
	घरगवां								
		00073	खुलरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	बडखेरा(गगई)		धानअसिंचित	-	-	-	-
	पिपरियाकला								
		00001	पथरिया		-	-	तुअर	-	-
		00003	समदपुरा		-	-	तुअर	-	-
		00005	हिनाँतिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गुबराकला		-	-	तुअर	-	-
		00009	सालीवाडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	बसेडी		-	-	तुअर	-	-
		00014	मेरेगाव		-	-	तुअर	-	-
		00015	पावला		-	-	तुअर	-	-
		00017	सुन्द्रादेही		-	-	तुअर	-	-
		00019	कडाकला		-	-	तुअर	-	-
	शहपुरा								
		00030	भौटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	सुरई	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सगडामहगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पिपरिया (कनवास)	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नटवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00035	रमखिरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	बिलपठार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	शहपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	नौनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	घुनसौर	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00040	जमुनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	कैथरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	गडापिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	लामी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	सिहोदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	बिलखरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	हीरापुर बंधा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सहजपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	बडखेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	किसरोद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	मगरमूहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00053	भमकी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	छपरट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	मालकछार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
सिहोरा									
	खितौला								
		00002	गनहरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	कुरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	खितौला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सिहोरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	भाटादोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	बुधवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	अमगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	जुनवानी कला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	घाटसिमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	अलगोडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	रमखिरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	बंधा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	जुझारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00018	खमरिया (कटरा)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	गोसलपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	सिलुवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	हृदयनगर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	धरमपुरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	देवनगर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	गांधीग्राम	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	बेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	रानीताल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	झासी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	पौडीकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	पौडीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>मझगवां</b>								
		00032	रजगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	बुधारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	मढा (बंजर)		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	गिदुरहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	प्रतापपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	खितौला (खंम्परिया)		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00038	सैलवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	भंडरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	खिरहनीकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	छनगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	कुम्ही(सतधारा)		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	देवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	बुढरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	सिधुली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	मझगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	सरोली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	कुसयारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	नुन्जी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	घुघरी(कला)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	टिकरिया (नवीन)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	अगरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	घुटना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	दिवरी (नवीन)		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	मकुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	फनवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	ढकरवाह	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	खभरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	कचनारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	पडरियाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	मढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	किवलारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

क्र.सं.	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
	अमरवाडा										
		<b>अमरवाडा-1</b>									
			00016	हिवरासानी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00017	चिखली मुकासा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00038	कुदवारी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00042	अकलमा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00043	खिरेटी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00044	खामी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00045	हिरी मुकासा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00046	सकरवाडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00047	अमरवाडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00048	सुखारी कलौ	-	-	-	-	मक्का	-	
			00049	पिपरिया राजगुरु	-	-	-	-	मक्का	-	
			00050	करबडोल	-	-	-	-	मक्का	-	
			00067	सालीवाडा शारदा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00068	खिनेकी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00069	केकडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00070	मरकावाडी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00071	लिंगपानी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00072	सालीवाडा घाट	-	-	-	-	मक्का	-	
		<b>अमरवाडा-2</b>									
			00002	जुगावानी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00003	गाडरवाडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00004	हिरी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00005	मोहली भारत	-	-	-	-	मक्का	-	
			00006	रिछेडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00007	लहगडुवा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00008	नान्दनवाडी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00009	ढोडाकुही	-	-	-	-	मक्का	-	
			00010	कहवा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00011	साजवा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00012	सोनपुर	-	-	-	-	मक्का	-	
			00013	पूरतला	-	-	-	-	मक्का	-	
			00014	पथरकटी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00015	कोपाखेडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00018	राफा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00019	घोघरी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00020	उमरिया	-	-	-	-	मक्का	-	
			00021	बाँका	-	-	-	-	मक्का	-	
			00022	चारनखापा	-	-	-	-	मक्का	-	
		<b>पौनार</b>									
			00001	गढा दर्याव	-	-	-	-	मक्का	-	
			00051	कोडरा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00052	सेजा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00054	लखनवाडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00055	दुलारा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00056	बन्धानी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00057	जुगावाडा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00058	भाजीपानी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00059	बारहहीरा माल	-	-	-	-	मक्का	-	
			00060	पुतरा	-	-	-	-	मक्का	-	

		00061	डुंगरिया रैयत		-	-	-	मक्का	-
		00062	धसनवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00063	पौनार		-	-	तुअर	मक्का	-
		00064	छुआदेही		-	-	-	मक्का	-
		00065	छुई		-	-	तुअर	मक्का	-
		00066	चन्दनगाँव		-	-	-	मक्का	-
	<b>सिंगोडी</b>								
		00023	नन्दौरी	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00024	कोल्हिया	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00025	मन्दानगढ	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00026	लखुआ	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00027	राहीवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
		00028	बाबई	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00029	पटनिया	-	-	-	-	मक्का	-
		00030	बडेगाँव	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00031	बाका मुकासा	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00032	सिंगोडी	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00033	रजोला	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00034	खकरा चौरई	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00035	गुरैया	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00036	खामीहिरा	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00037	चिमौआ	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00039	तेन्दनौ माल	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00040	मानेगाँव	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00041	बांदरा	धानअसिचित	-	-	-	मक्का	-
	<b>उमरेठ</b>								
	<b>उमरेठ</b>								
		00008	बीजकवाडी	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00009	उमरेठ	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00010	शीलादेही	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00011	बिजोरी गुमाई	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00012	गाँजनडोह	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00013	पाठा	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00014	सोनपिपरी	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00015	सतनूर	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00016	रिघोरा माल	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00017	बिजागोरा	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00018	मारई	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00019	मोठार	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00020	मुनगा	-	-	-	-	मक्का	-
		00021	जमुनिया जेठू	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00022	दमुआ रैयत	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00023	छाबडी कला	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00040	मानकादेही खुद	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00041	मानिया खापा	-	-	-	-	मक्का	-
		00042	खन्सवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
		00043	कुन्डाली कला	-	-	-	-	मक्का	-
	<b>भोरडोंगरी</b>								
		00001	कोठार	-	-	-	-	मक्का	-
		00002	खारापिण्डरई उर्फ छाबडी	-	-	-	-	मक्का	-
		00003	सिन्दरई गुरैयाथर	-	-	-	-	मक्का	-
		00004	मैठकी	-	-	-	-	मक्का	-
		00005	साजवा	-	-	-	-	मक्का	-
		00006	दबक	-	-	-	-	मक्का	-
		00007	सेतपरास	-	-	-	-	मक्का	-
		00024	मानकादेही कला	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00025	चारगाँव	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
		00026	चान्दामैटा कला	-	-	-	-	मक्का	-

			00027	निमकूही	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00028	खजरी अन्तू	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	इटावा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00030	मोरडोंगरी खुर्द	-	-	-	मक्का	-
			00031	मोरडोंगरी कर्ला	-	-	-	मक्का	-
			00032	मान्डई माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	पटपडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	अपतरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	ताल पिपरिया	-	-	-	मक्का	-
			00036	तिगाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	परसोली	-	-	-	मक्का	-
			00038	कन्हरगाँव	-	-	-	मक्का	-
			00039	मूसादेही	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	घान्द								
		घाँद							
			00017	चिखली खुर्द	-	-	-	मक्का	-
			00018	हरनाखेडी	-	-	-	मक्का	-
			00019	खैरी रानी	-	-	-	मक्का	-
			00020	बाडीवाडा	-	-	-	मक्का	-
			00022	कौआखेडा	-	-	-	मक्का	-
			00023	मोघर	-	-	-	मक्का	-
			00024	घाँद	-	-	-	मक्का	-
			00025	बम्हनी दूरा	-	-	-	मक्का	-
			00026	नौलाझिर	-	-	-	मक्का	-
			00027	परसगाँव सरा	-	-	-	मक्का	-
			00028	नीलकंठी खुर्द	-	-	-	मक्का	-
			00029	निशान जानोजी	-	-	-	मक्का	-
			00030	नवेगाँव गोंड	-	-	-	मक्का	-
			00031	सालई छिन्दी	-	-	-	मक्का	-
			00032	सटोटी	-	-	-	मक्का	-
			00033	दिलावर मोहगाँव	-	-	-	मक्का	-
			00034	गुमगाँव दावाझिर	-	-	-	मक्का	-
			00035	बतरी	-	-	-	मक्का	-
			00036	तितरी	-	-	-	मक्का	-
			00037	बादगाँव	-	-	-	मक्का	-
			00038	लावगाँव	-	-	-	मक्का	-
			00039	मेघदौन	-	-	-	मक्का	-
			00040	रमपुरी	-	-	-	मक्का	-
			00041	पौनिया	-	-	-	मक्का	-
			00047	पिपरिया खाती	-	-	-	मक्का	-
			00048	टाँप	-	-	-	मक्का	-
			00049	बाँसखेडा	-	-	-	मक्का	-
			00050	जमतारा	-	-	-	मक्का	-
		पाजरा							
			00001	पाल्हरी	-	-	-	मक्का	-
			00002	बोंका नागनपुर	-	-	-	मक्का	-
			00003	पालादौन	-	-	-	मक्का	-
			00004	खूट पिपरिया	-	-	-	मक्का	-
			00005	बरेलीपार	-	-	-	मक्का	-
			00006	मौरखा	-	-	-	मक्का	-
			00007	सीदप	-	-	-	मक्का	-
			00008	औरिया	-	-	-	मक्का	-
			00009	हिरी	-	-	-	मक्का	-
			00010	साँख	-	-	-	मक्का	-
			00011	देवरी माल	-	-	-	मक्का	-
			00012	आमाझिरी	-	-	-	मक्का	-
			00013	राजलवाडी	-	-	-	मक्का	-
			00014	परसोली	-	-	-	मक्का	-
			00015	झिरिया	-	-	-	मक्का	-

2/1/17

		00016	पांजरा		-	-	-	मक्का	-
		00021	लोनी कर्ल		-	-	-	मक्का	-
		00042	पंचगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00043	बम्हनी लाला		-	-	-	मक्का	-
		00044	सिंधोडी		-	-	-	मक्का	-
		00045	सिरस		-	-	-	मक्का	-
		00046	साजपानी		-	-	-	मक्का	-
		00051	हलाल खुर्द		-	-	-	मक्का	-
	<b>चौरई</b>								
	<b>कपुर्दा</b>								
		00005	रामगढ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00006	मडई		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00007	जमुनिया		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00008	गोपालपुर		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00009	आमाबोह		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00019	कुण्डा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00020	हथनी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00021	पिपरिया मानसिंग		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00022	बिङ्गावाडा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00023	सलखनी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00024	माचीवाडा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00025	खिरखिरी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00026	कपुर्दा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00027	घोरावाडी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00028	सिमरिया कर्ल		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00029	फुटेरा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00030	समसवाडा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00031	खेरी खुर्द		-	-	-	मक्का	-
		00032	डुगरिया		-	-	-	मक्का	-
		00033	सीतापार		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
	<b>चौरई</b>								
		00001	हिवरखेडी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00002	धनोरा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00003	केवलारी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00004	कलकोटी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00010	लोहारा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00011	खटकर		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00012	बाम्हनवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00013	बारह बरियारी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00014	माचागोरा		-	-	-	मक्का	-
		00015	चिचगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00016	सिरेगाँव		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00017	लिखडी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00018	थांवरी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00034	चौरई न पंचायत		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00035	गुरैया		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00036	नवेगाँव मकरिया		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00037	मुआरी		-	-	-	मक्का	-
		00038	मरकाहांडी		-	-	-	मक्का	-
		00039	झिलमिली		-	-	-	मक्का	-
		00040	सिहोरा माल		-	-	-	मक्का	-
		00041	केरिया		-	-	-	मक्का	-
	<b>छिन्दवाडा</b>								
	<b>छिन्दवाडा-1</b>								
		00019	छिन्दवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00020	सिवनीप्राणमोती		-	-	-	मक्का	-
		00022	अंजनिया		-	-	-	मक्का	-
		00023	लहगडुआ		-	-	-	मक्का	-
		00024	रोहना खुर्द		-	-	-	मक्का	-

		00025	केवलारी		-	-	-	मक्का	-
		00026	कचरिया		-	-	-	मक्का	-
		00027	बम्हनी		-	-	-	मक्का	-
		00028	कपरवाडी		-	-	-	मक्का	-
		00029	झिरलिंगा		-	-	-	मक्का	-
		00030	चारगाँव प्रहलाद		-	-	-	मक्का	-
		00031	सिवनी मेघा		-	-	-	मक्का	-
		00032	पिपरिया लालू		-	-	-	मक्का	-
		00033	लकडाई जम्होडी		-	-	-	मक्का	-
		00034	सारना		-	-	-	मक्का	-
		00035	बनगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00036	जमुनिया		-	-	-	मक्का	-
		00037	राजाखोह		-	-	-	मक्का	-
		00038	सिहोरा		-	-	-	मक्का	-
		00039	डांगावानी पिपरिया		-	-	-	मक्का	-
		00040	थावरी टेका		-	-	-	मक्का	-
		00041	मोहगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00043	ककई		-	-	-	मक्का	-
		00044	लोनिया मारू		-	-	-	मक्का	-
		00045	बोहना		-	-	-	मक्का	-
		00046	काराघाट		-	-	-	मक्का	-
		00047	नेर		-	-	-	मक्का	-
		00048	चनिहया कलौ		-	-	-	मक्का	-
		00049	खैरी भूताई		-	-	-	मक्का	-
		00052	चन्हिया खुर्द		-	-	-	मक्का	-
		<b>छिन्दवाडा-2</b>							
		00001	राहेना कलौ		-	-	-	मक्का	-
		00002	भैसादण्ड		-	-	-	मक्का	-
		00003	थुनिया उदना		-	-	-	मक्का	-
		00004	गुरैया		-	-	-	मक्का	-
		00005	पौआमा		-	-	-	मक्का	-
		00006	गागीवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00007	मानेगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00008	परतला		-	-	-	मक्का	-
		00009	खजरी		-	-	-	मक्का	-
		00010	खापाभाट		-	-	-	मक्का	-
		00011	कुकडा जगत		-	-	-	मक्का	-
		00012	लोनिया करबल		-	-	-	मक्का	-
		00013	चन्दनगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00014	सर्रा		-	-	-	मक्का	-
		00015	इमलीखेडा		-	-	-	मक्का	-
		00016	सारसवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00017	बोरिया		-	-	-	मक्का	-
		<b>छिन्दवाडा-3</b>							
		00018	पखडिया		-	-	-	मक्का	-
		00021	सोनाखार		-	-	-	मक्का	-
		00050	रामगढी		-	-	-	मक्का	-
		00051	घाट पिपरिया		-	-	-	मक्का	-
		00053	उमरिया ईसरा		-	-	-	मक्का	-
		00054	रंगीना खापा		-	-	-	मक्का	-
		00055	पुलपुलडोह		-	-	-	मक्का	-
		00056	झाझरिया खुटिया		-	-	-	मक्का	-
		00057	धमनिया		-	-	-	मक्का	-
		00058	शहपूरा		-	-	-	मक्का	-
		00059	सुसरई		-	-	-	मक्का	-
		00060	पिन्डरई		-	-	-	मक्का	-
		00061	भानादेही		-	-	-	मक्का	-
		00062	माल्न्वाडा		-	-	सीयाबीन	मक्का	-
		00063	सोनपुर		-	-	-	मक्का	-

		00064	बिजेपानी	-	-	-	मक्का	-
		00065	कोटलबर्वा	-	-	-	मक्का	-
		00066	थावरी कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00067	कहिया	-	-	-	मक्का	-
		00068	भाजीपानी कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00069	खापा कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00070	उमरहर	-	-	-	मक्का	-
		00071	मदनपुर	-	-	-	मक्का	-
		00072	चारगाँव	-	-	-	मक्का	-
		00073	साख	-	-	-	मक्का	-
		00074	उभैगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	गौंदरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>जुन्नारदेव</b>							
	<b>जुन्नारदेव</b>							
		00036	तेलीवट	-	-	-	मक्का	-
		00039	बिदुआ खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00040	कोल्हिया	-	-	-	मक्का	-
		00042	उमराडी	-	-	-	मक्का	-
		00044	बिलावर कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00045	करन पिपरिया	-	-	-	मक्का	-
		00046	खमरा कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00047	गुददम	-	-	-	मक्का	-
		00048	रिछेडा	-	-	-	मक्का	-
		00049	केवलारी	-	-	-	मक्का	-
		00050	बिलावर खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00052	डुगरिया	-	-	-	मक्का	-
		00051	पनारा	-	-	-	मक्का	-
		00053	खामास्वामी	-	-	-	मक्का	-
		00054	नुमडा	-	-	-	मक्का	-
		00055	खामखेडा रैयत	-	-	-	मक्का	-
		00083	खैरमण्डल	-	-	-	मक्का	-
		00084	हनोतिया	-	-	-	मक्का	-
		00085	खैरवानी	-	-	-	मक्का	-
		00086	चटुवा	-	-	-	मक्का	-
		00087	दातलावादी	-	-	-	मक्का	-
		00088	जुन्नौर विशाला	-	-	-	मक्का	-
		00089	चिखलमउ	-	-	-	मक्का	-
		00090	घुटटी	-	-	-	मक्का	-
		00091	जुन्नारदेव	-	-	-	मक्का	-
		00092	बुधवारा	-	-	-	मक्का	-
		00093	बुरी खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00094	नीलाखापा	-	-	-	मक्का	-
		00095	जमकुण्डा	-	-	-	मक्का	-
		00096	नजरपुर	-	-	-	मक्का	-
		00097	पाला चौरई	-	-	-	मक्का	-
		00098	बुरी कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00099	कोहनिया रैयत	-	-	-	मक्का	-
	<b>दमूआ</b>							
		00001	कूकरपानी	-	-	-	मक्का	-
		00003	सांगाखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00004	झापिया	-	-	-	मक्का	-
		00005	झोत कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00006	छाबडा	-	-	-	मक्का	-
		00007	गोप	-	-	-	मक्का	-
		00008	बिचबेहरी	-	-	-	मक्का	-
		00010	बातरी	-	-	-	मक्का	-
		00011	बाकोडी	-	-	-	मक्का	-
		00012	बानाबेहरा	-	-	-	मक्का	-
		00013	टेकाढाना	-	-	-	मक्का	-

		00014	चौमउ					मक्का	-
		00015	पिन्डरई कलौ					मक्का	-
		00016	भरदागढ					मक्का	-
		00019	गुरेखुदई मउ					मक्का	-
		00020	तराई					मक्का	-
		00021	इकलामासानी					मक्का	-
		00022	चीकटबरी					मक्का	-
		00026	भरदी					मक्का	-
		00027	भाखरा					मक्का	-
		00031	नन्दौरा					मक्का	-
		00032	मांडई					मक्का	-
		00033	हिरदागढ					मक्का	-
		00034	करहेया					मक्का	-
		00038	पुरेना खालसा					मक्का	-
		00041	माली					मक्का	-
		00043	काँवाझिरी					मक्का	-
		00037	बामहनवाडा					मक्का	-
		00035	छिन्दी कामथ					मक्का	-
	<b>नवेगाँव</b>								
		00056	अवरिया					मक्का	-
		00057	मरकाढाना					मक्का	-
		00058	मनकुघाटी					मक्का	-
		00059	नवेगाँव कलौ					मक्का	-
		00060	बदनूर					मक्का	-
		00061	बोरदेई खुद					मक्का	-
		00062	मालनी					मक्का	-
		00063	सुरनादेही कलौ					मक्का	-
		00064	चिखलार					मक्का	-
		00065	बरेलीपार		धानअसिचित			मक्का	-
		00066	कोरपानी खुद					मक्का	-
		00067	भोरछी					मक्का	-
		00068	घानाउमरी					मक्का	-
		00069	बिन्दरई					मक्का	-
		00070	दाकरवाडी		धानअसिचित			मक्का	-
		00071	सातगवारी		धानअसिचित			मक्का	-
		00072	ऑकिया					मक्का	-
		00073	खिडकी कनेरी					मक्का	-
		00074	बेलगाँव माल					मक्का	-
		00076	खुमकाल					मक्का	-
		00077	भतोडिया खुद					मक्का	-
		00078	कटकही					मक्का	-
		00079	मोहगाँव किसन					मक्का	-
		00080	पर्वत घोघरी					मक्का	-
		00081	डोडासेमर					मक्का	-
		00082	माचीघाट माल					मक्का	-
		00075	जम्बाकिराडी					मक्का	-
	<b>तामिया</b>								
		<b>तामिया</b>							
		00019	घटलिंगा					मक्का	-
		00024	घगडिया					मक्का	-
		00025	मुत्तौर					मक्का	-
		00026	इटावा					मक्का	-
		00027	घुसावानी					मक्का	-
		00028	डोब					मक्का	-
		00029	मानकादेही					मक्का	-
		00030	लहगडुआ					मक्का	-
		00031	साजकुही					मक्का	-
		00032	बिजोरी					मक्का	-
		00033	तामिया					मक्का	-

		00034	भोंडियापानी	-	-	-	मक्का	-
		00035	पाण्डु पिपरिया	-	-	-	मक्का	-
		00036	लिंगा	-	-	-	मक्का	-
		00037	जैतपुर	-	-	-	मक्का	-
		00038	बोंकी	-	-	-	मक्का	-
		00039	जोगा मुआर	-	-	-	मक्का	-
		00040	छिन्दी	-	-	-	मक्का	-
		00042	कारेआम रातेड	-	-	-	मक्का	-
		00043	हरा कछार	-	-	-	मक्का	-
		00044	लोटिया	-	-	-	मक्का	-
		00045	कम्हडी	-	-	-	मक्का	-
		00046	नागरी	-	-	-	मक्का	-
		00047	मानकादेवरी	-	-	-	मक्का	-
		00048	चोपना	-	-	-	मक्का	-
		00049	चोराडोगरी	-	-	-	मक्का	-
		00050	बिजोरी पठार	-	-	-	मक्का	-
		00051	खिरेटी माल	-	-	-	मक्का	-
		00052	खुलसान	-	-	-	मक्का	-
		00053	हिरा पठार	-	-	-	मक्का	-
	<b>देलाखरि</b>							
		00001	सावरवानी	-	-	-	मक्का	-
		00002	झिरपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	माहलझिर	-	-	तुअर	-	-
		00004	बन्धीबोदल कछार	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	अण्हीनी	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	जमुनिया	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	बम्होरी खुर्द	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	चावलपानी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खापासानी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मानेगाँव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बोदल कछार	-	-	-	मक्का	-
		00013	चाखला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	सिंगाडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	बम्हनी	-	-	तुअर	-	-
		00016	कपूरनाला	-	-	-	मक्का	-
		00017	खापा खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00018	देलाखारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	दौरियाखेडा	-	-	तुअर	मक्का	-
		00021	कुसीढाना	-	-	तुअर	-	-
		00022	जामुनडोगा	-	-	-	मक्का	-
		00023	बांगई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>परासिया</b>							
	<b>परासिया</b>							
		00001	घरई कलाँ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	दरबई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	लोखावाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	बेलगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	चिखली कलाँ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	मायावाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	बरारिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	पगारा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	बुदला पठार	-	-	-	मक्का	-
		00010	लोना पठार	-	-	-	मक्का	-
		00011	कारी डोंगरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	डुंगरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	सेमरताल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	कोहका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	दमुआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	धमनिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00019	पैजनवाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	सिरगोरी खुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	हरई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	खिरसाडोह	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	घोघरी रैयत	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	जाटा छापर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	भम्होडी	-	-	-	मक्का	-
		00044	इकलहरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	खमरा जेठू	-	-	-	मक्का	-
		00043	भाजीपानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	सिरगोरा							
		00017	लोहारी बांदरी	-	-	-	मक्का	-
		00018	देवरी	-	-	-	मक्का	-
		00025	सिरगोरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	मण्डला	-	-	-	मक्का	-
		00027	सावलाढाना	-	-	-	मक्का	-
		00028	बागबधिया	-	-	-	मक्का	-
		00029	जमूनिथा पठार	-	-	-	मक्का	-
		00030	उरधन	-	-	-	मक्का	-
		00031	तुमडी	-	-	-	मक्का	-
		00032	झुर्र माल	-	-	-	मक्का	-
		00033	तेन्दूखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00035	हरनभटा	-	-	-	मक्का	-
		00036	पिन्डरई	-	-	-	मक्का	-
		00037	ढाला	-	-	-	मक्का	-
		00050	सहपानी	-	-	-	मक्का	-
		00051	खेरी चैतू	-	-	-	मक्का	-
		00052	फुटेरा	-	-	-	मक्का	-
		00034	पलटवाडा	-	-	-	मक्का	-
	पाण्डुर्णा							
	नांदनवाडी							
		00001	जामलापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	पठारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	नरसला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	पाठई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कौडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	लोनादेई माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	चिमनखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	काराघाट कामठी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	जामघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पलासपानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	धनौरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	छाबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	कण्डाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	घोघरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	भाजीपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रायबासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बुचनखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	अम्बाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	नान्दनवाडी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बन्धान	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	चांगोबा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	राजडौंगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	चाटवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सिराठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	टेमनी कलाँ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	लेन्दागौदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	ढोलनखापा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	सिल्लेवानी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00029	शीमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सावजपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	भूली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भुयारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	परसोडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	मरकावाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	लेन्डोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कामठी कलॉ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मांगूरली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	उमरी खुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	गोरली खापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पीपरपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पादरना</b>							
		00041	चिकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	घुंडनखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पेन्डोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	इटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मारुड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	तिगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	खेडी कलॉ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	चिचखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	भंदारगोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	आंजनगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पाटुर्णा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	धावडी खापा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	बम्हनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	कलमगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	वाडेगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बनगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	जाटलापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	उमरी कलॉ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	राजोरा कलॉ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	गुजरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	पारडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	मोरडोंगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	करव्हार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	मालेगॉव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	लाघा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	खैरीपैका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सिवनी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	राजना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00069	टेमनी साहनी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00070	हिवरा सेनाडवार	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00071	घोघरी साहनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	चिचोली बड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	बोथिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	आंजनगॉव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>बिहुरा</b>							
	<b>खमारपानी</b>							
		00012	घोराड	-	-	-	मक्का	-
		00013	घनेगॉव	-	-	-	मक्का	-
		00014	चिचगॉव	-	-	-	मक्का	-
		00015	आम्बाझिरी	-	-	-	मक्का	-
		00016	जमनिया खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00017	घाट कामठा	-	-	-	मक्का	-
		00018	खमारपानी	-	-	-	मक्का	-
		00019	गढेवानी	-	-	-	मक्का	-
		00047	पुलपुलडोह	-	-	-	मक्का	-
		00048	दुधगॉव	-	-	-	मक्का	-

		00050	थुयेपानी		-	-	-	मक्का	-
		00051	कुण्डई		-	-	-	मक्का	-
		00011	चन्दिकापुर		-	-	-	मक्का	-
		00049	देवरी		-	-	-	मक्का	-
	<b>बिछुआ</b>								
		00020	कपुरखेडा		-	-	-	मक्का	-
		00021	अम्बाडी		-	-	-	मक्का	-
		00022	तुमडागडी		-	-	-	मक्का	-
		00023	पानाथावरी		-	-	-	मक्का	-
		00024	आमाकुही		-	-	-	मक्का	-
		00025	झामटा		-	-	-	मक्का	-
		00026	सामरबोह		-	-	-	मक्का	-
		00027	गोनी		-	-	-	मक्का	-
		00028	बिछुआ		-	-	-	मक्का	-
		00029	लोहार बतरी		-	-	-	मक्का	-
		00030	उल्हावाडी		-	-	-	मक्का	-
		00031	करेल		-	-	-	मक्का	-
		00032	जमुनिया कलौ		-	-	-	मक्का	-
		00033	खमरा		-	-	-	मक्का	-
		00034	पिपरिया कलौ		-	-	-	मक्का	-
		00035	किसनपुर		-	-	-	मक्का	-
		00036	खैरीमाली		-	-	-	मक्का	-
		00037	सुरगी		-	-	-	मक्का	-
		00038	गोया		-	-	-	मक्का	-
		00039	ग्वारीमाल		-	-	-	मक्का	-
		00040	थोटा माल		-	-	-	मक्का	-
		00042	पाथरी		-	-	-	मक्का	-
		00043	खमरिया माल		-	-	-	मक्का	-
		00044	सिलोटा कलौ		-	-	-	मक्का	-
		00045	सुरवानी		-	-	-	मक्का	-
		00046	कढैया		-	-	-	मक्का	-
		00041	गुमतरा		-	-	-	मक्का	-
	<b>मोहखेड</b>								
			<b>इकल बिहरी</b>						
		00041	खुनाझिर कलौ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00042	बडगोना जोशी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00043	शिकारपुर		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00045	लोनिया		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00046	लिंगा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00048	सरोरा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00049	पालामउ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00050	कामठी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00051	चारगाँव करबल		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00052	राजेगाँव		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00053	पठरानाई		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00054	जाम		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00055	चिखलीकलौ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00056	लहगडुआ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00057	बीसापुर कलौ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00058	भांडखापा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00059	पिन्डरई खुर्द		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00060	तुर्की खापा		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00061	अडवार		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00062	इकलबिहरी		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00063	मउ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00064	मोहखेड		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00065	गढमउ		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00066	हिवरा वासुदेव		-	-	सोयाबीन	मक्का	-
		00067	गोरखपुर		-	-	सोयाबीन	मक्का	-

			00068	सारंगबिहरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	झिरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00070	निशान दर्याव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00071	नवलगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00072	जाखावाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00073	ग्वारा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00074	करेर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00075	तारा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00076	तन्सरा माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00077	सिल्लेवानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	रंगारी तालाब	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00079	जमुनिया माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00044	अर्जुनवाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00047	गोरेघाट	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		<b>सावरी</b>							
			00001	उमरडोह	-	-	-	मक्का	-
			00002	धगडिया माल	-	-	-	मक्का	-
			00003	भवारी रैयत	-	-	-	मक्का	-
			00004	बेलखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00005	मुजावर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	मैहलारी बाकोल	-	-	-	मक्का	-
			00007	बीजागोरा	-	-	-	मक्का	-
			00008	हीरावाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00009	रजोला रैयत	-	-	-	मक्का	-
			00010	डोडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00011	परासिया बैतूल	-	-	-	मक्का	-
			00012	मैनीखापा	-	-	-	मक्का	-
			00013	छुराबोह	-	-	-	मक्का	-
			00014	लावाघोघरी	-	-	-	मक्का	-
			00020	करला कर्लो	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	टेमनी कर्लो	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00018	जुनापानी माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00021	पौनार	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00022	साँवरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00023	गुबरेल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00024	पालाखेड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	अम्बामाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00026	देवगढ	-	-	-	मक्का	-
			00027	लोहांगी रैयत	-	-	-	मक्का	-
			00028	शक्कररझिरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	महलपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00030	सारोठ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00031	सतनूर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00032	रजाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	बदनूर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	नरसला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	भूताई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00036	बिन्दरई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	खुनाझिर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00038	टिकाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00039	तिवडा कामथ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00040	खैरवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00015	गोविंदवाडी माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00016	मछेरा	-	-	-	मक्का	-
			00017	परधान घोघरी	-	-	-	मक्का	-
		<b>साँसर</b>							
		<b>लोधीखेडा</b>							
			00031	धोतकी	-	-	तुअर	-	-
			00033	बाघोडा	-	-	तुअर	-	-

		00034	हिवरा खण्डेरायवार		-	-	तुअर	-	-
		00037	घोटी		-	-	तुअर	-	-
		00039	रंगारी		-	-	तुअर	-	-
		00040	बैरागढ		-	-	तुअर	-	-
		00041	सवरनी		-	-	तुअर	-	-
		00042	मैहदी		-	-	तुअर	-	-
		00043	रझाडी बोरगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00044	लोधीखेडा		-	-	तुअर	-	-
		00045	बोरगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00046	रिघोरा		-	-	तुअर	-	-
		00049	बानाबाकोडा		-	-	तुअर	-	-
		00052	मेहराखापा		-	-	तुअर	-	-
		00053	ढोकडोह		-	-	तुअर	-	-
		00054	सायखेडा		-	-	तुअर	-	-
		00055	एल्कापार		-	-	तुअर	-	-
		00056	तिनखेडा		-	-	तुअर	-	-
		00057	खैरी तायगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00061	सांवगा		-	-	तुअर	-	-
		00062	मालेगाँव		-	-	तुअर	-	-
	<b>सौंसर</b>								
		00004	कोपरावाडी खुर्द		-	-	तुअर	-	-
		00008	पांगडी		-	-	तुअर	-	-
		00010	रामाकोना		-	-	तुअर	-	-
		00011	बिछुआ बग्गू		-	-	तुअर	-	-
		00012	घडैला माल		-	-	तुअर	-	-
		00014	उंटेकाँटा		-	-	तुअर	-	-
		00015	निमनी		-	-	तुअर	-	-
		00017	खाण्डसिवनी		-	-	तुअर	-	-
		00018	सौंसर		-	-	तुअर	-	-
		00019	कटैया		-	-	तुअर	-	-
		00020	जाम		-	-	तुअर	-	-
		00021	देवली		-	-	तुअर	-	-
		00024	मुंगनापार		-	-	तुअर	-	-
		00029	मोहगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00030	घोघरी खापा		-	-	तुअर	-	-
	<b>हरई</b>								
	<b>धनौरा</b>								
		00014	बेलपठार	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00015	दामाखोह	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00016	झिरना	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00017	कोठिया	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00018	मनकवाडी	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00019	सगोनिया	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00020	धनौरा	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00021	भूमका	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00022	जिल्हेरी	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00023	भालपानी	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00024	खिरदा	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00025	अण्डोल	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00027	तिन्सई	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
	<b>बटकाखापा</b>								
		00004	गांगई	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00005	अतरिया	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00006	भैंसाटण्ड	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00007	कामठी	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00008	भोईपार	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00009	चुरी साजवा	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00010	सालदाना	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00011	बटकाखापा	धानअसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-

		00012	आंचलकण्ड	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00013	बांका	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00026	पलानी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00028	थारवा	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00029	मडई	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00030	चोपना	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00031	देवरी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00032	बिछुआ	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00033	चुरी खुर्द	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00034	सांभरबोह	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00003	ओझलदाना	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00002	चिलक	-	-	-	मक्का	-
	<b>हडाई</b>							
		00053	अहरवाडा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00054	खमतारा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	रैयाराव	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00056	कोहपानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00057	धरमी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00058	गौरपानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00059	करेर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00060	छाता कलाँ	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00061	बसुरिया खुर्द	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	राजढाना	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00063	सेजवाडा कलाँ	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00064	हडाई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00065	बुढेना	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00066	जमुनिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00067	सूरला	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00068	खापा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>हरई</b>							
		00035	रातोमाटी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00036	बुढेना	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	छिन्दा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	परतापुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00039	घोघरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	मैहदा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	मोहरिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	नवलपुर	-	-	-	मक्का	-
		00043	तेन्दुखेडा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00044	तेन्दनी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	भेडा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	सूखापुरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00047	अमारी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00048	हरई	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00049	बारगी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00050	मुआरसानी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00051	साठिया	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00052	सलैया बुलाकी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर								
			00090	नांदा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00091	अलौनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00092	रामगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00093	बरसिधा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00094	देवरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00095	बिलासर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00096	खुडिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00097	अमरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00098	भाखा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00099	मोहनझिर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00100	गिठोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00101	बटिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00102	खरगहना मय बसनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00103	बोधघुडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00104	इंडिसरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00105	निघोरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00106	भानपुर रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00111	अंधियार खोह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00112	जलेगांव रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00113	मोहारी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00114	कोको रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00107	मनोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00108	चारपानी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00109	कमको मोहानिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00110	धैवरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
	डिंडोरी									
			00042	हिनोता माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	बिजौरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	देवरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	डांडविदयपुर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	मडिया रास		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	कूडा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	सिमरिया माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	सरहरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	चटुवा रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00062	डांड बिडिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00063	घानाघाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00064	कनई सांगवा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00065	धनुआ सागर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00066	खिरसारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	डिण्डोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00069	औरई माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00071	रयपुरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00072	इमलई माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00068	सुब्खार माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00070	सुब्खार रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-

	न्यौसा								
		00046	पडरिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	देवरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	नारायणडीह रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	माधवपुर रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	नेवसा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	बसनिया माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00052	पडरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	पांडी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	धुरा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	रुसा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	उदरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बम्हनी</b>								
		00128	जाताडांगरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00129	डुंगरिया रैयत		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00130	सालहेघोरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00131	अण्डई रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00132	खान्ही माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00133	बरगांव रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00134	जाडासुरंग		धानअसिचित	-	-	-	-
		00135	किवाड रैयत		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00136	दामी तितराही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00137	करेगांव रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00138	किवलारी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00139	बम्हनी माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00141	मोहगांव रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00140	हडसिगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00142	मोहती रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00143	मानिकपुर माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00145	भांजीटोला माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00146	लदवानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00147	अतरिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00148	चांदरानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00144	सरई माल		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>विक्रमपुर</b>								
		00001	केलवारा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	सरई रैयत		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00003	जमगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	अमनी पिपरिया माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	दूधी मझौली रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	छिवली माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	बटौधा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	पाकरबधरा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	चिचरिंगझर रैयत		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00011	सिलहरी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	मेर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	खमरिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	दुहनिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	सारंगपुर पडरिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	नुनखान रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	आनाखेडा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	घुसिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	दरौ मोहगांव माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सहजपुरी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	विक्रमपुर रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-

		00027	कसई सोढा रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>शाहपुर</b>							
		00017	कुई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	अझवार माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	गनवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	तेन्दुमेर मोहतरा रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	गनेशपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	चौरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	मुडिया खुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	केवलारी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	जूनवानी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	मिडिया कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	विदयपुर रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	पलकी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	बरगई माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	रकरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	नरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	शाहपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	धमनगाव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	राम गुढा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	सारस ताल रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	बूडन रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>सक्का</b>							
		00073	किसलपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	रमपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	खैरदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	सक्का	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	भैसवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	उमरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कमरासोढा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	बहेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	धनवासी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	मिडिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	झिलमिला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	साम्हर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	चांदपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	सिधौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	भवसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	परसेल	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>समनापुर</b>							
		00115	बिलाई खार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00117	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00118	मारगाव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00119	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00120	सुन्दरपुर रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00123	प्रेमपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00124	कोकोमट;टा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00125	नानडिण्डोरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00126	समनापुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00127	देवलपुर रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00151	छाटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00152	किवटी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00153	माधोपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00154	कचनपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00155	खाम्हा	धानअसिचित	-	-	-	-

		00156	कुकरामठ	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00157	बुडरूखी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00122	मुकुटपुर रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00149	सरई माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00150	पडरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00116	मझगांव रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00121	झांकी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>बजाग</b>							
	<b>करंजिया</b>							
		00223	उमरिया रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00224	बरबसपुर माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00225	सेनगुडा रैयत	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00226	रूसा माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00227	बुन्देला रैयत	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00228	रामनगर रैयत	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00229	बरनई माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00230	मेढाखार माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00231	गारकामट्टा रैयत	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00232	किरंगी माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00233	खन्नात माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00234	करंजिया माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00235	बाँदर रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00236	रैतवार माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00237	नारी ग्वारा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00209	पाटनगढ माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00211	काटीगहन रैयत	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00212	परसेल माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00222	जारासुरंग माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>गाडासरई</b>							
		00158	गीधा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00159	पिण्डरूखी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00160	कारोपानी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00161	खरगहना	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00162	बिड़ौली माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00163	सुनियामार माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00164	कोडिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00165	सुन्हादादर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00166	उफरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00167	बाँदर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00168	सुनपुरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00169	सुकुलपुरा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00170	बरगांव माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00171	केवलारी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00172	करौदा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00173	गिरवरपुर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00174	बछरगांव माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00194	गाडासरई	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00195	बरसोत माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00196	मझियाखार माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00197	गन्नागुडा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00198	शोभापुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00199	किकरा तालाब रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00200	परसवाह	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00201	पथरकुचा रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>गोरखपुर</b>							
		00202	मोहतरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00203	भूसा मण्डी माल	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-

		00204	बहन्नी उर्फ धवा डोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00205	गोरखपुर माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00206	चन्दना रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00207	मानिकपुर रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00213	सैलवारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00214	विठलदेह		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00215	झनकी माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00218	जुगदेही		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00208	भुसण्डा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00210	भलखोहा माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00216	सढवाछापर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00219	खान्हाखुदरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00220	चकमी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00221	गोपालपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00217	बाहरपुर रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बजाग</b>								
		00175	घोपतपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00177	सरवाही माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00178	सिंधपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00179	आमा डोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00180	दुल्लोपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00181	पडरिया डोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00184	सारंगपुर माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00185	भानपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00186	मिठली रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00187	भुरसी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00188	बिलईखार माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00189	अंगई माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00190	सिंजारसती रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00191	विक्रमपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00192	लालपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00193	धनौली माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00176	पिपरिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00182	बजाग माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00183	बजाग रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>शाहपुरा</b>								
	<b>अमेरा</b>								
		00036	पिपरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	पलकी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	अमठेरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	दुबामाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	मालपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	अमेरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	राखी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	पटपरा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	देवरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>कोहानीदेवरी</b>								
		00017	पिपरिया माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00019	सरसवाही माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00020	बढईगढ माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00021	ददरगांव		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00022	मटका रैयत		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00023	खैरभगदू माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	गुरैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	दल्काखम्हरिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-

		00049	देवरी कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	कजेहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बिछिया</b>							
		00051	गुतलवाह	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	रावन कण्ड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	टिकरा सरई उर्फ बांसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	दल्कासरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	छपरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	कटंगी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00058	देवरी कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बडझर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	मोहनी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	बिलगढा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	कटरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बिछिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	भानपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>महदवानी</b>							
		00076	मनेरी रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00078	सारस डोली माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कोसम घाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	सूरजपुरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	डोकरघाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	मटियारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	महदवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	डुलहरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	भुरका	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	धमनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	कठौतिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	बरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	पारापानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00092	खजरवारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	सरसी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00095	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00096	उमरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00097	सुखलौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00098	जरहानैझर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00099	पायली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00100	जैतपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	सारंगपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	कनेरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	फुलवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00094	चिरपोटी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00101	कन्हारी	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रयपुरा</b>							
		00002	पायलीघुघरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	धिरवन कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	घुसिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	डौंभी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	देवगांव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सरसवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मानिकपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	भरौठी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	रयपुरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	दुल्लोपुर	धानअसिचित	-	-	-	-

20/5/17

		00015	सांगवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	सरई माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	बस्तुरा माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	पडरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	घिरवन खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00001	मोहरा कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	मिलाई माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	मगर मयटगर		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>राई</b>								
		00102	छीरपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00103	पढरीटोला माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00104	राघोपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00105	खम्हरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00106	चौबीसा माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00107	कलगीटोला माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00108	भलवारा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00109	जरगुडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00110	राई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00111	खरगवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00112	भौडासाज माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00113	केवलारदर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00114	बुल्दा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00115	मसूरघुघरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00116	धनगाव		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>शहपुरा</b>								
		00024	देवरी खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	भीमपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	मरवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बरोदी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	टिकरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	गनेशपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	झगरहटा डुंगरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	ढोडा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	बिलगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	करौंदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	बांकी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	रनगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	शहपुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	बिजौरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	बरखेडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कारी गडहरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	कचनपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	इन्दौरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	चन्दवाही माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	सग्रामपुर माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
कटनी	ठीमरखेडा	उमरियापान								
			00001	PADARBHATA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	MAHAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	PONIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	SAILARPUR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	KANOJA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	BHULA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	SARSWAHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	DHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	IMALIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	MARHANA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	BARELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	TOLA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	DEORIMANGELA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	MAGELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	BARODA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	PACHPEDI		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00017	UMARIAPAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	GHUGHARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	PARSEL	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	KACHHARGAW		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	MAHNER		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	BAMHNI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	HARDI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	PIPARIYASAHAVAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	DEORIPATHAK	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	BHATGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	KHANDWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	ठीमरखेडा									
			00029	JIRRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00030	BHAMKA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	JHINNAPIPARIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	SAGONA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	PIDRAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	BARELI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00036	DHIMARKHEDA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00037	THIRRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	SIMARYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00039	DEORI BICHHIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	SANKUI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	MURWARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	PODIKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00043	PODIKHURD	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	PIPARIASHUKL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	KHAMHA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	ANTARVED	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00048	DASHARMAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00049	ITOLI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00050	BARHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00051	KHAMRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	GAURA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	KACHHARGAW	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	GHANA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	GOPALPUR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	GUDA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	PALI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	LALPUR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	ATARSUMA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	SILODI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	NEGAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	KACHNARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	MAHAGAWA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	DADARSIHUDI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	KOTHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	KATRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00067	ATRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00068	DEORI MARWAHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	PAHRUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	KHAMTARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	BICHUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	KHAMHRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	AMAJHAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	BANDH	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	BARHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>बडवारा</b>								
		<b>बडवारा</b>							
		00001	MAJHAGWAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	PATHRA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	BADERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	BHAGANWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	BADAGAWN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	NANHWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	BACHARWARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	RUPOUND		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	BADWARAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	LAKHAKHERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	ROHANIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	BANEHARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	AMADI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	NANHWARAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	BARCHEKA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	NIGAHRA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	BASADI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	SUDDI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	BHADORA-2	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	LUHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	VILAYATKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	SALAIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	BHADAWAR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	BARGAWA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	BAJIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	PASOKHAR		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	KACHHARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	BIJORI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	PATHWARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	BHUDSA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	PARSEL		धानअसिंचित	-	-	-	-

बरही	बरही									
		00001	sirojagadriya	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	PIPAIYAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	KHIRHNI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	CHHIDAHAIPRIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	LURMI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	BANAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	BUJBUJA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00009	KARODIKHURD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	BARHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	KANNOR	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00012	BICHPURA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	KARODIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	KATHIAMAHAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	NADAVAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	SUTARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	BARANMAHAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	SALAIASIHOGHA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	KUWA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	BAMANI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	KARELA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	HADRAHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	KHITOLI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	BAMHORI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	JAGUA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	HARRWAH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>मंडवारा(कटनी)</b>									
	<b>पहाडी</b>									
		00028	SARSWAHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	KATANGIKALA		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	JHALWARA		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	PADRIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	HIRWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00033	PIPARIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00035	KACHHAGWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	GANIYARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00037	GULWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00045	DEORITOLA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	PADUA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	GAITRA		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	BADKHERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00049	HIRAPURKAUDIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00050	BHANPURA-1	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	CHHAHRI		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	TAKHALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	JARWAHI		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	PIPRODH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	LAKHAPTERI		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	BANDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	PAHADI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	BHANPURA-2	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	BICHUA		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	SAHJPUR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	GUBRADHARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00062	SINGHANPURI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	KEVLARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-

		00064	SALAIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	DEORIHATAI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	TEDI		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>मूडवारा-2</b>								
		00001	BADERA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	KACHHAGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	BISTRA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	JOBKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	KHAMTARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	PILOJI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	KANHWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	MATWARPADRIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	PATWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	KAILWARAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	GHAGHARIKHURD	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	GHANGHARIKALAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	KHADOLA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	HARDUA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	KUDO		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	KHARKHARI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	POSARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	JUHLI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
<b>रीठी</b>									
	<b>रीठी</b>								
		00001	NAYAKHEDA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	GODANA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	KATHOTIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	BADGOWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	TIGHARAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	GURJIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	LALPURA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	AMAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	NAIGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	BAKLEHTA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	KAINA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	BARJI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	RUDMUD		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	BHARATPUR		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	PATEHRA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	KARAHYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	SIMRADI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	DANG		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	MUHAS		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	UMARIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	BASUDHA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	BARAHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	RITHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	DHANIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	HARDWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	SIMRA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	KHAMHRIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	DEORAKALA		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>दिलहरी</b>								
		00028	SAIDA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	HATHKURI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	PATOKA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	JAMUNIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00033	SIMRA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	DEOGAWAN		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	SUGWAN		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	BIRUHALI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	NITRRA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	PODI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	BANDHA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	IMLAJ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	KUMHARWARA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	GHUDHAR		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	BADKHERA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	BARYARPUR	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	TILAGWAN	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00046	THANORA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	BILAHRI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	BADAGOWAN		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	KARHIYA KALA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	KAIMORI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	RAIPURA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	KHAMHRJA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	GHUGHRA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	KHARKHARI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	PIPARIA PAROHA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	DUDARI		धानअसिचित	-	-	-	-
	विजयराघवग								
		बिजयराघव गढ							
		00003	KHARKHAI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	SANGWARA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	HARDUAKALA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	PADKHURI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	BHAISWAHI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	MOHAS	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	MUDHARA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	JUGIA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	PADWAI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	KANTI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	SIJAHNI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	PAUNIYA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	JIWARA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	DEVSARIINDOR		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	TIKARYA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	DEORAKALA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	JIJNODI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	GORHA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	BANJARI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	DEORIMAJAGAWAN		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	KHIRWAN 2		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	SALAIKOHARI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00040	HARRAIYA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	DURJANPUR	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00044	CHARI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00045	KARITALAI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	BAMHORI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	KASMA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	PARASWARA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	JAMUWANIKALA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	JHIRIYA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	HARDUA		धानअसिचित	-	-	-	-

	सिनगौडी	00021	BARAHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	RAJARWARA 2	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	GHUNNR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	ROHANIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	HANTALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	PIPPA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	CHORI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	GUDEHA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	TIKAR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	KHAJURA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	SIGHANPURA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	HATHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	CHAPANA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	PATHARAHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	SINGODI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	KUNDREHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	SIJAHRA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	URDANI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	GOHAWAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	DIDHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	DEORAKHURD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	DOKARIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	DHAVAIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	UBARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	TIMUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	GAIRTALAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	KUTESHWAR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	ITORO	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	HARDUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	KHIRWA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	MADWA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00075	KAREHA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	होरीबन्द								
	बहोरीबन्द								
		00023	SUPELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	PAKAR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	RAMPATAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	MOHANIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	AMGAVAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	BAHORIBAND	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	TIGWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	DIHOTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	PATHRADI PIPARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	KUDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	JUJHARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	DEWRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	BADKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	MOHANIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	KUDAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	SIMRAPATI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	SINDURSI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	TAMURIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	KAKREHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	HATHIYAGAD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	AMARGADH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	SOMAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	BACHYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00046	BUDHANWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	BHAKHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	PAUDI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	KIRHAI PIPARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	BADKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	NEEMKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	RAKHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	KUWA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	SALAYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>बाकल</b>								
		00001	GAURHA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	IMALIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	KHAMARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	KUDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	PATIRAJA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	MASANDHA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	AMADI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	CHADANKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	BASAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	BAKAL	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	MAJHAGVAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	PATIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	KUMHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	PATORI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	SIHODI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	PIPARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	PATNA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	KIWLARHA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	MOHTARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	KHAMTARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	BARTARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	BARHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>स्लीमनाबाद</b>								
		00055	JUJAWAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	NIMAS		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	AMOCH		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	CHAPRA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00059	SALYA PHATAK		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	SIHODI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	SLEEMNABAD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	PADWAR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	KAUDIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	BANDHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	DHURI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	CHARGWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	MAVAI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	PAHARUVA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	KHIRAHNI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	TIHARI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	BHEDA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	BICHUVA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	SALAYA PYASI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	LAKHANWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	GUDRI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	SANSARPUR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	MATWARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00079	BANDHI STATION	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
दमोह	जबेरा									
	जबेरा									
			00039	पटी महाराजसिंग		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	जलहरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	घाना		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	कलेहराखेड़ा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	भाट खमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	बंशीपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00045	डेलनखेड़ा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	कोरता		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	खेरीसिंगोरगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	सुरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	करनूपरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	जबेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	मुड़ेरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	दुगानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	नोहटा									
			00017	कुलुवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00018	साखा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	घोघरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	नोहटा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00021	गूढा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	बीजाडोंगरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	मुड़ारी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00024	कटंगी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	परासई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	बिजोरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	खमरिया मौजीलाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	हिनीती खेतसिंग		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	हरदुवा सड़क		धानअसिंचित	-	-	-	-
	बनवार									
			00001	हिनीती ढेंगापटी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	मौसीपुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	झरोली		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	बनवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	घटेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	मनगुवा मानगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	हरदुवा मानगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	लरगुवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	परस्वाहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	गोलापट्टी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	सगरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	इमलिया मानगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	रीछई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	रौंड		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	पटना मानगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	मनगुवाघाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
	सियामपुर									
			00054	सगोड़ी खुर्द		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00055	पौड़ी मानगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	अमदर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	भजिया		धानअसिंचित	-	-	-	-



		00023	अजीतपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	खमरियाकला	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	सैलवाड़ा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	मिहगुवां खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	सहजपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	इमलीडोल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	नरगुवांमाल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	झरोली	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	तेन्दुखेड़ा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	बैलवाड़ा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	जामुनखेड़ा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	बम्हारी पांजी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	बांदीपुरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00038	धनगौरकला	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>तेजगढ</b>							
		00001	दिनारी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	कुलुवा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	देवरी लौलाधर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	करोदी सिंगोरगढ	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	छिरकोना	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	सुनवाही उमरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	पतलोनी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	सिंगौरगढ	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	समदई	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	हरदुआ हाथीघाट	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	मोहरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	बैरागढ	धानअसिंचित	-	-	-	-
<b>दमोह</b>								
	<b>अभाना</b>							
		00061	रंजरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	दतला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कनियाघाट पटी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	सेमरा मड़िया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	हरदुवा मुडर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	अभाना	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	बिसनाखेड़ी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	जोरतला खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	पिपरिया हथनी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	ग्वारी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	मारुताल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	अथाई	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	बिजोरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	भूरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>इमलिया घाट</b>							
		00075	अधरोटा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	पटना बुजुर्ग	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	दसोदा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	अर्थखेड़ा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00079	सगोनीकला	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00080	टोरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00081	सलैया हटरी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00082	देवरी जामदार	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00083	इमलियाघाट	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00084	मनका	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00085	हरदुवा खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00086	हिनीती रामगढ	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00087	सुहेला	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00088	खामखेड़ा कला	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00089	रामगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	लकलका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	झापन		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>दमोह-1</b>								
		00001	खेरुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ढिंगसर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मुडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरोदा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	आंवरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	समन्ना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सिंगपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	करैयाराख		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	महतपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खजरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	उमरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पायरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खिरिया मण्डला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	परसोरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	कुवरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	इमलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>दमोह-2</b>								
		00031	दमोह खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	जमुनिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बांदकपुर</b>								
		00048	घाट पिपरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पिपरिया टिक		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	नोनपानी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बम्होरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	बांदकपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	केवलारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	रेयाना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मुडारी जुझार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	हलगज		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	टिकरी बुजुर्ग		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बलारपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	खईरा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>हिन्डोरिया</b>								
		00035	आनु		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	भदोली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	गुंजी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00038	लुहरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00039	आमखेड़ा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	कादीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कुआंखेड़ा नायक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	आंखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	विलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पटोहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	छापरी ठाकुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खामखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	हिण्डोरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>हिरदेपुर</b>								
		00018	बरवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सिहोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बांसा तारखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	धनगौर गुंजी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बालाकोट		धानअसिचित	-	-	-	-

		00024	तेजगढ खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	भीलमपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बांसनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	हथना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	किल्लाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पिपरिया दिगम्बर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पटेरा</b>								
	<b>कम्हारी</b>								
		00043	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	जमुनिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	बमनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	बेलखेड़ी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	हिनौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	कम्हारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	कुलवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	मझोली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	देवरी रतन		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	धनगुवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	पटना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	खमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	गाड़ाघाट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	मंझगुवां हंसराज		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	पटेरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	सागोनी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>देवडीगरा</b>								
		00018	कुडई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	नागमणि	धानसिचित	-	-	-	-	-
	<b>पटेरा</b>								
		00027	रमगढ़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बमनपुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	कुण्डलपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	पटेरा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>लूहारी</b>								
		00002	कुटरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	लूहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इटवा हीरालाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	कजरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बनगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रंवड़ाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पथरिया</b>								
	<b>नरसिंहगढ</b>								
		00028	बरखेरा दुर्गादास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	असलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चिरोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	किशुनगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	नरसिंहगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	रानगिर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सीतानगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	देवलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	मनकोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बड़गांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खंजराकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	इमलीजोग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पिपरिया चंपत		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	हरदवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पिपरिया छक्का		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पुरा पायरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पथरिया</b>								
		00001	सासा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00002	सुजनीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	केवलारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सेमरा हजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नेगवां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	लखरोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बोतराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जमुनिया माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	नंदरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बांसाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पथरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रजवांस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	किन्द्रहो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बेलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	शाहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सदगुवां</b>							
		00044	जारतला कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खेजाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सेमरा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	ममरखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	बकेनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	पिपरिया छक्का	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मोहनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सदगुवां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	भौरासा पुरना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	हिनीता नर0	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	देवरान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बरधारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	झागर बालाकोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कुमेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	पिपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	महदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सूखा</b>							
		00006	सतपारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जगधर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मिहलवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सूखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बिलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खजरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सेमरा लोधी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मिर्जापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	खिरिया शंकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बोबई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खेजरा लखरोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सुहाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गूढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	जेरठ	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बटियागढ</b>							
	<b>खडेरी</b>							
		00045	चैनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	हिगवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सकतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	धौराज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	निबोराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सिडेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कैथोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	तिंदुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पथरिया कैथोरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00054	आलमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	खड़ेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	गुगराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	केरबना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सीगोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बम्होरी लड़ाई	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>फतेहपुर</b>							
		00001	सादपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सिंगपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	खमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भिलोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पोंडी फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नीमी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	लिधोराहारट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पांडाझिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	रौसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	हारट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बरोदाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बटियागढ</b>							
		00030	फुटेराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	घुराटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	अंगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	शहजादपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बटियागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सैझरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बसिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खिरिया असली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मडोला खाण्डे	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बम्होरीभाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	अहरोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	लुकानयन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बकानयन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	मोठा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मगरोन</b>							
		00016	हरदुवा जामशा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मगरोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सगरोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	हिनीती उददेशा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बेलापुरवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कनोरा रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	घुघस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	आंजनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बेलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सुनवाहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मंगोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	गंजबरखेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	मेनवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>हटा</b>							
	<b>मडियादो</b>							
		00008	मडिया दो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	देवरी फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	चकरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	काईखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	शिवपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	माधो	-	सोयाबीन	-	-	-

		00015	मलवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कनकपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	पाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पाठा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	निवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	वर्धा		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>रजपुरा</b>							
		00001	रजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दमोतीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	नारायणपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अमझिर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चौरइया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	घोघरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>रनेह</b>							
		00044	भैंसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पिपिरया किरउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	नयागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	रनेह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बिजवार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बंधा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00052	कौशलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बरखेरा चैन		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>हटा</b>							
		00028	उदयपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कांठी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सनकुइया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पाजी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	हटाखास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	विनती		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	हरदुवासडक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	निमरमुण्डा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कुलुवाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	कुंवरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	भिड़ारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	रसीलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>हिनौता</b>							
		00021	खमरगोर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	हरदुवा उमराव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	दादपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मुहरई हटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खमरिया कलार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मुराछ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	देवरागढी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सकौर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	हिनौताकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कचनारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	गर्ह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	गैसाबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बलेह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	तेवरइया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	देवरा जामशा		-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
टीकमगढ़	खरगापुर	कुडीला										
			00019	चन्द्रपुरा				सोयाबीन	-	-	-	-
			00020	कुडीला			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00021	रमपुरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	धरमपुरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	देरी			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	धनेरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	छिंदारी			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	पचेर खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	पिपरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	भानपुरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	टीला			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	कोटरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	दोह			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	खजुरार			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	चदेरी खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00034	दूबदेई			-	सोयाबीन	-	-	-	-
		खरगापुर										
			00001	पिपरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	श्यामपुरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	सरकनपुर खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	सिजौरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	चौबारा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	गोरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	गुना			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	मातौल खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00009	पथरगुवां			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00010	खेरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00011	फुटेर चक्र 2			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00012	फुटेर चक्र 1			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00013	देवपुर			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00014	खरगापुर			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00015	बडेरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00017	खरौं			धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
			00018	फरका पठराई			-	सोयाबीन	-	-	-	-
	जतारा											
		जतारा										
			00020	मुहारा खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	लिधौरा ताल			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	जतारा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	टानगा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	मचौरा			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00038	हृदयनगर			-	सोयाबीन	-	-	-	-
	टीकमगढ़											
		टीकमगढ़										
			00001	कांटी खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	हीरानगर			-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	कारी खास			-	सोयाबीन	-	-	-	-

		00004	आलमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	गोपालपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	पहाडी खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बडौरा घाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मऊघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नयाखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बौरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	महराजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गनेशगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	शिवपुरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मामीन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	श्रीनगर खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मजना खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	पपावनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रानीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	लखौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बडमाडई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मवई खास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	जसवन्तनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बडागांव</b>								
		00060	लार खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बडमाडई खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	लक्ष्मनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	नन्नही टेहरी खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बुडेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	डिकोली चक्र 1		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	नयागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	भैरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	रामनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	दरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	अमरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	परा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	दरगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	डूडा टौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	मोखरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बडागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	अन्तौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	डूडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	हैदरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	ऊमरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	भैसवारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	ककरवाहा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	भेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	सुजारा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>समरी</b>								
		00036	माडूमर खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पहाडी तिलवारन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नचनवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मिनौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	चरपुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	करमारई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	हरपुरा मडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कुम्हरऊ खिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	धनवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	अस्तौन खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	जुडावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पठा खास		-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	सुन्दरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	नैनवारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बकपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	गुदनवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	समरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सुकवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सापीन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	अजनौर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पातरखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	राधापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बम्हौरी मडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>निवाडी</b>								
			<b>तरीचरकला</b>						
		00028	तरीचर कला		-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>निवाडी</b>						
		00014	असाठी खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	टेहरका खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	निवाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पलेरा</b>								
			<b>पलेरा</b>						
		00028	लारोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बखतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हनीता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बन्ने बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पलेरा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बूदोर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	टपरिया चौहान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	महेन्द्र महेवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	गुडा नज.पाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	टोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रामनगर बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पुरेनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>वराना</b>						
		00004	निवौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	वराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कुडयाला		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>प्रथ्वीपुर</b>								
			<b>जेरोन खालसा</b>						
		00037	जेरोन खालसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	डिरगुंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	ममोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	लुहरगुंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ककावनी खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	चिरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पाराखेरा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बारहो बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>पृथ्वीपुर</b>						
		00050	मडियाखास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	जेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	जेवरामोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बल्देवगढ</b>								
			<b>डारगुवा</b>						
		00028	शेलसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बडाघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	एरीरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कन्नपुर		-	सोयाबीन	-	-	-

		00042	मलगुवां		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बल्देवगढ</b>								
		00001	मझगुवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	हीरापुर नजदीक सरकनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	भिलौनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	राजनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	करमासन हटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	वैसा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	देवीनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	दुर्गानगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	लडवारी खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कछयाखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	अहर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नारायनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	डूडाखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लुहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	डुम्बार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गनेशपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	तालमऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	वृषभानपुरारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	वनैरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	गुखरई खास		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	लखैरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	केलपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बल्देवगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	जिनागढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सुजानपुरा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	जटेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मोहनगढ</b>								
	<b>गोर</b>								
		00023	मालपीथा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मौगना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गोर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	दरगांय कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	वनगांय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	विजरावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पडवार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	रामनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	मडखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मोहनगढ</b>								
		00001	केशवगढ खास		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>तिथौरा</b>								
	<b>तिथौरा</b>								
		00003	बम्हीरी खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	छिपरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	तिथौरा खास		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>स्यावनी खास</b>								
		00018	कछियागुडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हरकनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**कृषि मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सीधी	कुसमी	कुशमी								
			00017	भदौरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00018	कतरवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	धुपखड		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	खोखरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	शकरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	गोतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	मेडरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	रामपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	टमसार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	बुडआधार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	ठाढीपाथर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	दुआरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	कोडार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	रौहाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	गाजर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	जूरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	भगवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00034	कुसमी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		पोडी								
			00002	चिनगवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	डेवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	खाखर		-	-	तुअर	-	-
			00005	उमरिया		-	-	तुअर	मक्का	-
			00006	पिपराही		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	बस्तुआ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	पोडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	कोटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	खैरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	ददरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	हदी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	लुरधुआुटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	कुन्दौर		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00015	अमगाँव		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00016	कमछ		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		भुडमाड								
			00035	रूदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	मझिगर्वी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00037	सोनगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	गैवटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	भुडमाड		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	करैल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	केसलार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	अमरोला		धानअसिंचित	-	-	-	-
	गोपदबनास									
		गांधीग्राम								
			00025	सेन्दुरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	कोचिला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	डोलकरैठार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

	00028	बरमबाबा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00029	पडखुरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00030	गांधीग्राम		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00031	कठास			-	तुअर	-	-
	00033	कठौली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00035	सुकवारी म०	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00036	बघवारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00037	खिरखोरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00040	तेन्दुआ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00041	करगिल	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00042	भेलकीखुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00043	कुवाह	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00044	अमरवाह	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00045	नौगवा दर्शन सिंह	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00046	पनवारबघेलान	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00047	पनवारचौहान	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		<b>वृत्त सेमरिया</b>						
	00002	रामगढ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00004	झगरहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00005	बरिगवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00006	बदौरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00007	कुबरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00008	बम्हनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00009	ओबरहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00010	देवगढ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00011	रैठी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00012	बारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00013	चौफालकोठार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00014	चौफालपवाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00015	खाम्ह	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00016	सरेठी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00017	माटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00018	सलैहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00019	करवाही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00020	छवारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00021	बरहाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00022	उडैसा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00023	बरमानी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00024	भगोहर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		<b>शिवपुरवा</b>						
	00079	पिपरोहर		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00080	भमरहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00081	शिवपुरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	00082	मडवा		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00083	बेदुआ		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00084	उपनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	00085	कुकुडीझर		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00086	जमुनिहा कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00087	बमूरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00088	कोचीटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00089	भाठा		धानअसिंचित	-	-	-	-
	00090	हडबडो		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
	00091	सिरसी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
	00092	तेगवा		-	-	तुअर	मक्का	-
	00093	छुहिया		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00094	सारो कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	00095	पडरी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-

	सीधी गिर्द प्रथम								
		00062	बिसुनी टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	सतनरा पवाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	खैरही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	महराज पुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	गाडा बबन सिंह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	जोगीपुर दक्षिण		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	कोठार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	गाडा लोलर सिंह		धानअसिचित	-	-	-	-
	सीधी गिर्द द्वितीय								
		00048	नौदिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00049	डेन्हा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00050	मोहनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00051	जमोडी कला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00052	जमोडी खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00053	नौगवा धीर सिंह	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00055	बंजारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00056	पडरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00057	मोहरिया कला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00058	पटेहरा कला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00059	पटेहरा खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00060	रामपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00061	बैरहा पूर्व	धानसिचित	-	-	-	-	-
	चुरहट								
	चुरहट								
		00001	बड़खरा ७३४	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00002	बड़खरा ७४०	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	मोहनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00004	अमरपुर	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00005	कोष्ठा कोठार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	चुरहट	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00007	चदेनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	हदिहा पवाई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00009	बूसी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00010	बड़ोखर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00011	भेलकी ८२२	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00012	कपरी बेदौलिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	नकबेल	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	टकटैया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00015	साड़ा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	पड़खुरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00017	इदिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00018	दुआरा	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00019	पचोखर	धानसिचित	-	-	-	-	-
	धुम्मा								
		00020	मवई	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00021	टीकठकला	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00022	टीकठखुर्द	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00023	बघउ	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00024	शिवपुरवा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00025	धुम्मा	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00026	कूपरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00027	लकोड़ा	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00028	चिलरीकला	धानसिचित	-	-	-	-	-

		00029	डिहली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	बरिगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	लहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	उकरहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	मधुगोँव उत्तर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	<b>पटपरा</b>								
		00034	पटपरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	हिनीती नं.१	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	कमजी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	पटौउहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	पडरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	करुईखोँड	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	बघमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	कोल्हडीह	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	बढ़ौना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	कोटदरखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	सतैया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
<b>बहरी</b>									
	<b>कबरी</b>								
		00002	सरदा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	शिवपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	अमरपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	दुअरा कला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	खोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	गजरही उनमुक्त		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	बेलहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	सैरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	खैरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	कुचवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	जनकपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	पोखडौर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	तेदुहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	भितरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	खोचीपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	समरदह		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>देवगवाँ</b>								
		00025	पोखरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	पोडी		-	-	मक्का	-	-
		00029	पडरिया	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00033	गोडाही	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	इडिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	लौआ	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	पतुलखी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	जमुआर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	कुनझुन कला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	नकझर कला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	नकझर खुर्द	धानअसिंचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00044	खुटेली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	बरबंधा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	दुअरा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	बहरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	चदवाही	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	तरका	-	-	-	मक्का	-	-
<b>मंडोली</b>									
	<b>गिजवार</b>								
		00033	जमुआ नं.१	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	पनिहा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	नारो	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-

		00037	गिजवार		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00038	सिलवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	पथरौला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	चौहान टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	सिकरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बकवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	दरिया		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00048	कंजवार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>जोवा</b>								
		00012	दियाडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	जमुआ नं.२		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	ठोगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	जोवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	डागा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	देवई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	मुडहेरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	खडोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	सिरौला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	बनिया टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मझौली</b>								
		00001	नौदिया		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00002	चुनगुना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	चमराडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	करमाई		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00006	गजरी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00007	खन्तरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	तिलवारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	छुही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	ताला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मेडरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	मझौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	भैसवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	चुवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	पाड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	बोदारी टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पोडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	खमचौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	धनौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	नेबुहा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मडवास</b>								
		00031	चदोहीडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	दादर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00039	सहिजनहा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00041	जोडौरी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00046	टिकरी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00047	भुमका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	महखोर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	धुआडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	मझिगवाँ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	नदहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	मडवास	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00054	अमहिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	खजुरिहा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रामपुरनैकिन</b>								
	<b>खडडी</b>								
		00056	रतवार		-	-	तुअर	-	-
		00057	पैपखरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	मौरा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00059	बडेसर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	खडडी कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	खडडी खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	बरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	कोनिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	जमुनिहा नं.२		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	मोहनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	इटहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	धनहा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	उमरिहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	अहिरान टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	सतोहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	चकडौर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	कुसमहर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	<b>बघवार</b>								
		00001	पटना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	मझिगवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	भैंसरहा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00007	कपुरी कोठार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बुढगौना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	बघवार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	चोरगडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	नैकिन	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	रधनाथपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	गडहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	राधोभान सिंह						
		00018	बाघड धवैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	शिकारगंज		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	चोभरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	दिगविजय सिंह						
		00020	अगडाल		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रामपुर नैकिन</b>								
		00021	मउ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00022	मुर्तेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	रामपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00024	झाझ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00025	घटोखर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00027	मढा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	पटेहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	धुधटा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	झाला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	कधवार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	कुडिया पवाई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00034	पडखुरी ५८७		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	पडखुरी ५८८		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	ममदर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00037	झलवार	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00038	डिठौरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00039	भितरी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>हनुमानगढ</b>								
		00041	हनुमानगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	बेल्दह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	अकौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	नागवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	करौदिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	मडवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	बोकरो		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	खैरा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00051	पोस्ता		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	अमिलहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	झगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	गुजरेड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	चंदरेह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	गौरदह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	कठार		धानअसिचित	-	-	-	-
	सिहावल								
	अमिलिया								
		00024	अमिलिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	कोरौली खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	चमरौहा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	कोरौली कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	सेमरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	सजवानी कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	महूआर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00031	सुपेला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	हिनाँती	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00034	पमरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00035	लिलवार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	घोपारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	बल्हया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	चितवरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	बांकी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बमुरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	सवैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	सिहावल	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	दुधमनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00044	गेरूआ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00045	बधोर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मेढौली	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
	पहाडी								
		00001	हटवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	मुर्दाडीह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	चितान्ग		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	खोरवा टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	गहिरा		-	-	तुअर	-	-
		00007	धोधरा		-	-	तुअर	-	-
		00008	कारीमाटी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	तेदुहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	पहाडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	खडबडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	बिठौली	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	पिपरहा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	सोनवर्षा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	सहजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	तितली	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	कडियार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	डिहली खास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	डिहली नं.३	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	डमक		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	बधौडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	बडागाँव		धानअसिचित	-	-	-	-
		23	कोदौरा	धानसिचित					

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
				2017-2018	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
सिंगरौली	चितरंगी	कोरावल	00001	खम्हरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00002	बहेरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00003	खम्हारडीह	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00004	नेवारी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00005	कुलकवार	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-			
			00006	रेही	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00007	करौंदिया	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-			
			00008	बकिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00009	बोछी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00010	नैकहवा	धानअसिंचित	-	-	-	तुअर	मक्का	-		
			00012	गोपला	धानअसिंचित	-	-	-	-	मक्का	-		
			00015	क्यौंटली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-		
			00016	बडूम	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-		
			00017	तमई	धानअसिंचित	-	-	-	-	मक्का	-		
			00018	पड्डी खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-		
			00019	नौडिहवा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-		
			00020	खंडार	धानअसिंचित	-	-	-	-	मक्का	-		
			00021	बरवाडीह	धानअसिंचित	-	-	-	तुअर	मक्का	-		
			00011	फुटहवा	धानअसिंचित	-	-	-	तुअर	मक्का	-		
				चितरंगी									
						00045	बगदराकला	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00046	चितरंगी	-	-	-	-	मक्का	-
						00048	बूढाडोल	-	-	-	-	मक्का	-
						00050	शेरवा	-	-	-	-	मक्का	-
						00051	कुडैनिया	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00052	देवगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00053	पोडी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00057	धरौलीकला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00058	विजयपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00059	गडुवानी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00060	रजदहा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00061	पडरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00062	बरहट	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00065	धानी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00068	झौखो	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00069	खमरियाकला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00070	कर्धुआ	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00071	पराई	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00073	बैरदह	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00074	करलो	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
						00075	गिर	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00076	देवरी	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00077	दरवारी	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
					दुधमनिया								
						00083	भौंडार	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00084	पतेरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-			
			00086	धरसडा	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-			
			00096	पिपरा	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-			

		00097	पोडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00079	डाला		-	-	तुअर	-	-
		00088	सेमुआर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	कसर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	करेला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00094	बरवानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00095	बिरकुनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00098	दुधमनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00100	मटीहनी		-	-	तुअर	-	-
		00101	खोखवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00102	बगैया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00103	कपूरदेई		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00104	कतरिहार		-	-	-	मक्का	-
		00105	सिंधार		-	-	-	मक्का	-
		00106	बैरिहवा		-	-	-	मक्का	-
		00108	चकरिया		-	-	-	मक्का	-
		00110	खिरवा	धानसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00111	चतरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00112	चुरकी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
	<b>मौहरिया</b>								
		00022	लमसरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	नौगई		-	-	-	मक्का	-
		00034	घोघरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00035	खमनिया		-	-	-	मक्का	-
		00036	सूदा		-	-	-	मक्का	-
		00038	दार		-	-	-	मक्का	-
		00039	झरकटिया		-	-	-	मक्का	-
	<b>देवसर</b>								
	<b>देवसरगिर्द</b>								
		00016	इटार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	सहूआर		-	-	-	मक्का	-
		00020	मजौना		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00021	हरा चन्देल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	जोगिनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00023	पूरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00025	झखरावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बूढाडाड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	देवगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	उमरहर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	आमाँ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	बोडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>बरगवां</b>								
		00034	जुडवार		-	-	-	मक्का	-
		00037	बडोखर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	ओङ्गडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	बाघाडीह		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00041	देवरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00042	तिनगडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	उज्जैनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	मझौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	जोवगढ		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00050	भलुगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	दादर	धानसिचित	-	-	-	-	-
	<b>सरोंधा</b>								
		00003	बंधा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-

		00006	डोडकी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	सरौंघा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00011	कारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	अतरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00013	ढोगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	कुर्सा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00015	जियावन		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>माडा</b>								
		<b>अमिलिया</b>							
		00007	मलगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बेतरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	कोटिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कर्सुआराजा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	रैला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00013	सखौंहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	सिगाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	रजमिलान	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00019	भुडकुइ		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>माडा</b>								
		00021	बहरीकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00022	असनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	रौंदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पडरी राजाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	पौडीपाठ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	रौंहाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बुचरो		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	भदेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	धनगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	बिन्दूल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	जीर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	धरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	छत्तौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	धनहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	खम्हरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	मलगो		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	भाउखाइ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00048	जोगियानी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
	<b>सरई</b>								
		<b>खनुआनया</b>							
		00044	ओवरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	पचौर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00047	बकहूल		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00048	गजरा बहरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00049	गोरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00050	खनुआनया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00051	जमगढी		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00052	बंधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	तेन्दुहा		-	-	-	मक्का	-
		00054	भलयाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बजौडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00058	ताल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00059	भैसाबूडा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00060	लघाडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	डोंगरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	मझौलीपाठ		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>निवास</b>								
		00001	जावो		धानअसिचित	-	-	मक्का	-

		00003	नयाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	कछरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	कुचवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	छमरक्ष		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	पापल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	निगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कटई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	निवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	महुआगाव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	पोडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	बंजारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	गडई गांव		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00018	भरसेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	गीडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	धौहनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	महली		धानअसिचित	-	-	-	-
			सरई						
		00022	पिपरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पिड्डा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00025	कठदहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	पुरेल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	गन्नई		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00028	सराटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	बरका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	महरैल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00031	गोडबहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	साजापानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	झारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	बेलगाव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	दुधमनिया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00036	समूद		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	इटमा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	कोनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	नौदया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	धोधरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	सरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	पोखरीटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	दियागडई		धानअसिचित	-	-	-	-
	सिंगरोली								
			खटार						
		00001	गडेरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	चिन्गीटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	तेलदह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	डिग्धी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	पिपराझापी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पोडीनौगई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	गडहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-

		00009	खटखरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कंजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बिहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	चितरबईकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	गलिहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	जरीधी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	बनौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	सितुलखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	जरहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	कटौली		धानअसिचित	-	-	-	-

		00019	खुटार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	ढेकी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बैठन</b>								
		00027	धोरीलीकला		-	-	तुअर	मक्का	-
		00028	मेढौली		-	-	-	मक्का	-
		00029	पंजरेह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	कचनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	माजनकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	चन्द्रावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	नौगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>शासन</b>								
		00043	हिरवाह	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00044	काम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	मझौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	चाचर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बसौडा		-	-	तुअर	-	-
		00048	तियरा	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00049	पिपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	सिद्धिकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00051	सिद्धिखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	हरहवा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00054	करौटी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	पिपराकुन्द		-	-	तुअर	-	-
		00056	उर्ती		-	-	तुअर	-	-
		00057	बहरपान		-	-	तुअर	-	-
		00058	चरगोडा		-	-	तुअर	-	-
		00059	गोभा		-	-	तुअर	मक्का	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सतना	अमरपाटन									
		अमर पाटन								
			00025	सरबका		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00026	ककरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00027	मोहट		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00028	रैकवार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00029	परसवाही		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00030	लालपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00031	बरेहबडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	मोहरिया लालन		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00035	सुआ		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00036	नादनटोला		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00037	खरमसेडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00038	इटमा कोठार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00039	चोरखडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	ओबरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	मढी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00042	नौगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	कुम्हारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	देवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	भीषमपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	पठरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	गोरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	धौरहरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		ताला								
			00049	मझगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00050	घुड़सा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	इटमा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00052	पोडी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00053	बिगोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00054	सन्नेही बडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00055	डिठौरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	भदवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00057	झिन्ना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00060	परसिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00062	धोबहट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00063	आनन्दगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00064	ललितपुर नं0 2	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00066	जमुना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	मढी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00068	ताला	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00069	भडरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00071	बिधुई खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00073	मगराज	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00074	कठहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00075	डोमा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00076	अमझर		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		मोहारी कटरा								
			00001	कोरिगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	करहीलामी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00003	ऐरा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00004	दिनापुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सिलपरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00007	त्योधरा नं0 2		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	सेमरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रुहिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बेला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पैपखरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मढा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	झिरिया कोपरिहान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	पगरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खुटहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00017	महडर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00018	ककलपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00019	देउ		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मौहारी कटरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00021	अहिरगांव		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	उमरी शिवराजी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बछरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00011	केमार		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>उधेहरा</b>								
		<b>अटरा</b>							
		00017	श्यामनगर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पथरौधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	सेमरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खैरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जाखी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	अमदरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कुलगढी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मानिकपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	लालपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	नन्दहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पिपरोखर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	भरौ		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00029	अटरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	पोडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पिथौराबाद		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00032	वीरपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पतौरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00035	लोहरौरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बांधी मौहार		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00037	तिघरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जिगनहट		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>उधेहरा</b>								
		00054	पोडी गरादा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	गडौली	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	करही कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	करही खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00058	उरदना	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00059	पिपरी कला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00060	बिहटा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00061	गोवराव कला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00062	बंदरहा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00063	खूझा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00065	इटहा खोखरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00066	कोरवारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00067	रमपुरवा	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00068	इचौल	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00069	रगला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00070	नरहठी	धानसिचित	-	-	-	-	-

		00071	पथरहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	परसमनियां								
		00007	गढौत		धानअसिंचित	-	-	-	-
	लगरगवां								
		00038	बडखेरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00039	भटनवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेमरी दुवे	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00041	सहिजना उबारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बाबूपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बडखुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	भरहूत	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मतरी पतीरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	लगरगवां		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कुदहरी कला	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00052	अकहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	देवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	गुदुवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गोवराव कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	धनेह	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
कोटार									
	कोटार								
		00002	मोहनिया		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00003	तिहाई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	कोटार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अबेर	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00006	अकौना		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खम्हरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गोरड्या		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बरदाडीह		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00010	गजिगवां		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इटौर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	रजरवार		-	सोयाबीन	-	-	-
रामपुर	छिबौरा								
		1	बकिया तिवरियान	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	बर्ती	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	रामनगर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	रघुनाथपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	बेला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	छिबौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		5	मझियार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	महिदल कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	गाजन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	देवमउ दलदल	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		2	बकियाबेलो		-	सोयाबीन	-	-	-
		3	कंदवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	मढी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
कोटार	बिहरा								
		25	खाम्हा		-	सोयाबीन	-	-	-
		26	थशौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		27	गोलहटा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		16	लखनवाह		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		17	अधरवार	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		18	घोरकाट		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		19	पटना खुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		20	करही कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		21	बिहरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		22	चितगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		23	देवरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-

नामगौद	जसो	24	लौलाछ			सोयाबीन			
		00061	अतरीरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	सेमरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	उमरी ब्रजनन्दन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मढी कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	जसो	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कलावल जेरपाठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00068	पासी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	डुडहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	दतुनहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	रीछुल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	दुरेहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कपुरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	रुनेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00075	सिजहटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	अमकुई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>डाम्हा</b>								
		00024	कतकोन कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	गिन्जारा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	कचनार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	वसुधा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	उमरहट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	रजरवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	हिलौधा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	डाम्हा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	नौबस्ता	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	छीदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बचबई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सितपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	इटमा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	लालपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मोहारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रेरुआ कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	रेरुआ खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>नामगौद</b>								
		00041	पतवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	खैरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बारापत्थर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	गंगवरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	इटौरा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खखरौधा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	अमिलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	अकौना साठियाकौल अकौना साठिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	धौरहरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मझगवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सेमरवारा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	बाबूपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	हडहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	नौनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	हरदुआ कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	उजनेही	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	खमरेही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	इटमा उवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>रहिकवारा</b>								
		00077	उमरिहा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00078	झिगोदर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00079	कोटा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00080	कोनी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बमुरहिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00082	कोडर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00083	चुनहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00084	सुरदहा कला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00085	जादौपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सुरदहा खुर्द		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00087	रमपुरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00088	माडाटोला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00089	शहपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00090	चन्दकड़या		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00091	उरदान		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00092	मुगहर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00093	मझगवां खुर्द		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00094	रहिकवारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>शिवराजपुर</b>								
		00001	मडई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00002	कल्पा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00003	द्वारी खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00004	शिवराजपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00006	भाजी खेरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00007	बण्डी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	बिलौधा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00009	पिपरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00010	कोटा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00011	देवरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	आमा	धानसिचित	-	-	-	-	-
	<b>सिंहपुर</b>								
		00013	नोनगरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	पनगरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00015	रोड	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	उसरार	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00017	महतेन	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00018	सिंहपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00019	भैहाई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00020	खम्हरिया खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	बेलगहना	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00022	मझियारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00023	बेला	धानसिचित	-	-	-	-	-
	<b>बिरसिंहपुर</b>								
	<b>जैतवारा</b>								
		00001	नयागांव	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	मरवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	खुटहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	चंदई		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अमिलिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	किटहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जैतवारा	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00008	झरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	गलबल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	तेलनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	मझगवां	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मेहती	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेरहना (बाधी)	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	बाधी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सुजावल खुर्द		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बडखेर		-	सोयाबीन	-	-	-

		00019	पिपरी टोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पगार खुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	पगार कला		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सभापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खांच	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00026	डोमहाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बडेरा कला		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>धारकुण्डी (अमवा)</b>								
		00037	प्रतापपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00041	करोदी कला	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बिरसिंहपुर</b>								
		00027	बिरसिंहपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00028	तिघरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हरदुआ		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	झोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गोडगवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हलावन		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00035	जमुवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	बरो		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पटना कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खडौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	पचलीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कलबलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मझगवां</b>								
	<b>चित्रकूट (कामता)</b>								
		00028	टेढीपतवनिया		-	-	तुअर	-	-
		00029	पालदेव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	चौबेपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	कामता		-	-	तुअर	-	-
		00034	नयागांव		-	-	तुअर	-	-
	<b>बरोधा</b>								
		00001	भियामउ		-	-	तुअर	-	-
		00005	नरदहा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	पाथरकछार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	जवारिन		-	-	तुअर	-	-
		00009	कौहारी		-	-	तुअर	-	-
		00010	गोपालपुर		-	-	तुअर	-	-
		00012	केल्हौरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	महतैन		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	बरोधा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	नकैला		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00019	सिंहपुर		-	-	तुअर	-	-
		00021	बम्हीपुर		-	-	तुअर	-	-
		00023	झरी		-	-	तुअर	-	-
		00025	मलगाँसा		-	-	तुअर	-	-
		00026	खरहा		-	-	तुअर	-	-
	<b>मझगवां</b>								
		00037	देवलहा		-	-	तुअर	-	-
		00038	पटना खुर्द		-	-	तुअर	-	-
		00039	पछीत		-	-	तुअर	-	-
		00040	लालपुर (पटिहट)		-	-	तुअर	-	-
		00041	तुरा		-	-	तुअर	-	-
		00042	कैलाशपुर		-	-	तुअर	-	-
		00043	भरगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	हिरौदी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	चितहरा		-	-	तुअर	-	-

		00046	खोढरी		-	-	तुअर	-	-
		00047	बाका		-	-	तुअर	-	-
		00048	कारीगोही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	देवरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बरहा		-	-	तुअर	-	-
		00055	वीरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
<b>मैहर</b>									
	<b>अमदरा</b>								
		00001	झुकेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	पलौहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	करोदिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	सभागंज	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	पथरहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	गुगडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	पकरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	पाला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	सुहौला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	तिघरा खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	कठिलगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	खेरवासानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>कुसेडी</b>								
		00019	सेमरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00020	रैगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	घुनवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	मतवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	महेदर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	गोरइया कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	कुसेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	भरौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	बेरमा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00033	इटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	लुढौती	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>तिलौरा</b>								
		00055	डेलहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	हरदासपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	बेल्दरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	मनटोलवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	घनवाही कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	तिलौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	नरौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	पहाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	बंशीपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	अमिलिया कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	मगरोरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	देवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00067	बरेठी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00068	भटगवां	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00069	कांसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	गोबरी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00071	करतहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	करुआ	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00073	भेडा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
	<b>नादन</b>								
		00075	चपना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	करोदी उपाध्याय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00078	कंचनपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00080	रिगरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00081	नादन शारदाप्रसाद		-	-	सोयाबीन	-	-
		00083	उमरी फिफरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00084	जूरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00087	जरियारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00088	करौंदी काप नादन	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00090	हिनीता गजगौना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00092	मडई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>बदेरा</b>								
		00110	अजमाइन	-	-	-	तुअर	-	-
		00112	बिहरा कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00114	बदेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00115	लटागांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00117	अभिलिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00119	कुडवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00121	धनवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>भदनपुर उप0</b>								
		00093	बरा खुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00094	जोवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00097	रिवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00098	झांझबरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00100	गोरइया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00102	चौपडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00105	भदनपुर द0प0		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00106	देवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>मेहर</b>								
		00037	धतुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00038	पोडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	जीतनगर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	बरही		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	पिपराकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	परसोखा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	हरनामपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	कुटाई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	सोनवारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	<b>रघुराजनगर</b>								
	<b>कोठी</b>								
		00035	गुलुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	पवैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सेमरीकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रायपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बरहना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	झाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गोरइया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	ददौध	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मौहार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	मैना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मनकहरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पोडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रनेही	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	उदयसागर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	नयागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बम्हरोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भैसवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	नचरोरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>रामस्थान</b>								
		00093	सोहास		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00094	रगौली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00095	रामस्थान		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00096	पतौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	सकरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00102	जमोडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00104	मटेहना		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रैगांव</b>								
		00001	खनगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	करसरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भवर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00004	चोरबरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	टीकर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हडखार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पडरौत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मसनहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रैगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	धौरहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	इटमा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बांधी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सेमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	खडौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	उजरीघा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00017	नारायणपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कल्हारी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00019	शिवपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सोहावल</b>								
		00020	बचबई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बाबपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अहिरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कुडया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	भूमकहर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मुडहाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	डेलौरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	डेलौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नकटी		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>हाटी</b>								
		00055	नदना		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00056	जैतवारा 163		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00057	हटिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पुरवा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मदनी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बराकला		धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	रामपुर चौरासी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कुशियरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00064	मदनीपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00065	खम्हरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00066	पासी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00067	डगडीहा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	कोठरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00069	पोडुधाकला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00070	भरजुना खुर्द		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00071	भरजुना कला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लालपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00073	संगमा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>रामनगर</b>								
	<b>झिन्ना</b>								
		00041	छिरहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	जिगना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	अरगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	खोडरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	जुडमानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	हिनीती		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	मनकीसर		धानअसिचित	-	-	-	-

		00048	बेलहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	भमरहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	देवदहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	मर्यादपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	जटदुहाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	झिन्ना	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	सरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00055	कैथहा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00056	पैपखरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	मुति-हाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	मझटोलवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बूढाबाउर		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रामनगर</b>								
		00024	देवरा मोलहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	सोहौला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	सोनाडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	करा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	गंगासागर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	भिटारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	गुलवार गुजारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	गोविन्दपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	नारायणपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	पदमी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	नौगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	सगौनी खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	जोवा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बडवार</b>								
		00001	बडा इटमा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	खारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	सुलखमा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	नादो		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	कुदरीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	बाबूपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बडवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	टेगना	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	गोरसरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	हरदुआ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	चंदवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	भरतपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	मिरगौती		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	दधीचटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	मसमासी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	बम्हनाडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	गोरहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	गैलहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	मनकहरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>रामपुर</b>								
	<b>चोरहटा</b>								
		00058	बिहरा नं0 2	धानसिचित	-	-	तुअर	-	-
		00059	कर्पवाह कोठार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		64	खरवाही	धानसिचित	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		65	चोरहटा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		67	बीदा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		69	असरार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		70	शिवपुरवा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		71	कोनियाकाठार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		73	खोखम	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		60	खेरिया कोठार	धानसिचित	-	-	-	-	-

		61	सोनीरा	धानसिंचित	-	-	-	-
		63	डुडहा	धानसिंचित	-	-	-	-
		68	इटमा कोठार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		72	खुखडा कोठार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
	<b>रामपुर बधेलान</b>							
कोटर	कोटर	15	मलगांव		-	सोयाबीन	-	-
<b>रामपुर</b>	रामपुर	16	चोरमारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		17	डेगरहट		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-
		18	सगौनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		20	कूद		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-
		22	झण्ड		-	सोयाबीन	-	-
		23	जमुना		-	सोयाबीन	-	-
		24	बैरिहा	धानसिंचित	-	-	-	-
		25	सिजहटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		26	बठिया		-	सोयाबीन	-	-
		28	बगहाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		29	तपा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-
		30	सगौनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
		31	रामपुर बधेलान	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		32	बांधा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-
		33	खटखरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		34	क्रष्णगढ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		14	करमउ	धानसिंचित	-	-	-	-
		15	जनार्दनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-
		19	तुर्की		धानअसिंचित	-	-	-
		21	देवरा		धानअसिंचित	-	-	-
	<b>सज्जनपुर</b>							
		35	सेल्हना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		37	गड्डहरु		-	सोयाबीन	-	-
		38	पडखुरी		-	सोयाबीन	-	-
		39	बढीरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		40	महरछ कदला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
		42	रिछहरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
		45	मनकहरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
		46	हिनाँती	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
		50	सिधौली		-	सोयाबीन	तुअर	-
		51	मरीहा		-	-	तुअर	-
		53	वीरनई	धानसिंचित	-	-	-	-
		54	सराय	धानसिंचित	-	-	-	-
		43	मतहा	धानसिंचित	-	-	-	-
		52	खगौरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
		44	नरसिंहपुर	धानसिंचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम						
उमरिया	चंदिया	चंदिया	00001	वरहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	कोयलारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	पतरेई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	बांका	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	अचला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	सलैया-5	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	दुल्हार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	पाली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00009	चंदिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	पथरहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00011	सेमडारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00012	देवरा कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	जटवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	मझगावां-18	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	बेसहनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	मडवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	धतूरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	लोढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	खाले कठई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	नरवार न.25	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00021	घोघरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	कौडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	सलैया न.13	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	गुडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		बिलासपुर	00025	चांदपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	नरवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	पूछी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	ओवरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	अखडार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	वडखेरा-16		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	अमदरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	झांपी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	बिलासपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00034	हरवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00035	मानिकपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	अतरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00037	मंडौली खुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	वडखेरा-22		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	निगहरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	पठारीखुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	बसाढी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	उरदानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	नौराजाबाद	नौराजाबाद	00002	उचेहरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बडागांव		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00006	सस्तुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	मसूरपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	देवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	डगडोवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	कोहका-82		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	गहिरा टोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	कोलौनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	ठूठाकूदरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	सिहपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	वंधवाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	कल्दा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	निपनिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पिनीरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	चरगंवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	मरदरी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>पाली</b>								
	<b>अमिलिहा</b>								
		00022	खिचकिडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	चौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	भौतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	ओदरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बकेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	धौरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	बडवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	मेढकी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	पहाडिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	रोगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	कचोदर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	खोल खम्हरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	नरवार		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>पाली</b>								
		00001	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	गिंजरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	धौरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	मुंदरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	बरहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	मलहदू		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	गोयरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	वन्नोदा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	घुनघुटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	ममान		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>नाथवगढ</b>								
	<b>उमरिया</b>								
		00001	खेरवा खुदं		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	बडेरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	महिमार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	कछरवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	धनवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	भरौला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	चंदवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	उमरिया खास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	किरनताल कला ज.न. 96		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	महरोई ज.न. 592		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कोयलारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	तामन्नारा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00016	माली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धवईझर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	पठारीकला	धानअसिचित	-	-	भक्का	-
		00019	कोहका-47	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	मजमानीकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	विरहलिया	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>करकेली</b>							
		00023	मुण्डा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बरही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	मझगवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	धनवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	महरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	गोपालपुर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जरहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	नरवार न.29	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	नयागाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जुडवानी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00040	भनपुरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	कछारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	बोदली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	धमनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बेलसरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	रहठा	धानअसिचित	-	-	-	-
<b>मानपुर</b>								
	<b>इन्दवार</b>							
		00001	मझोखर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	खलौंध	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	पडखुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	इन्दवार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	भरेवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	नदावन	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	मुगवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	असोढ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	डोंगरी टोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	दमोय	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	बम्हनगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	चन्सुरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	भोलगढ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	चितरांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	कुशमहा	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>चिल्हारी</b>							
		00019	कसेरु	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पनपथा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	पलझा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	चन्दवार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	चिल्हारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पडवार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	बेल्दी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	महरोई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	टिकुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	कोटरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	देवगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	अमरपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	बडछड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	बचहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	सलैया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	मुडगुडी	धानअसिचित	-	-	-	-

तालिका									
	00035	सुखदास			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00036	बकेली			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00037	उमरिया			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00038	डोभा			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00041	ददरौडी			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00042	मझगवाँ			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00043	बरबसपुर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00044	घघडार			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00045	धमोखर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00046	मझखेता			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00048	गुरूवाही			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00049	माला			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00050	पतीर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>मानपुर</b>								
	00055	नौगवाँ			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00056	छपडीर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00058	बल्हौड			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00061	गोवर्दे			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00062	मानपुर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00063	कछौवा			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00064	कठार			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00065	रक्शा			धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
	00066	वडार			-	-	तुअर	-	-
	<b>रायपुर</b>								
	00071	डोडका			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00072	बडखेरा			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00073	समरकुईनी			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00075	रोहनिया			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00076	बडवार			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00078	सेमरिया			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00079	रथेली			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00080	सेहराटोला			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00081	कछराटोला			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00082	रायपुर			धानअसिंचित	-	-	-	-
	00083	चेचरिया			धानअसिंचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची (

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर									
			00001	बकही		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	बरगवाँ		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	केल्होरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	देवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	देवहरा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	पटलाकला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	डोंगराटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	खम्हरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00009	धिरौल		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	चिल्हारी		धानअसिंचित	-	-	-	-	-

		00011	चकेठी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	मैंडियारास	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	परसवार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	सकरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	औंटेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	जमुडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	लखनपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	ताराडांड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	दुलहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	दधमनिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	कासा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	कुलहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	सेदरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	बरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	अनूपपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	हरी	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>फुनगा</b>							
		00028	पांडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	बकेली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	खांडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	बरबसपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	पसला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	बिजौरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	कोलमी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	रकसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	फुनगा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	पाली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	मझगंवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	धनगंवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बम्हनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	छिलपा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	देवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	मुडधोबा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	अमलाई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	धुम्मा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	कदमटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	पयारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	देखल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	छोहरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	तितरीपांडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	परासी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	धुरवासिन	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	पडौर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	लतार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	हरद	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	बदरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	पसान	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>कोतमा</b>							
	<b>कोतमा</b>							
		00001	कुलहाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	सडडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	चपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	बेलियाबडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	जमुनिहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	देवगंवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बगैहाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	बढानपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	सकोला	धानअसिचित	-	-	-	-

		00012	कल्याणपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	कोतमा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	गोहन्डा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	चंगेरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	पैरीचुआ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बसखली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	पथरौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	ठोडहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	रेउला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	लामाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	बिचारपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	निगवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	सारंगढ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	सिलपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	उरतान	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	गोडारु	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	रेउसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	खमरौध	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	जरीटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	खोडरी	धानअसिचित	-	-	-	-
	बिजुरी							
		00032	मझौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	उमरदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	गुलीडांड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	कोठी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	भाठाडांड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	बहेराबांध	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	साजाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	बेनीबहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बेलगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	थानगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	बिजुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	लोहसरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	डोंगरियाकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	बैहाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	कटकौना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बेलियाछोट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	रेउदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	पिपरहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	सेमरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	मलगा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	फुलकोना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	खोडरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	उरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	सोहीबेलहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	पयारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	दारसागर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	पौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	चौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	दुमिाकारपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बाईखार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	भाद	धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	चुकान	धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	निमहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	आमाडांड	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	बरतराई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	टाकी	धानअसिचित	-	-	-	-

जैतहरी	जैतहरी								
		00001	बैहार	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00002	गौरला	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00003	पगना	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00004	जैतहरी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00005	झाईताल	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00006	गोबरी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00007	खोलाडी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00008	ठोडीपानी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00009	भेलमा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00010	पौडी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00011	लहसुना	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00012	बेकटनगर	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00013	खोढरी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00014	सिधौरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00015	सूलखारी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00016	गोधन	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00017	सेमरवार	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00018	मनौरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00019	गोरसी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00020	चोरभठी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00021	बलबहरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00022	सिवनी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00023	लहरपुर	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00024	पचौहा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00025	टकहली	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00026	अमगंवा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00027	मोहरी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00028	महदा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00029	क्योटार	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00030	कुकुरगोडा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00032	जरियारी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00033	उमरिया	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00034	बीड	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00035	छातापटपर	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00036	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00037	धनगंवा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00038	कल्याणपुर	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00039	पपरौडी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00040	निगौरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00041	लपटा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00042	कदमसरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00043	मुण्डा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
	<b>पुष्पराजग</b>								
		<b>खमरौध</b>							
		00003	गिजरी	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00004	सरफा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00005	पडमानियां	-	-	-	मक्का	-	-
		00006	धुरधरा	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00007	मिटठूमहुआ	-	-	-	मक्का	-	-
		00008	कोडार	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00010	अहिरगवां	धानअसिचित	-	-	-	-	-
		00011	खमरौध	धानअसिचित	-	-	मक्का	-	-
		00012	सरई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-	-
		00013	तरंग	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-	-
		00014	अमदरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-	-
		00015	जरहा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-	-

		00016	मझौली	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00017	खालेदूधी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00018	इटौर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	बरांझ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बीजापुरीनं.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	कछराटोला	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	फरहदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	तुलरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	घरकूमर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	करनपठार	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	बीजापुरीनं.	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	अल्वार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>गिरारी</b>							
		00028	लमसरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	करपा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सालरगौदी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	मेढाखार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00032	उफरीकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	नगुला	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	करोदापानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	गौंदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	पडरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	दुधमनियां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	लेढरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	चंदनियां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	भमरहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	नौगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	जरही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	रसेलकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	गिरारीखुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-

		00046	बेंदी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बम्हनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	देवरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	मोहारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	बेलडोंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	कोहका	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	पडरीखार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	लीलाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	रनईकापा	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>दमेहरी</b>							
		00055	अतरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	सरईटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बेनीवारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	लालपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बसंतपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	पिपरखुटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कंचनपुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	खेतगांव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00063	ठाडपाथर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	पौनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	सलेया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	रौसरखार	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00067	लमसरई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गुट्टीपारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	देवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	दमेहड.ी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बिजौरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00072	धुईदादर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-

		00046	बेंदी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बम्हनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	देवरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	मौहारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	बेलडोंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	कोहका	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	पडरीखार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	लीलाटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	रनईकापा	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>दमेहरी</b>							
		00055	अतरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	सरईटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बेनीवारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	लालपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बसंतपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	पिपरखुटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कंचनपुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	खेतगांव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00063	ठाडपाथर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	पौनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	सलैया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	रौसरखार	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00067	लमसरई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गुट्टीपारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	देवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	दमेहड.ी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बिजौरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00072	धुईदादर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कोईलारी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00074	परसवार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00075	पुरगा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बिलासपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	खजूरवार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00078	करौदाटोला	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00079	पड़रिया	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00080	खाटी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	केकरिया	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00082	महोरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	बोदा	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>भेजरी</b>							
		00084	जीलंग	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	बसनिहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	लखौरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	धीरुटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	हराटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	दुगिावरीचंदास	धानअसिचित	-	-	-	-
		00092	धनपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	पटना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00094	गिरारीखुट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00095	हवेली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00096	धरमदास	धानअसिचित	-	-	-	-
		00097	मझगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00098	अचलपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00099	धरहरकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00100	सल्हरो	धानअसिचित	-	-	-	-
		00101	पिपरहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00102	मौहदी	धानअसिचित	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
झाबूआ	झाबूआ	झाबूआ									
			00001	बावडीबडी						मक्का	-
			00002	काकरादरा खुर्द						मक्का	-
			00003	नगोडिया						मक्का	-
			00004	कालाखट						मक्का	-
			00005	भीमफलिया						मक्का	-
			00006	माण्डलीबडी						मक्का	-
			00008	कालापीपल						मक्का	-
			00009	कोटडा						मक्का	-
			00010	ढेकलछोटी						मक्का	-
			00011	नल्दीछोटी						मक्का	-
			00012	भोयरा						मक्का	-
			00013	गेलरछोटी						मक्का	-
			00014	कण्डला						मक्का	-
			00015	मसुरिया						मक्का	-
			00016	खेडी						मक्का	-
			00017	पिपलिया				सोयाबीन		मक्का	-
			00019	नरवालिया				सोयाबीन		मक्का	-
			00020	बलवन				सोयाबीन		मक्का	-
			00021	अन्तरवेलिया				सोयाबीन		मक्का	-
			00022	झायडा				सोयाबीन		मक्का	-
			00023	महन्दीखेडा				सोयाबीन		मक्का	-
			00024	कल्लीपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
			00025	भगोर				सोयाबीन		-	-
			00026	गुन्दीपाडा				सोयाबीन		मक्का	-
			00027	मानपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
			00030	कल्याणपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
			00031	बरखेडा				सोयाबीन		मक्का	-
			00032	आलीपठार				सोयाबीन		-	-
			00034	नवापाडा भण्डारीया				सोयाबीन		मक्का	-
			00035	बरोड				सोयाबीन		मक्का	-
			00037	बिसोली				सोयाबीन		मक्का	-
			00038	जुलवानिया				सोयाबीन		-	-
			00039	तलावली				सोयाबीन		मक्का	-
			00040	फुटीया				-		मक्का	-
			00042	मोहनपुरा				-		मक्का	-
			00043	गढवाडा				-		मक्का	-
			00044	हडमन्त्या				सोयाबीन		मक्का	-
			00045	परवट				-		मक्का	-
			00046	देवझीरीपण्डा				सोयाबीन		मक्का	-
			00047	पिलिया खांदन				सोयाबीन		मक्का	-
			00048	करडावट बडी				-		मक्का	-
			00049	गोपालपुरा				-		मक्का	-
			00050	डुंगरालालु				-		मक्का	-
			00051	नवागाव				सोयाबीन		मक्का	-
			00052	मिण्डल				-		मक्का	-
			00053	झाबूआ				-		मक्का	-
			00054	उमरी				-		मक्का	-
			00055	कुशलपुरा				-		मक्का	-

		00056	माखनकुई	-	-	-	मक्का	-
		00058	सेमलिया बडा	-	-	-	मक्का	-
		00059	चारोलिपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00060	आम्बाखोदरा	-	-	-	मक्का	-
		00061	बामनसेमलिया	-	-	-	मक्का	-
		00062	डुमपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00063	पिपलिपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00064	फुलधावडी	-	-	-	मक्का	-
		00065	ढेकलबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00066	आमलीफलिया	-	-	-	मक्का	-
		00067	उमरिया बेजंतरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	गोलाछोटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00069	सजवानी छोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	ढेबर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	रामा							
		00070	खेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00071	मुण्डत	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00072	धामन्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	दुधी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00074	डोकरवानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	पाडलघाटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00076	काकडकुआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	रसोडी	-	-	-	मक्का	-
		00078	पालेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	झीरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	आमलीपाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00082	उमरकोट	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00083	दुधी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00084	आम्बा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00085	देवली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00086	साड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00087	सदावा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00090	कालीदेवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	रामा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00092	हत्यादेली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00093	छापरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00094	रोटला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00095	कोकावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00096	नवापाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	माछलिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00098	बोचका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	आम्बा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00100	दोचका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00101	छापरी रणवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	खरडुबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00103	धान्दलपुरा बडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00104	झाकेला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00105	रजला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00106	छापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	गुलाबपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	महडीपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	वागलावाट भूरीया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00110	बलोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	सीलखोदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	अरीहन्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00114	झुमका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00115	नरसिंहपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00117	पथिनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	धमोई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	दौलतपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00120	बावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00121	पलासडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00122	कलमोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	सागीया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00124	चुडेली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00113	पारा	-	सोयाबीन	-	-	-
	थादला							
	थादला							
		00001	बालवासा	-	-	-	मक्का	-
		00002	झारनी	-	-	-	मक्का	-
		00003	छायन	-	-	-	मक्का	-
		00004	छापरी	-	-	-	मक्का	-
		00005	वटटा	-	-	-	मक्का	-
		00006	थेथन	-	-	-	मक्का	-
		00007	झोसली	-	-	-	मक्का	-
		00008	हरीनगर	-	-	-	मक्का	-
		00009	देवका	-	-	-	मक्का	-
		00010	भीमपुरी	-	-	-	मक्का	-
		00011	विहार	-	-	-	मक्का	-
		00012	पलासडोर	-	-	-	मक्का	-
		00014	हेडबा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00015	काकनवानी	-	-	-	मक्का	-
		00016	पांचखेरीया	-	-	-	मक्का	-
		00017	मोरझारी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00018	गोरियाखादन	-	-	-	मक्का	-
		00019	आमली	-	-	-	मक्का	-
		00020	दौलतपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	परवलिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	मियाटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	खोखराखादन	-	-	-	मक्का	-
		00030	खजुरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	जुलवानिया बडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	थादला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मछलईमाता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	नवापाडा कस्बा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	सेमलपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00037	सेमलिया चैनपुरी	-	-	-	मक्का	-
		00038	घामनी छोटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	सुजापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मंजाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कलदेला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	पाडाधामंजर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	बेडावा	-	-	-	मक्का	-
		00049	मादलदा	-	-	-	मक्का	-
		00050	परवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	रन्नी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00052	नौगावा नगला	-	-	-	मक्का	-
		00053	तलावडा	-	-	-	मक्का	-
		00054	कुकडीपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00057	खुमडिया	-	-	-	मक्का	-
		00058	नारैला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00059	सेमलिया नारैला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	खवासा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00061	मकोडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	भामल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	नरसिंहपाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	देवगढ	-	-	-	मक्का	-
		00065	झोसरपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	पाठडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00067	रतनाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	चापानेर	-	सोयाबीन	-	-	-
	पेटलावद							
		पेटलावद						
		00001	बामनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मूलथानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रामपुरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	अमरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	असालिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	दुलाखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	नगरपंचायतपेटलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	करडावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	केशरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	देहणडी बडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	गेहणडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	मोई चारणी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	गोदडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	करवड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	गंगाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	घुघरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	रुणजी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	गुणावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	हनुमन्त्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	मठमठ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	मांडन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	सारंगी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	छोट्टा बोलासा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	टेमरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	बावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	बाछीखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	डाबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मोहनपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	बैंगनबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	कसारबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	गामडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बोडायता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	रायपुरिया							
		00035	कालीघाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	देवली	-	-	-	-	-
		00038	हमीरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	महडीपाडा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बरबेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	जामली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	अनन्तखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मातापाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	रूपगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खोरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	नाहरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उन्नई	-	सोयाबीन	-	-	-



रानापुर									
	00001	रेतालुन्जा		-	-	-	मक्का	-	
	00002	लम्बेला		-	-	-	मक्का	-	
	00003	भण्डाखेडा		-	-	-	मक्का	-	
	00004	गलती		-	-	-	मक्का	-	
	00005	माण्डलीनाधू		-	-	-	मक्का	-	
	00006	सुरडिया		-	-	-	मक्का	-	
	00008	नागनखेडी रत्ना		-	-	-	मक्का	-	
	00009	गवसर		-	-	-	मक्का	-	
	00010	दोतड		-	-	-	मक्का	-	
	00011	बुधाशाला		-	-	-	मक्का	-	
	00012	कालापान		-	-	-	मक्का	-	
	00016	डाबतलाई		-	-	-	मक्का	-	
	00017	मातासुला		-	-	-	मक्का	-	
	00018	समोई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-	
	00019	कुशलपुरा		-	-	-	मक्का	-	
	00020	रूपाखेडा		-	-	-	मक्का	-	
	00021	कंजावानी खास		धानअसिचित	सोयाबीन	खास	मक्का	-	
	00022	छागोला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-	
	00023	जुनागांव		-	-	-	मक्का	-	
	00024	सनोड		-	-	-	मक्का	-	
	00025	अंधारवड		-	सोयाबीन	-	-	-	
	00027	मोरडुडिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	00028	माछलियाझीर		-	-	-	मक्का	-	
	00029	चुई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	00030	सरदारपुरा		-	-	-	मक्का	-	
	00031	वन		-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	00033	पूवाला		-	-	-	-	-	
	00034	भूरीमाटी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	00036	पाडलवा		-	-	-	मक्का	-	
	00038	टिकडीबौरिया		-	-	-	मक्का	-	
	00039	वगईबडी		-	-	-	मक्का	-	
	00041	वागलावाट मोहनिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	00042	भोडली		-	सोयाबीन	-	-	-	
	00046	डिग्गी		-	सोयाबीन	-	-	-	
	00047	मोहनपुरा भूरका		-	सोयाबीन	-	-	-	

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	आजरा
धार	कक्षी	कक्षी								
			00060	झडदा	-	-	-	-	मक्का	-
			00061	बडग्यार	-	-	-	-	मक्का	-
			00064	नैनगांव	-	-	-	-	मक्का	-
			00066	बिरलाई	-	-	-	-	मक्का	-
			00068	खणलाई	-	-	-	-	मक्का	-
			00071	तलावडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00072	खेडली	-	-	-	-	मक्का	-
			00074	आवली	-	-	-	-	मक्का	-
			00075	कुडदीगपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00077	कापसी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	कक्षी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00079	आली	-	-	-	-	मक्का	-
			00080	तालनपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00081	गिरवान्या	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00082	राजा	-	-	-	-	मक्का	-
			00083	हल्दी	-	-	-	-	मक्का	-
			00085	ढोल्या	-	-	-	-	मक्का	-
			00086	चिकली	-	-	-	-	मक्का	-
			00050	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	डोई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	कुतेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		निसरपुर								
			00102	लिंगवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00103	दाहोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00106	रसवा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00119	चिखल्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00120	नर्मदा नगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	सुसारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00089	लोणी	-	-	-	-	मक्का	-
			00095	बडगांव	-	-	-	-	मक्का	-
			00096	लोहारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00101	बेडवालिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00100	लिम्बोल	-	-	-	-	मक्का	-
			00107	भवरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00108	अमलझुम्मा	-	-	-	-	मक्का	-
			00110	कोणदा	-	-	-	-	मक्का	-
		बाग								
			00001	काकड कुवां	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00002	तरसीगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	नरवाली	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	अम्बासोटी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00008	बडदा टाण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	डोबनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	जैतगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	बडकच्छ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	घोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	काकडवा	-	-	-	-	मक्का	-
			00017	झाई	-	-	-	-	मक्का	-

		00018	चामझर	-	-	-	मक्का	-
		00019	काटी	-	-	-	मक्का	-
		00020	चिचबा	-	-	-	मक्का	-
		00021	थाना	-	-	-	मक्का	-
		00022	बाणदा	-	-	-	मक्का	-
		00023	घटबोरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	घोटियादेव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	झिरपन्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	अखाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	पिपरीयापानी	-	-	-	मक्का	-
		00028	चिकापोटी	-	-	-	मक्का	-
		00029	टकारी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	करकदा	-	-	-	मक्का	-
		00031	झाबा	-	-	-	मक्का	-
		00034	बाग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	महाकालपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	आगर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	जामन्यापुरा	-	-	-	मक्का	-
		00033	पाडल्या	-	-	-	मक्का	-
		00037	निमखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00038	कुडुजेता	-	-	-	मक्का	-
		00039	नायवेल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	बाकी बाग	-	-	-	मक्का	-
		00041	बंधानिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	पिपरी बाग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	बरखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	कन्हरी सुजानपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	मैरती	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	भमोरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	देवधा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	जामला बाग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	जाली	-	-	-	मक्का	-
		00009	मगदी	-	-	-	मक्का	-
	<b>गंधवानी</b>							
		<b>गंधवानी</b>						
		00001	होलीबयडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	केलीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पंथा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बलेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पांचपिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बावडीखेदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गुंगीदेवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जलोख्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रतनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	केशवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	देदली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	खेडीबलवारी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	रोडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लेडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सिरौंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	धौला हनुमान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	खरबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	चुनप्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	खेडली हनुमान	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	धयडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00025	कोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	धावडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बिल्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	बिल्दरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	श्यादी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	बलवारी कला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	बलवारी खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	रायपुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बेहडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	धनौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बैकल्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	घुडसल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	जीराबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	करौदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोयला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	चिकली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	खोड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	मोहनपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	बख्तला	-	-	-	मक्का	-
		00044	रेहडदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	खौजाकूआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	मोरीपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	मल्हैरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	सातउमरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	साली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	बडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	खेडीबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	गंधवानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	कोसदना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00054	अजन्ताड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	झेगदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	सोनगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00057	पिपली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	सेन्दला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	काबरवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	देदली बी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	पानवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	बारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	जहंडि	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00065	खडकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	अवन्लामान	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	जामली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	पिथनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	डही							
			डही					
		00002	अराड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00003	उमराली	-	-	-	मक्का	-
		00004	कलमी	-	-	-	मक्का	-
		00009	फिफेडा	-	-	-	मक्का	-
		00010	रणगांव	-	-	-	मक्का	-
		00016	गाजगोटा	-	-	-	मक्का	-
		00017	नरझली	-	-	-	मक्का	-
		00018	बाबली खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00019	बडदा	-	-	-	मक्का	-
		00020	सिलकूआ	-	-	-	मक्का	-
		00021	अमलाल	-	-	-	मक्का	-
		00022	पडियाल	-	-	-	मक्का	-
		00024	रेबडदा	-	-	-	मक्का	-

		00032	गंगापुर	-	-	-	मक्का	-
		00033	कवडा	-	-	-	मक्का	-
		00038	डही	-	-	-	मक्का	-
		00040	सिदडी	-	-	-	मक्का	-
		00044	देवधा	-	-	-	मक्का	-
<b>धर्मपुरी</b>								
	<b>धरमपुरी</b>							
		00003	तारापुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	उमरिया	-	-	-	मक्का	-
		00006	बगवान्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	फरसपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	काठिदा	-	-	-	मक्का	-
		00014	सिरसोदिया	-	-	-	मक्का	-
		00015	चिक्टयाबड	-	-	-	मक्का	-
		00019	दुधी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कुण्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जेतापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बलवारी	-	-	-	मक्का	-
		00023	इहिवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पलासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	धामनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बिखरोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पढरान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	डौंगरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पटलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	झाकरुड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	धेगदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पेडवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	डौंगरी दसोडा	-	-	-	मक्का	-
		00041	पगारा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	एकलारा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	सुन्देल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पिपल्दागढी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	खल बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बैगन्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	बलवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
<b>धार</b>								
	<b>तिरला</b>							
		00001	धामदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	अकीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	खरसोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सिमलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	आहू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चंदवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	चिलूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बोधवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	नलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नान्दनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खरमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चिकल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मतलबपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	जानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	तिरला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गंगानगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	माफीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मूसापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मोहनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मवडीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00021	चाकल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भूतीबावडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सियारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खिडक्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सेमलीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	आमला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सतीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बडलीपुराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कछावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भूवादा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सादडियाकुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	उकाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नीमखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	अन्ननाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेवसिंगपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	अंबापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	छोटा उमरीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कोठडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बयडीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खादन बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सीतापाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	हिम्मतगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पाडल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बागडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	दिलावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	अडवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सलकनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>धार</b>							
		00054	देदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	धरावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	देलमी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बगडीतुर्क	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	कलमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बायखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बनेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गुणावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	उटावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	जामन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सुनारखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	जैतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रतनागरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	मालीवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	नौगांव बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	तोरनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	लसूडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लबरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पचलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	गरडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	खडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बिलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	पिजराया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	कलसाडा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	खेरोद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00082	तीसगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	अनारद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	उमरिया बडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	सामर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सकतली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	अंतराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	गोविन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	सादलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	जुहावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	बगडीताज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	कण्डारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	केसूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	बिजूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	एकलदुना, धार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बडछापरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	नेकपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	बग्गड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	लोहारी बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	नवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	कोट भिडोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	सिरसोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	पिपल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	कलसाडा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	लेबड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	सेजवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	दंगोठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	डेहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>नालछा</b>					
		00156	मालीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00139	गूलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00140	डिगलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00141	रतवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00142	बिलोदा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00143	कठोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00144	तलवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00145	मियापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00146	दुकनीमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00147	मेघापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	शिकारपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00149	कछाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00150	करम तलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00151	भीलतलवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00152	मोगराबाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00154	तीतीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00155	माण्डव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00157	उमरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00158	पनाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00160	भीलबरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00161	आमखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00162	सोडपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00163	काकलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00164	नालछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00165	जीरापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00166	लुन्हेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00167	आली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00168	बगडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00169	सगडी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00172	कुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00173	भडक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00174	सरायतालाब	-	सोयाबीन	-	-	-
		00175	मोवासजामन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00176	बंजारीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00178	चोरबावडीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00179	गुलरझीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सागौर</b>							
		00110	सेजवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	एकलदूना दिग्ठान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	नारायणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	बकसाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00114	बछडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	चंबलबरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	सुलावड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00117	मण्डलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	सागौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	खेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	बरदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	गवला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00122	पीथमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	खण्डवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00124	आसूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	चन्दनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00126	जलवाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00127	झाडीबरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00128	कुंवरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00129	अचाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00130	रायण	-	सोयाबीन	-	-	-
		00131	बिल्लोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00132	नाईबरोदा का;	-	सोयाबीन	-	-	-
		00133	सिलोटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00134	बाछनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00135	महाराजखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00136	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00137	दिग्ठान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00138	उज्जैनी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बदनावर</b>							
	<b>कानवन</b>							
		00048	रतनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रेशमगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	जलोदखेता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कुमेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	शेरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	किशनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	चिराखान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	इन्द्रावेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	फुलेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खिलेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	टकरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	तारोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	सिलोदा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कडोद कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	छायनखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बामन्दाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	दतीगारा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00065	मौसार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बिडवाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गाजनोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	सेमल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	रीटोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	भाट बामन्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	कवनारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कानवन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	दिवानिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	वरनासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खडीगारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सनोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	जलोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	नागदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	माकनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	मनासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	कुसावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	सिलोदा बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	पलवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	नागौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	मुरडका		-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	ढोलाना खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	पायकुण्डा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	खाचरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	बाबरडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>बदनावर</b>							
		00001	बोरदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बोरदी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	जाबडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	तिलगारा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	करणपुरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	रूपाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मुलथान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	भुवानीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खेरवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	धमाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	काछी बडोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	करोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	जवासिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पालीबडोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	ढोलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पंचकवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कंकराज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पिटगारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	घटगारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बालोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कठोडिया बडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पडुनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कनवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	छोखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बोराली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सकतली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मांगल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बदनावर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	खेडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	चंदवाडिया कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	संदला		-	सोयाबीन	-	-	-

		00034	दोत्रया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	बखतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	भीसोला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	धारसी खेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मुंगीला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोमलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लिलीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	छायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सांगवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	डेलची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	डेरखा ऊर्फ भरतगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	निदवान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बखतगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	हनुमत्या	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मनावर</b>							
	<b>बाकानेर</b>							
		00066	पाडला	-	-	-	मक्का	-
		00067	आमसी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	मण्डलावदा	-	-	-	मक्का	-
		00069	पिपल्या मोटा	-	-	-	मक्का	-
		00070	उमरबन खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00071	करोँदिया खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00072	पाठामोटी	-	-	-	मक्का	-
		00075	लवाणी	-	-	-	मक्का	-
		00076	साकल्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	उखल्दा	-	-	-	मक्का	-
		00078	उमरबन कला	-	-	-	मक्का	-
		00079	बडिया	-	-	-	मक्का	-
		00080	चौकी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00081	बोहारला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00082	दसई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00084	भानपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00085	धनोरा	-	-	-	मक्का	-
		00086	कलालदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00087	कुवाड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00089	रातामण्डल	-	-	-	मक्का	-
		00090	उटावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00091	कछादद	-	-	-	मक्का	-
		00092	ककरोँदिया मोटा	-	-	-	मक्का	-
		00094	प्रतापपुर दाभ्या	-	-	-	मक्का	-
		00095	कालीबावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00096	अहेरवास	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00097	बालीपुर बुजुर्ग	-	-	-	मक्का	-
		00098	रामाधामा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00099	दाभड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00100	लुन्हेरा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00102	धनखेडी	-	-	-	मक्का	-
		00105	बाकानेर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00106	रणगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00108	बायखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00110	डेडगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00111	जामन्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00112	मोद कानापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	देवलरा	-	-	-	मक्का	-
		00114	टवलाई बुजुर्ग	-	-	-	मक्का	-
		00115	झीर्वी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00116	अमलाठा		-	-	-	मक्का	-
		00119	कुवाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	मिर्जापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	बडदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	पटवार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	टवलाई खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मनावर</b>								
		00001	चिराखान		-	-	-	मक्का	-
		00002	राजुखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	टेमरीय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सीतापुरी		-	-	-	मक्का	-
		00006	उदियापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खण्डलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जलखां		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	टेमरनी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	मोराड		-	-	-	मक्का	-
		00011	मुहाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	देवरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	लुन्हैरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भग्यापुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	बनेडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बालीपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	बिडपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	टीकी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	सोडूल		-	-	-	मक्का	-
		00024	निगरनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बडगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	पिपल्या		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	मनावर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	दसवी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	रणतालाव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	अंजनिया		-	-	-	मक्का	-
		00033	सिघाना		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	बोफुद		-	-	-	मक्का	-
		00035	देदला		-	-	-	मक्का	-
		00037	देवला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	जाटपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	लिम्बी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	बागल्या		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	पंचखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	डोगरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कोसवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00050	गणपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	अजन्दीकोट		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	देवगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	गांगली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कवठी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	एकलबारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	लंगूर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	सीरसाला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	अजन्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सरदारपुर</b>								
	<b>अमझेर</b>								
		00077	उण्डेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	खरेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	गोलपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	बोरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	मिण्डा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00084	हालोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	मोरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	बान्देडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	खाकेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	घालनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	अमझेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	राजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	मारोल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	सुल्तानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>दसई</b>								
		00019	खुटपला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कोठडा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	चोटियाबालोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	हनुमत्या पदमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	टाण्डा खंडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	दसई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	भरावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	घटोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	दन्तौली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	हनुमत्या कांग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लेडगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	कपासस्थल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	बालोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	कैसरपुरा तेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	सगवाल		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बरमण्ड</b>								
		00001	कचनारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	राजोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	निपावली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	साजोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नन्दलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हुमत्या साजोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बसलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गोदीखंडा राजोद ठाकर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	संदला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	देवीखंडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सलवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	लाबरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	अकोल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सिन्दूरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पटोलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बरखंडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरमण्डल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चन्दोडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बरमखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बोडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मौलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	जीलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	देदला		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सरदार</b>								
		00025	भानगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टिमायची		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सोनगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	महापुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	दतीगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	जुनापानी		-	सोयाबीन	-	-	-

	00031	आम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00032	कुशलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00033	माछलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00034	पिपल्याभान	-	सोयाबीन	-	-	-
	00035	अमझर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00036	बयडीपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00037	करनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
	00038	भाटियाबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00039	सेमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
	00040	चालनीमाता	-	सोयाबीन	-	-	-
	00041	उटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00042	फुटतालाब	-	सोयाबीन	-	-	-
	00043	भेरुपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00044	आमल्या खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	00045	भीलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00046	गुमानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00047	तिरला	-	सोयाबीन	-	-	-
	00048	छडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
	00049	धुलेट	-	सोयाबीन	-	-	-
	00050	पिपरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00051	बिमरोड	-	सोयाबीन	-	-	-
	00052	कंजरोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00053	रिंगनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
	00054	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00055	बिछिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00056	भोपावर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00057	पटलावदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00058	सरदारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00059	अमोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00060	नरसिंह देवला	-	सोयाबीन	-	-	-
	00061	बोला	-	सोयाबीन	-	-	-
	00062	बोदली	-	सोयाबीन	-	-	-
	00073	टाण्डाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	00074	बडवेली	-	सोयाबीन	-	-	-
	00075	श्यामपुरा ठाकुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	00076	फुलगांवडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	00080	बडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	00081	खमालिया	-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कोवार					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
खरगोन	कसरावद	Kasrawad						✓			
		✓	00001	भोईन्दा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	चिचली	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बालसमुद	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	काटकूट	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	पथौरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	रेगवां	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	जलखा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	टेमरनी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	मोगवां	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	दौगावां	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	कसरावद खुर्द	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	कसरावद बुजुर्ग	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	लौहारी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	बोरावां	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		मलठान ✓									
			00030	मकुन्दपुरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	मलतार	-	-	-	सोयाबीन	-	मक्का ✓	-
			00037	बैंगदी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	लेपा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	अमलाथा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	भग्यापुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	पिपलगोन	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	दुर्गापुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	खेडीबुजुर्ग	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	झिरन्या ✓	झिरन्या ✓									
			00001	कोठडा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	घोडीखुर्द	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	काकरिया	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	पखाल्या	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	मोरदंड	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	जामली	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	मोरया	-	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00011	देवित बु.	-	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00012	खारवा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	अरदला	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	चैनपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00015	खोई	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	बेठन्या बु.	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	शिवना	-	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00018	ठोकनबेडा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	पुनासला	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	बैडछा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-

			00022	नीमसेठी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	भडलेन	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	तेड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	साफा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	आभापुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	छेदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	गवला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	मिटवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	भावसिंगपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	अम्बाडोचर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	टिगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	सोनखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	आ.नानकौडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00036	पिपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	गोरखपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	ढसलगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00039	सायखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	बायखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	झिरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	मारुगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	मोनीकेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	रातली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	बडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00046	रतपनुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	पुतला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	डेहरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	माडवी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	नहालदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	दामखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			33	रेहटफल	-	सोयाबीन	-	-	-
<b>खरगौन</b>	<b>सैगांव</b>								
		<b>सैगांव</b>							
			00001	खोलगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00002	सेगाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	रसगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00005	दसनावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00007	कमोदवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00008	गंधावड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00010	जलगोन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00012	बिरला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	दोमवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00015	गोलवाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00026	पनाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	आछलवाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00023	लेहकू	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00031	पनवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			18	चिचगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			21	केली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			34	डालकी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			36	श्रीखण्डी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		<b>भीकनगांव</b>							

	Bhikangow ne								
		00002	बिटनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00006	निमोनी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00017	अंजनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00018	पोखर खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00019	छिर्वा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00020	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00021	अंदड	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00024	मछलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00026	खुडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00027	देवला	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00048	बलखडिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00049	सगूर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00029	सांगवी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00030	अमनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00031	पत्थरवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00032	पोखरबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00033	काझर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00041	पिपसाड	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00042	टेमला	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00047	शकरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00050	पोई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00053	बमनाला	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00054	बल्का	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00055	सेल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00056	सुर्या कोयडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00057	सतवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00058	पोखराबाद	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00013	दौडवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00014	खेरदा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00034	एकतासा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00061	गौराडिया जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00062	काल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00064	बडिया गो.	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00065	पलासी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00066	सुन्दैल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00036	रामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00037	बंझर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00038	चिरागपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00039	बिरुल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00040	लालखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00060	जामन्या बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-	
	<b>बडवाह</b>								
	<b>बडवाह (आर.आई- 01)</b>								
		00012	जेठवाय	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00041	लौंदी बी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00042	जगतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00053	बफलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00001	बडकीचौकी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00002	रमठान	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00003	बागोद	-	सोयाबीन	-	-	-	

			00004	टेमला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	धनपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	रूपाला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	सुरपाला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	रमाण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	मुख्त्यर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	बलवड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	थरवर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	आक्य	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	कटकूट	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	लिम्बी बु.	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	सौरुठीबारुल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पढाली खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		सनावद (आर.आई- 02)							
			00069	मर्दान	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	बकावा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	भोगवनिपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	भोगावा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	कातौर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	कानापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00082	बेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	पीतनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00089	बडूद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00100	बासवा	-	सोयाबीन	-	-	-
			107	बमनगाव	-	सोयाबीन	-	-	-
खरगीन	महेश्वर								
		करही							
			00046	बहेगाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00047	कतरगाव	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	बन्डेर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	बिलवावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	होदडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00051	करोदिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	पेमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	बलसगाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00054	घट्याबैडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	कवाणा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	करही	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	नागझिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	वणी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	कोदलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	कोगावा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	पिपल्या बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	पिपल्या खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	सेजगाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00065	पिटामली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	सिटोका	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	भामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	पालसूद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	गाचलपुर बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	बरलाय	-	सोयाबीन	-	-	-

			00071	बंजारी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	बडतिया सुती		-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	बढौली		-	सोयाबीन	-	-	-
खरगोन ✓	महेश्वर ✓	महेश्वर ✓								
			00002	कुसुमभ्या		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	बाकानेर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00004	आशापुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00005	सेल		-	-	-	मक्का	-
			00006	मक्सी		-	-	-	मक्का	-
			00007	मेलखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00008	काकरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	इटवदी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00011	मोहना		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00012	बडवेल		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00013	टेकवा		-	-	-	मक्का	-
			00014	गुजरमोहना		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00016	सिरस्या		-	-	-	मक्का	-
			00017	चौली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00018	ठनगाव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	महेतवाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00020	मातमूर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	जलकोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	खराडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	महेश्वर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	लाडवी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	मण्डलेश्वर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	जलूद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	करोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	समराज		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	चिन्दडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	मोगावा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मोहद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	सोमाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	भकलाय		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	बागदरा		-	-	-	मक्का	-
			00035	भूदरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	गुलावड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	कवाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	झापडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	देवपिपल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	नान्द्रा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	धरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	छोटीखरगोन		-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	सुलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	पथराड खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
	भगवानपुर	Bhagwanp ura								
			00003	मोहना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	मदनीखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बहादुरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	धुलकोट		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00007	काबरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	भगवानपुरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00015	करही		-	सोयाबीन	-	-	-

		00045	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पीपलझोपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिरवेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कुम्हारबेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बाडीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	जामन्यापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अनकवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	दामखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बन्हेर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	आतुड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	बागदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	ढाबला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	गढी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	मोगरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	रसगांगली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	मांडवखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	मोहनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बलखड खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
खरगोन ✓	खरगोन ✓							
		00001	बगवां	-	-	-	मक्का	-
		00002	दसगा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	डोंगरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	साईखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		7	लिक्खी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	मोटापुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	अकवा ल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नंदगांव (बगूद)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इच्छापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पिपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	उबदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सुरपाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	नंदगांव रोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	घोट्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	ऊनबु.	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	ऊन खु.	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	रायविडपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	डालका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	अघायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पंधान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	ईंदारतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	आसनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	टेमला	-	सोयाबीन	-	-	-

		00026	रणगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	गांवसन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बरुड	-	-	-	मक्का	-
		00038	बैजापुरा	-	-	-	मक्का	-
		00039	डोंगरचिचली	-	-	-	मक्का	-
		00040	रहिमपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	बलवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सोनीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	जामली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		गोगावां ✓						
		00005	दयाल पुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	महम्मदपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	बैजापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	गुवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मगया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मेहरजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बेहरामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	घुघरियाक्षेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	देवली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	जगन्नाथपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	बलगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	रुपखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	सोलना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	घट्टी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	दसनावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
बड़वानी	अंजड	अंजड	1	बड़दा						मक्का		
			2	अंजड						मक्का		
			3	बिलवा रोड							मक्का	
			4	सुराना							मक्का	
			5	मोहीपुरा							मक्का	
			6	मंडवाडा							मक्का	
			7	तलवाडा डेब							मक्का	
			8	उचावद							मक्का	
			9	बिलवा डेव							मक्का	
			10	रणमांय डेब							मक्का	
ठीकरी	ठीकरी	ठीकरी	1	चिचली						मक्का		
			2	ब्राह्मणगांव						मक्का		
			3	घटवा							मक्का	
			4	दवाना							मक्का	
			5	हतोला							मक्का	
			6	बघाड़ी						सोयाबीन	मक्का	
			7	बड़सलाय							मक्का	
			8	बलगांव						सोयाबीन	मक्का	
			9	सेमवाल						सोयाबीन	मक्का	
			10	खुरमपुरा						सोयाबीन	मक्का	
			11	ठीकरी						सोयाबीन	मक्का	
निवाली	निवाली	निवाली	1	निवाली					सोयाबीन	मक्का		
			2	बझर					सोयाबीन	मक्का		
			3	फुलज्वारी					सोयाबीन	मक्का		
			4	परुपखेडा					सोयाबीन	मक्का		
			5	खेडी					सोयाबीन	मक्का		
			6	दांदवाडा					सोयाबीन	मक्का		
			7	जोगवाडा					सोयाबीन	मक्का		
			8	चाटली					सोयाबीन	मक्का		
			9	कुंजरी					सोयाबीन	मक्का		
			10	गवाडी					सोयाबीन	मक्का		
पाटी	पाटी	पाटी	1	गुडी						मक्का		
			2	पाटी						मक्का		
			3	बोकराटा							मक्का	
			4	गंधावल							मक्का	
			5	डोगरगांव							मक्का	
			7	पखाल्या							मक्का	

पानसेमल	पानसेमल								
		1	धावडी			सोयाबीन		मक्का	
		2	भातकी			सोयाबीन		मक्का	
		3	खेतिया			सोयाबीन		मक्का	
		4	भडमोन			सोयाबीन		मक्का	
		5	जाहूर			सोयाबीन		मक्का	
		6	आमदा			सोयाबीन		मक्का	
		7	पानसेमल			सोयाबीन		मक्का	
		8	जलगोन			सोयाबीन		मक्का	
		9	मनकुई			सोयाबीन		मक्का	
		10	सकराली			सोयाबीन		मक्का	
		11	दोदवाडा			सोयाबीन		मक्का	
		12	मोगदा			सोयाबीन		मक्का	
बड़वानी	बड़वानी								
		1	भवती			सोयाबीन		मक्का	
		2	सोन्दूल			सोयाबीन		मक्का	
		3	बड़वानी खुर्द			सोयाबीन		मक्का	
		4	क. बड़वानी					मक्का	
		5	कसरावद					मक्का	
		6	बबुद					मक्का	
		7	बोरलाय			सोयाबीन		मक्का	
		8	तलून			सोयाबीन		मक्का	
		9	तलवाडा			सोयाबीन		मक्का	
		10	खजवानी					मक्का	
		11	पांवपुला उत्तर			सोयाबीन		मक्का	
		12	सिलावद			सोयाबीन		मक्का	
		13	हिरकराय			सोयाबीन		मक्का	
		14	केली			सोयाबीन		मक्का	
		15	मेणीमाता					मक्का	
		16	विकल्या					मक्का	
राजपुर	राजपुर								
		1	भागसुर			सोयाबीन		मक्का	
		2	कारोल			सोयाबीन		मक्का	
		3	खड़की			सोयाबीन		मक्का	
		4	दानोद			सोयाबीन		मक्का	
		5	इन्द्रपुर			सोयाबीन		मक्का	
		6	उपला			सोयाबीन		मक्का	
		7	फलसूद			सोयाबीन		मक्का	
		8	रेवजा			सोयाबीन		मक्का	
		9	मटली			सोयाबीन		मक्का	
		10	जोड़ाई			सोयाबीन		मक्का	
		11	पानवा			सोयाबीन		मक्का	
		12	जुलवानिया			सोयाबीन		मक्का	
		13	जलमोन			सोयाबीन		मक्का	
		14	राजपुर			सोयाबीन		मक्का	

			15	खनगांव			सोयाबीन		मक्का	
			16	पिपरी बु			सोयाबीन		मक्का	
			17	बकवाड़ी			सोयाबीन		मक्का	
			18	खजूरी			सोयाबीन		मक्का	
			19	चितावल			सोयाबीन		मक्का	
			20	रुई			सोयाबीन		मक्का	
			21	पुरागांव			सोयाबीन		मक्का	
			22	ओझर			सोयाबीन		मक्का	
			23	बालसमुद			सोयाबीन		मक्का	
			24	सालीकलां			सोयाबीन		मक्का	
			25	नांगलवाड़ी			सोयाबीन		मक्का	
	वरला	वरला								

			14	मालवन			सोयाबीन		मक्का	
			15	काखरली			सोयाबीन		मक्का	
			16	वरला			सोयाबीन		मक्का	
			17	बलवाड़ी			सोयाबीन		मक्का	
			18	दुगानी			सोयाबीन		मक्का	
			19	भेरुघाटी			सोयाबीन		मक्का	
			20	धवली			सोयाबीन		मक्का	
	सेंधवा	सेंधवा								
			1	झोपाली			सोयाबीन		मक्का	
			2	पाकी उर्फ गोई			सोयाबीन		मक्का	
			3	पिसनावल			सोयाबीन		मक्का	
			4	सेंधवा			सोयाबीन		मक्का	
			5	आंवली			सोयाबीन		मक्का	
			6	दबदड़			सोयाबीन		मक्का	
			7	झापडी पाडला			सोयाबीन		मक्का	
			8	कालापाट			सोयाबीन		मक्का	
			9	झिरी जामली			सोयाबीन		मक्का	
			10	धनौरा			सोयाबीन		मक्का	
			11	पड़छा			सोयाबीन		मक्का	
			12	चाचरिया			सोयाबीन		मक्का	
			13	सिरवेल			सोयाबीन		मक्का	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	पटवारी हल्का न.	पटवारी	पटवारी मुख्यालय का नाम							
उज्जैन	उज्जैन										
	उज्जैन										
		00021	कांकरिया	चीराखान				सोयाबीन			
		00022	लिम्बापिपल्या					सोयाबीन			
		00023	करोहन					सोयाबीन			
		00024	जरखोदा					सोयाबीन			
		00025	नायाखेडी					सोयाबीन			
		00026	पंथ पिपलई					सोयाबीन			
		00027	आलमपुर	उडाना				सोयाबीन			
		00028	रामवासा					सोयाबीन			
		00029	निनोरा					सोयाबीन			
		00030	जमालपुरा					सोयाबीन			
		00031	करोडिया	(नवाखेडा				सोयाबीन			
		00032	पिपल्याराघो					सोयाबीन			
		00033	गंगेडी					सोयाबीन			
		00034	ढेडिया					सोयाबीन			
		00035	सिकन्द्री					सोयाबीन			
		00036	चौदमुख					सोयाबीन			
		00037	दाउदखेडी					सोयाबीन			
		00038	कम्बा	उज्जैन				सोयाबीन			
		00039	उज्जैन					सोयाबीन			
	कोठी महल										
		00040	पंवासा					सोयाबीन			
		00041	उडाना					सोयाबीन			
		00042	नहारिया					सोयाबीन			
		00043	ढाबला	रेहवरी				सोयाबीन			
		00044	बकानिया					सोयाबीन			
		00045	गुनई	खालसा				सोयाबीन			
		00046	उमरिया	जागीर				सोयाबीन			
		00047	ताजपुर					सोयाबीन			
		00048	बडोदिया	भाड				सोयाबीन			
		00049	बदरखा	बैरसिया				सोयाबीन			
		00050	पिग्लेश्वर					सोयाबीन			
		00051	शंकरपुर					सोयाबीन			
		00052	हरसोदन					सोयाबीन			
		00053	भैंसोदा					सोयाबीन			
		00054	खजूरिया	कुमावत				सोयाबीन			
		00055	ब्यावरा					सोयाबीन			
		00056	बांसखेडी	खालसा				सोयाबीन			
		00057	बाडकुम्भेद					सोयाबीन			
		00058	सूरजनवासा					सोयाबीन			
		00059	जयवन्तपुर					सोयाबीन			
		00060	करोदिया					सोयाबीन			
		00061	धतरावदा					सोयाबीन			
		00062	नीमनवासा					सोयाबीन			
	चिन्तामन										
		00001	नलवा					सोयाबीन			
		00002	चंदखेडी					सोयाबीन			
		00003	मंगरोला					सोयाबीन			

		00004	चितामण जवासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	आकासोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	असलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	खेमासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	तालोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	हासामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गोंदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	लेकोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	टंकारिया पंथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	उमरिया खालसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कंडारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	टकवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	हमीरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	झरोतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	फतेहाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	नीलकंठ	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>नरवर</b>							
		00065	हामूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	मानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	दूदरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	नौगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	कडछाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	मतानाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	चंदेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	चंदेसरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	खजूरिया रेहवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	दताना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	कडछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गांवडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	पिपलीदा द्वारकाधीश	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	मुंजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	नरवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	सेमन्यानसर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बोलासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	कासमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	कचनारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	पालखन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>खाचरोद</b>							
	<b>खाचरोद</b>							
		00018	भेसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बटलावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रिगनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बोरडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	नरेडीपाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	पानवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बेहलोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कचनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	भाटखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	लेकोडिया ंक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बेडावन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	झिरमिरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गिदवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बिरियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	उमरना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बुरानाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00034	खाचरोद कस्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>घिनोदा</b>							
		00001	गोठडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	नापाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	श्रीबच्छ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बंजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मीण	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	फरनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरखेडा जावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	केसरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	संदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	डोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	चांपाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चांपानेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मोकडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	आक्याजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	चंदोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	दिवेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	घिनोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बडगावा</b>							
		00052	बिलवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	लसुडिया खेमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	बगेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	खामरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	चिरोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	कुम्हारवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पचलासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	नावटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पाडसुल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	मालाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	भीकमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	संदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सुरेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	संडावडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सेकडी सुल्तानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	पिपलोदापंथ	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मडावदा</b>							
		00035	भुवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	थडोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	रूनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कनवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	नंदवासला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नरसिंहगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	खेडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बारथून	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	अर्जला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बरलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	दुपडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	मडावडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कमठाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	लूसडावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	नंदवासला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	चंदवासला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	उंचाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>घटिया</b>							
	<b>घट्टिया</b>							

		00037	भीतरी (मयचक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कमंड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सुरासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कालियादेह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	उटैसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	जैथल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बांदका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	जयरामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	शंकरपुरजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	भील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	तुलाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	धन्नाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	नजरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	निपानिया गोयल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	घटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	जलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	कालूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	रत्नायता हैबत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बिरमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सलामता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खेडा चितावल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	अमरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बिछडोद खालसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बिछडोड इस्तमूरार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	झितरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	मालीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	दाबला गोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	भूतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	कदवाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	उज्जैनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	बनडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	कलेसर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	रूणजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	गुराडिया गुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खजूरिया सदर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	रूदाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>पानबिहार</b>					
		00001	छीतरदेवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	धनडा भल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पिपल्याहामा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बोरखेडा भल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बांसखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	लसुडिया बाजार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गुदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रूई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सीपावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	धुलेटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कालूहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	भीलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बिहारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पानबिहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कागदी कराडीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	किठोदा जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गुनाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	रत्नायता मोजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खलाना	-	सोयाबीन	-	-	-

		00021	गोयला बुजुग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	धूलमहू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	तुमडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सारोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अमोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सिलोदारावला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रातडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बडोदिया काजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नागपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	झिरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	चकरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सोडग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	विनायगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	गौसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	मोहनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	भेरूगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
	तराना							
	तराना							
		00056	इटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	नाहरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	झरनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	देवीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बेरछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नैनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	खरखडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बोरदा गुर्जर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	कनादीर्	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	सिद्धपुरनिपान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	खम्बूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	तोबरीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	छडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	नौगांवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	गावडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	तराना कम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	करन्ज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	छापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	दिलोद्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	सामगी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	बंजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	टिटोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	लिम्बोदा तराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	गोलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	सालाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	भडसिम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	कावलीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	लसुडियाबेचर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	रायपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	दुबली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	मुंडली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	बीजपडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	बघेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	बगोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	कनासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	बरंडवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	दुधली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	पलदुना	-	सोयाबीन	-	-	-

		00095	साकरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	सुमराखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	खारपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	कायथा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	मल्लपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	नानूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	पिपल्याकायथा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	बोरदामांडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	आसेर कायथा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	जवासियाकुमार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	बेलरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	नलेश्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	काठबडोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	खजूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	भट्टनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	उपडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	खातीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>माकडोन</b>					
		00001	पाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ईलमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पाडसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बडोदिया (मकडोन)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सुवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	झुमकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	तेजलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गोदडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सालनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बगवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कांथडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सुचाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भोडल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	चितावल्याखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लसुडियाअमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खज्जुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	चांदन्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	ढाबलाहरदु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	झलारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	टुकराल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	परसोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कडाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	चिकली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बारोठिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	माकडोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	कडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कटवारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गुदडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गुराडियागुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	परी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	रामडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सरली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	डेलची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	केसवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	हासलपुरझिरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	नान्देड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खेडापचोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रूपाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सामानेरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00041	ढाबलाराजपूत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	लसुडियाहमीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पानखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	लिम्बादित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	कपेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	उमराझर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	लालाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	करेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	डोबडागुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	लोध	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	देवली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खामली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	कचनारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	तिलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बिसनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	चिरडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>नागदा</b>							
	<b>उन्हैल</b>							
		00038	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सरवना उन्हैल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बरखेडा माण्डन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	दल्लाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	जलोदिया उन्हैल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	हतई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	झिरन्या खाचरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पिपलोदा सागोतीमाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कुण्डला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पिपल्यामोल्	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	धूमाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	मालीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बेडावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	उन्हैल कस्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	नवादा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	आक्यानजीक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	नागझिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	चम्बल पाडल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	चावण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	लेकोडा आंजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बरखेडा नजिक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पासलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गुरला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	करोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	पिपल्याडाबी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सूरजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	रामाबालोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	खोकरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>नागदा</b>							
		00001	बनवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बेरछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अटलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	कलसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	निम्बोदिया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रोहलखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रोहलकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	झांझाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	निपान्या	-	सोयाबीन	-	-	-

		00012	परमारखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नागदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	टकरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	अजीमाबाद पारदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	भाटीसुडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भीलसुडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	निम्बोदिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अमलावदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सिमरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	डाबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	पडल्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	रतन्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बनबना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गुराडिगाँव पित्रामल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रूपेटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	आक्याकोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	रानी पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	हीडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	अन्तरालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पानखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	गुराडिगाँव सांगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपल्या सारंग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	आलोट जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	करनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	झिरन्या उन्हेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	टुटियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बोरखेडा पित्रामल	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बडनगर</b>							
	<b>बडनगर</b>							
		00074	दांतरवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	बीसाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खरसोदखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	रणवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	ऊटवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	मोलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	झलारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बिरगोदरणधीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	भोमलवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	जाफला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	बडनगर_कस्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	अमला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	आजंदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	खंडवासुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	जलोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	असावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	बंगरेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	सारोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	भिडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	सुकलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	लोहाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	खण्डवाबीबी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	नावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	बडगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	पिपलू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	दोत्रु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	पिठोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	गुनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	अकोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	पीरझलार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	दौलतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00107	पलदुना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	लखेसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बलेडी</b>								
		00038	दुनालजा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	हरनावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	ऊंकारपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	सीजवाता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गावडी लोधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	घुरेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	सरसाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सुनेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	किलोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	नरसिंगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	दंगवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बलेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	घुडावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	झुमकी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	पात्याखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	जहाँगीरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मालपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	अमलावदा बिक ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	पलसोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	मकडावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	महडीआलम		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	कंज़ाड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	असलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कोठडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	नारेला कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	रुपाहेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बमनापाती		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	खडोतीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कुलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	मणियावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	इंगोरीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	चिकली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	कडाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	निम्बोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	घडसींगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सुवास		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>रुनिजा</b>								
		00001	भाटपचलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ओरडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बांदरबेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	लिम्बास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	चिरोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मुंगावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सिलोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सिलोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खरसौदकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बरडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खेडावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नौगावा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बडगावा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गजनीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रुनिजा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	माधोपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बालोदाकोरन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	अज़ाडावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रावदियापीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कल्याणपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	उडसिंगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मुण्डत		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खम्बोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पलवा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00028	पचलानाबिल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जलोदसंजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सुन्द्राबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	जन्साखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पिटलावदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बीराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जांदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	अमलावदकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बालोदाहसन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मलोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बनबनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बालोदालखवा	-	सोयाबीन	-	-	-
	महिदपुर							
	झारडा							
		00001	ब्राहयणखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	पेटलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बपैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कानाखेडीएकलासपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	नारायणखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डेलचीबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मुडलापर्वल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चितावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पर्वतखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	हरबाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	डेलचीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	इसनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	तरनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सगवाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बावलया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पिपल्या भीम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	झुटावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	इगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	घाटपीपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	गोगाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	रानायरापीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मेलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	घटियासाईदास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	भाटवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	माल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	टीपूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मुण्डलासाँध्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	इंदौख	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बनसिंग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	लसुडिशागोयल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	महडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बोलखेडानाऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	खरडिया मानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रबदानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	पाताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पिपल्या धूमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	श्रवण	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	असाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	साकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	लोटिया जुनार्	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	झारडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सुमराखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	तारोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	ढाबलासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	कंधारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सेमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	निपान्याबदर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	काचरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पाडल्या	-	सोयाबीन	-	-	-

		00055	गोलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बमनई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	नागगुराडिगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	कोयल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गोगापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	महिदपुर							
		00059	कृण्डीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	घटियाजस्ता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	लसुडिगाानाहटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नीमखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	खोरियापदमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	नागपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	जोडमालकखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	गुराडिगाादासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	आक्यालिबा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	लसुडिगाामसूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	वणी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	खोरियासुमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बैजनाथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	काजीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कस्बा महिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	भीमाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	कडाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	धुलेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सेकाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	लाखाखेडी नाहरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	महू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	नरायणा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बालोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	बरखेडा बजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	किटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	डटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	बिसलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	धाराखेडा	-	सोयाबीन	-	-	22/2
		00087	बिनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	ढाबलीकम्मा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	जवासियापंथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	सुहागपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	अजमाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	निपान्याराजू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	इंगरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	खेडामद्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	कासोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	इंगरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बागनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	कामत्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	आलाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	पाडीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	धनोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	पिपल्यानाथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	खेडा खजूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	मुंडलीदोत्रू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	शक्करखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	कल्लापिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	जवासियासोलकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	लसुडियादेवसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	घोसला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	आक्याजस्ता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	राघवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	पलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00114	जेल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	जगोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	महडीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00117	महडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	हिंगोन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	मालीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	बरखेडी बाजार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	बेलाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	डोंगला	-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
देवास	कन्नौद									
		कन्नौद								
			00001	खेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	पानीगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बिजवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	हतनोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	महुडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	बावडीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	धुरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	किलोदा बी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	बागनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	अडानिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	कुसमानिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	जांगठा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	सिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	नान्दोन		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	भिलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	काटकूट		-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	शेरगोना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	हतलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	सानखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	पिपल्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	ननासा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	बहिरावद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	कन्नौद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	कलावर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	चपलासा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	रतवाय		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	डोकाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	गुढवेल		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	पागरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	डेहरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	बामनीखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	अम्बाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	खारपा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	रायपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	सुरानी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	किलोदा पी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	पीपलकोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	कोथमीर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	बुरुट		-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पिपलानी		-	सोयाबीन	-	-	-
	खातेगांव									
		खातेगांव								
			00035	सन्दलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	खातेगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	पाडयादेह		-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	बरवाई		-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	भटासा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00043	तमलासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	छायली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	अजनास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	मालसगोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कांजीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	दुदवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	मैलपिल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	मिर्जापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	कणाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	खुडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	राजोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बागदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	भीलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	साक्ट्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बरछाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सवासडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बजवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	लवरास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	जामनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	नेमावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	मुरझाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बुराडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	पिपल्याजानकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सोनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	इकलेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	बिजापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	धुंध्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	नवलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	बीजलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कोलारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	खिडक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>हरणगांव</b>						
		00001	औंकारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ककडदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	विक्रमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सागोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	आमला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पटरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	कलडानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	निवादी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मचवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पलासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	हरणगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	अमेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सुलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बंडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	किशनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	तिली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	ओलम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सुकरास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सोमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सुकरडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	रीछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सन्नोड	-	सोयाबीन	-	-	-

		00025	तिवडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पुरोनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	जियागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कांकरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	देवला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बचखाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खारदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	दीपगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	गूजलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बडदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	चंदवाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	डिडाली		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>टोंकखुर्द</b>								
	<b>चौबाराधीरा</b>								
		00004	खरेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	लसुडियाकुलमी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	खेडामाधोपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	आगरोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पान्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कराडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पाइल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोरवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मुडलादेव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	देवगुराडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सालमखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रणायरकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	जनोलीखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	विजयगढमुरम्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सेकली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	अमोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बरदु		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	जमोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सेण्डू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	जमोनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गुराडियासूरदास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	भीलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बालोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	लसुडियाब्राह्मण		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मूण्डलादांगी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	किन्दुरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	इकलेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कल्लूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	नागपचलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खेडीराजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	भूतियाबुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	चौबाराधीरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	जिवाजीगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>टोंकखुर्द</b>								
		00001	डिंरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दोन्ताजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	आलरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पिपल्यासडक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	जसम्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रतनखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-

		00015	रन्धनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	चिडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	भेरवाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	धनूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	टोंकखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	हरनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	टोंककला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पोलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	फतनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	कलमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	नावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	राबडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	फतेहपुरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	नांदेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	संवरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बुदासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	कन्हेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जिरवाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पाण्डी	-	सोयाबीन	-	-	-
	देवास							
	देवास							
		00001	मुण्डाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	जवासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सुनवानीगोपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सुतली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	दत्तोत्तर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	पंचमुंडला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	साबूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	हेबतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	भेसुनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बरखेडाकायम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मांगरोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	लसुडिया साँडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	अकाल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	रालामंडल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	साँण्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कवडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आगरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	उपडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बगाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	विजयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	टिगरियासाँचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	लिम्बोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	लसुडियाछत्रधार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बांगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सिंगावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बेरागड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	देवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	आंट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सिरौज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पुवाइला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	अचलुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	नागूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	चंदाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	लोहारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	रूपाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-

			00037	गदईशापिल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	बावडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	देवास सिनियर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	देवास जूनीयर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	बिलावली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	इटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	खजूरिया जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	निपान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	अजीजखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	पटलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	मेढकीधाकड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	छोटामालसापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	सिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	अमरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	आनदपुरडुगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	खटाम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	जामगोद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	लोहारपिल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	क्षिप्रासुकल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	सुनवानीमहाकाल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	बालगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	नागदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	टिगरियाछोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	कुमारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	छापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	भडापिल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	बांगरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	गुराडियाभील	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	भानगड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	बालोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	बरखेडाकोतापाई	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	राजोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	गुजरबापच्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	कानकण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	आक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	नापाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	आंवल्यापिल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	खोखरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	जलोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	बडीचुरलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
			00077	बरोठा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00078	सिरोल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	सदाशिवपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00080	खतेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00081	भाटखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00082	पत्थरगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	मोरुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	कैलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00085	टिमरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00086	टिगरियागोगा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	सुनवानीकराड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00088	पटाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00089	टिनोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00090	सन्नोड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00091	नारियाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00092	मरेठियासुतारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00093	पटाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	पर्वतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	सारील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	बारोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	राघोगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	चोबापिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	बराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	दखनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	अखेपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	मिर्जापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	अकबरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बागली</b>							
	<b>उदयनगर</b>							
		00038	सोबल्यापुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	पुजापुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	पलासी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	रूपलीपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	बोरखाल्या	-	-	-	मक्का	-
		00043	पोस्तीपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	बोरपटाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	पारसपीपली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	चन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	करडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	मानसिंहपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	भीकपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	रातातलाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	नीमखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00052	पानकुआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	आगराखुर्द	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00054	सिवनपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	देवनलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	महीगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00059	कनाड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	सीतापुरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00061	आनंदनगर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	बिसाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	पाण्डूतालाब	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	श्यामपुरा	-	-	-	मक्का	-
		00065	पिपल्यालोहार	-	-	-	मक्का	-
		00066	मिर्जापुर	-	-	-	मक्का	-
		00067	इमलीपुरा	-	-	-	मक्का	-
		00068	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00069	उदयनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	रामपुरापटपडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00071	किशनगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00072	पिपलपाटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	पोलाखाल	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00074	निमनपुर	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00075	पीपरी	-	-	-	मक्का	-
		00076	पोटला	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00077	धारडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00078	देवझिरी	-	-	-	मक्का	-
		00079	गुराडदा	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00080	रतनपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00081	बावडीखेडा	-	-	-	मक्का	-
	<b>बागली</b>							
		00001	झिकडाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00002	बरखेडासोमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	करनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	भमोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	डुकलेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बिज्जुखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	चापडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	अमरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	पिपल्याजान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मातमोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बिलावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इस्माईलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सामगी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कमलापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गोपीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खेडाखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	करींदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आगुली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पोलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बेडामऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	आवल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	छतरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	लखवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गुराडियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मुकुन्दगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बेहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	धावडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गुवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	चारबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	अम्बापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सेवन्थाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बागली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	जटाशंकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	डांगराखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बरझाई	-	सोयाबीन	-	-	-
	सतवास							
		सतवास						
		00001	बोरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सुन्देल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बधावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	डेहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	जिनवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भायली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जानसूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	लेहकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	भैसून	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	डांगराखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	कोठडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मोहाईजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बामनीबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पलासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	लोहदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कांटाफोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोदना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00020	बेरागढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सिंगलादेह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सुरमान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	इकलेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बेडगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सलामतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रहमानपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	डाबरीबुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सतवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	अतवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पांगरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गडीझाबरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खिरोन्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बडकनखारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बडीदामाफी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बाल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सिंदरानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	निमासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	गाढागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	गोलागुठान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बिचकुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	भण्डारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	टिपरास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	नामनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बाईजगवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	आमर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	धासड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पोखरखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	निमलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	खारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	सोनकच्छ								
			भौरासा						
		00031	बिसाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मनासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	एनाबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	भूतियाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	ढाबलाजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	जलोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कुमारिया राव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रोतूपिपल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सादीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	भलाईखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कुलाला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	भौरासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कांकडदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बोलासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बुदनगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खोनपीरपिपल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	फावडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सरसोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	इकाच्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पान्दाजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पोलायजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	जगदीशपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बावई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	ओढ		-	सोयाबीन	-	-	-

		00055	सांवेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	भागसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	जलेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	पिपल्याबक्सू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	घटियाभाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	जामोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>सोनकच्छ</b>						
		00001	पिपलरावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	घटियाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पिरपाडुल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मूरम्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	धन्देडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	घिचलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	निपान्याहरहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	लकमडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	जोलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खूटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पटाडियानजदीक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कुमारिया बनवीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खेरियाजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	टुमनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	रजापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कचनारियाइकलेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	तालोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	जामगोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गढखजूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बेराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पटाडियाताज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	गन्धर्वपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	गुराडियाकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	हरनाबंदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	दुधलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खजूरियाकंका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	लोन्दिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	धतुरियाराम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सोनकच्छ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	अगेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	लालाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	दौलतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पारदीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	चौबाराजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	मुण्डलाहाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	जामली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	चांदाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	छायनमेना	-	सोयाबीन	-	-	-

हाटपिपल्या	हाटपिपल्या								
		00001	शिवपुरमण्डला	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00002	बोरखेडीपुरव्या	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00003	घटयाग्यासूर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00004	पुनासा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00005	रोजडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00006	नेवरी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00007	मानकुण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00008	हेदरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00009	सेमलीबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00010	देवगड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00011	हाथीगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00012	मेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00013	मनापिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00014	फागटी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00015	बडियामाण्डू	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00016	बामनी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00017	गोला	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00018	आमलाताज	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00019	नानुखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00020	खोकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00021	गुसट	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00022	टप्पासुकलिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00023	बारोली	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00024	भीलआमला	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00025	डींगरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00026	डिगोद	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00027	कवडिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00028	कांजर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00029	लसुडियाहात्	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00030	पितावली	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00031	खजुरियाबीना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00032	हाटपिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00033	लिम्बोदा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00034	अरलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00035	महूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00036	मनासा (करनावद)	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00037	बवलिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00038	देहरियासाहू	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00039	सादीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00040	चांसिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
शाजापुर	शाजापुर									
		<b>1 शाजापुर</b>								
			00001	कांकडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	गोपीपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	दिल्लोदरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	उमारिया ताज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	चोसला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	अभयपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	पनवाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	अजमेरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	छायन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	नारायणगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	निछमा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	पिपलोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	पचोला बनहल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	मेवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	भिलवाडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	सुनेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	बज्जाहेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	बरवाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	मझानिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	टुकराना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	छापीहेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	लोहरवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	हिरपुरबज्जा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	हिरपुरटेका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	नारायणगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	रागवेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	रामपुरागुर्जर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	पतोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	जाईहेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	निलखीबीड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	भदोनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	खेरखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	टाण्डाबोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	शाजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	मूलीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	आलाउमरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	धाराखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	विकलाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	काजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	पिपल्यागोपाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	बमोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	रिछोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	लडावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	पिपल्याइन्दौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	ताहोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	चकजियाजीपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	खामखेडा (शा)	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	मुत्लाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	सेतखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बायडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बापचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भातूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>2मक्सी</b>							
		00054	आक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	साजोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कपालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	सिहोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	कहारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	पलसावदसोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	सिरोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गडरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	झोकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	खोकरियाटोक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सूरजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>3 बेरछा</b>							
		00065	बडियासोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	जहानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	चोसलाकुलमी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बडनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	रूलकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बेरछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	तिलाबंद गोविन्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	तिलावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कन्हैयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	भीससामी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	बिरगोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	जियाजीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	देदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	बडियागुर्जर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	गोयला	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मो.बडोदिया</b>							
	<b>मो.बडोदिया</b>							
		00001	देहरीपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कडूला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मोहना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	भंवरासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चोमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	अरोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	उमरियादया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सिमरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	निपानियाकरजू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	करजू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मन्डोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कम्हारियापाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	जसवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गरडाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मो.बडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सारसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मताना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	देवरीमुल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	डोगरगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	दुपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	पचोर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00024	बिजाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खेरिया ऐमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	कुम्हारियाखास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	दुधाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पचावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	शादीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	जलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	उकावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कोन्टा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>गुलाना</b>							
	<b>01 गुलाना</b>							
		00001	खेडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	नोलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	खामखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मंगलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	चोकीहिदायतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	किलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	आय्यापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मदाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	तिंगजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	जलोदा शु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	दास्ताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	गुलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	धतुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बाडीगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सलसलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बुडलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मुडलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	केवडाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	भैसरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	केथलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बोलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मखालद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	पलसावद शु.	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>02 सुन्दरसी</b>							
		00024	बोरसाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	पोलायखुर्द.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	जरखीसकराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मकोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सेमलीचाचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सिमरोल (सु)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	देलवाबिहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	घुन्सी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पालडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	घटियाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सुन्दरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	तलेनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	निपान्याधकड	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>शुजालपुर</b>							
	<b>01 शुजालपुर</b>							
		00001	मडलखी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	लाहरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	कडवाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मितेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पेवची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	दूधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	रायपुर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00008	मगरोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	उण्डई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	टिटवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	उगली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	ताजपुरगोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नरोलाहीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	ताजपुर उकाला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	चितौडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पिपलौद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	शुजालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	खेडीनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पटलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	चापडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	अकोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	फूलेन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मोहम्मदपुरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भयाना जादोपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कमालिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	भोगीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	किशोनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	भूगौर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	लसूडल्या हेजम		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	झाडला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मेहरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गैरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>02. अ.बडोदिया</b>	00033	जेठडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जामनेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	अमलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	डूंगलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	उचोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रानीबडौद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	निवालिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	हडलायकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	खाटसूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मुगोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	निशाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	ढाहलाघोसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पंचडहेरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खेजडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	अरण्डिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अरनियाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पाणल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मोरटाकेवडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	खडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पोलायकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बिनाया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	हन्नूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	परगावदकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	अ, बडोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मोहम्मदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	अवंतिपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>कालापीपल</b>								
	<b>01 कालापीपल</b>								
		00001	कमालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	रामडी		-	सोयाबीन	-	-	-

		00003	खरदोनखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खेरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बकायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	रिछडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कोहडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	आगखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चोकीरहीमाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खरदोनकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गालबी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मोहम्मदपुर मछनई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गणेशपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	झुण्डी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मुडलामैना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बडबेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	घट्टीमुख्त्यारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चारखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	भान्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मनसाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	ईमलीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कालापीपलगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	चाकसेद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	आलनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	नांदनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	परतापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पिपल्यानगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खजूरीअलाहाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कांकरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	2 अरनियाकला							
		00030	जाबडियाभील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	भरदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सिलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	धुबेटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मादलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	फरड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बमूल्यामाछली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बेरछादातार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रोसला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	हडलायखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	अरन्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	तिलावदमैना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	रोलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	अलीसरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	जाबडियाघरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पोचानेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कोलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	दोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खमलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रनायल	-	सोयाबीन	-	-	-

2/16

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाते वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
आगर मालवा	आगर										
		<b>01 आगर</b>									
			00001	बापचा आगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	आमला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	अहीरबडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	बिजना खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	नि.बैजनाथ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	नरवल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	आवर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	आगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00009	दोटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00010	पालखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00011	मलवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00012	पिपलोनकलौ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00014	गुन्दीकलौ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00016	तनोडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00017	झलारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00013	थडोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00015	राघौगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		<b>02.कानड</b>									
			00018	खीमाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00019	रणायरा राठोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00020	घुसाश्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00021	भ्याना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	पालडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	शिव गढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	अरन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	कानड	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	चकबडाबीड	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	पचेटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	घानीखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	मथुराखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	चांदनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	बटावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	लाडवन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	फतेपूर मेडकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		<b>नलखेडा</b>									
		<b>01 नलखेडा</b>									
			00001	सेमलखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	गुजरखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	लटुरीगेहलोत	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	ताखला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	गोठडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	मोल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	ढाबला सोनगरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00009	धरोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00010	पडाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00011	लालूखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-

		00012	सुईगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	धन्धेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खेलागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	लसुण्डिया केलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गुदरावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>02 बडागांव</b>							
		00017	बेरछाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भण्डावत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पनाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	गोयल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पिपल्यासेत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कचनारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	भैसोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	छारडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	पिलवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टोल्यक्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	कोहडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सेमली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	ठिकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कुशलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	दावतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	चापाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पचलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बाईगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	धान्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	गोदलमऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	लाडोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लट्टरीउमठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गुराडियाखाती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	टिकोन	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बडौद</b>							
	<b>01 बडौद</b>							
		00001	वराह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	महडियाबडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बापचा बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जमुनिया बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	ढाबला आजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	लोटियाकिशना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	किशनकोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	झलारा बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	आम्बा बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00010	खाताखेडी रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कस्बा बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	गुराडिया बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पिपल्याजाफर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	खेडानारेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	आसंध्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कडवाला	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>02.बीजानगरी</b>							
		00017	बेहका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	हरनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00019	बिनायगा बडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	इकलेराबडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जयसिंहपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बीजानगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कछालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	गुडभेली आगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	करनालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पिपल्याचाचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बडाबरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पिपल्याघाटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मैगापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	आम्बादेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भदवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खजूरी चौपडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	दावडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	देवलीआगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	महारुणडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>03.झोटा</b>							
		00036	लाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	झोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	चिपिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मदकोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सूदाबास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	निपानिया हनुमान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	देवलीपिपलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	ढाबला पिपलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कालियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	अलसिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सुसनेर</b>							

01 सोयतकला									
	00001	बराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00002	गुराडिया सोयत	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00003	डोगरगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	-
	00004	साल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00006	सोयतकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00007	लोहारीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00008	खेरियासोयत	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00009	कंवराखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00010	देहरिया सोयत	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00011	सोयतखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	-
	00012	खेजडाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00018	जाख	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00017	माण्णा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00019	खजूरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00005	सोयत पट्टी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00013	कोठडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00014	लालाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00015	गुन्दलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00016	मोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
02.सुसनेर									
	00020	खैराना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00021	मेहतपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00022	गालनवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00023	ननौरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00024	सालरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-

	00025	श्यामपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00026	सेमली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00027	पालडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00028	गुराडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00030	बडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00031	सुसनेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00032	गैना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00033	बागन्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00034	नाहरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00035	आकली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00036	खेरीया सुसनेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00037	ढाबला केलवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00038	कायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00029	बोरखेडी कावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00039	गैलाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00040	सिरपाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	00041	अन्त्रालिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
नीमच	जावद	जावद	00001	सरोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00003	ढाणी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00004	तुम्बा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00005	उम्मेदपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-		
			00006	तारापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00007	बावलनई	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00008	मैलानखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00009	केलूखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00010	जावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00011	अठाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00012	हनूमंतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00013	खोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00014	सरवानिया मसानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00015	नयागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00016	केशरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00017	दामोदरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00019	बरखेडा कमिलया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00018	सुवाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00020	पालराखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00002	गुर्जरखेडी साकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			मोरवन	मोरवन	मोरवन	00021	मोडी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00022	उपरेडा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00023	सरवािनिया महाराज	-	-	सोयाबीन	-	-
						00024	आकली	-	-	सोयाबीन	-	-
						00025	मोरवन	-	-	सोयाबीन	-	-
						00026	रूपपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00027	माण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00028	सुठोली	-	-	सोयाबीन	-	-
						00029	िडकेन	-	-	सोयाबीन	-	-
						00030	भगवानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00031	िनिलया	-	-	सोयाबीन	-	-
						00032	जनकपुर	-	-	सोयाबीन	-	-
						00033	दडौली	-	-	सोयाबीन	-	-
						00034	कुण्डला	-	-	सोयाबीन	-	-
						00035	लासुर	-	-	सोयाबीन	-	-
						00036	बसेडीभाटी	-	-	सोयाबीन	-	-
			00037	समेल	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00038	आमलीभाट	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00039	धामिनया	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00040	मडावदा	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00041	बराडा	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00042	अरन्या मामोदव	-	-	सोयाबीन	-	-			
			00043	बांगरेड	-	-	सोयाबीन	-	-			
जीरन	जीरन	जीरन	00001	सोिनयाना	-	-	सोयाबीन	-	-			

		00002	महडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	लखमी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बमोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कराडिया महाराज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	राबिडया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	हरनावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	चीताखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	अमावली जागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	घसुण्डी जागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	दलपतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जीरन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बमोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कोठडी ईस्तमुरार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	भाटखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	केलूखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बामिनया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पालसोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	भवरासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	तालखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चल्दू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	अरिनया बोराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कुचडीद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हरवार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	फोफिलया		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>नीमच</b>								
		<b>नीमच</b>							
		00001	बामनबडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दारू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	दूदरसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बसलवास कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	घसुण्डी बामनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	डुंगलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धनेर कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जय सिंह पुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	धामिनया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पिपल्याबाग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	जमुनिया कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जमुनिया खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नीमच सिटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कनावटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	भर भिडया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरूखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नेवड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सेमली चन्द्रावत		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बोरखेडी कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मालखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गिरदोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कानाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>सावन</b>							
		00024	चम्पी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अडमालिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बसलवास सोनियारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रेवली देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पिपलीन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जावी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	थडीली		-	सोयाबीन	-	-	-

		00031	झालरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भादवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बोरखेडी पानेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	लसुडी तंवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	िसरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	आमलीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	छायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेमली मेवाड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मुण्डला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	िवशन्त्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बोरिदया कलां	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मनासा</b>							
		00001	मालखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	जमुिनया रावजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बालागंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	िपपल्यारावजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	उचेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बरिडया जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बावडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	अल्हेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सांडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	जालीनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	अरिनया माली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	आलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	ढाकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	चूकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	शेषपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	लोडिकया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आकली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रायिसंह पुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चपलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मोखमपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	देवरीखवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बडकआं	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मोया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बरथून	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	महागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	दुर्गपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बरिडया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कचोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	मनासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	हांसपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	डांगडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	िपपल्याहाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	िपपलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	भाटखेडी बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रावतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मालाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मनासा</b>							

	कुकडेश्वर	00053	कुडािलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	धाकडखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	खेडली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	पलासिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	कजाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	चौकडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	टामोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सुवासरा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	आमद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	दांता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	चिकली ब्लाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	फूलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कुकडेश्वर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	ढोढरब्लाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	साकिरया खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	खडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मोकडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	ढंढेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	पिपल्यागोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	फोफल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	सेमली ईस्तमुरार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	हनुमंतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	लसुडीआत्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	नलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	भदवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	आत्री बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	दंथल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खानखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	कुडला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कुण्डवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
	रामपुरा							
	रामपुरा							
		00001	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	पालडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	तलाउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	हतुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	भगोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जन्नौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	दुधलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खेतपालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	चन्द्रपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	अमरपुरा ब्लाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	भदाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	डायली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेसला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	खिमलाब्लाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बुज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	चेनपुरा ब्लाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मजीरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बारवाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सोनडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	लसुडिया तंवर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00023	भमेशर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	देवरान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	चचौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	अरन्या ढाणी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बनडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सिंगोली</b>							
	<b>झांतला</b>							
		00015	िकशनपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	शहनातलाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	झांतला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	राजपुरा झवर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	पलासिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	रेतपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	कदवासा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	महपुरा पुरन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	डाबडा कला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	उमर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	बोरिदया कला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	कांकिरया तलाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>रतनगढ</b>							
		00027	डोराई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	जाट	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	श्रीपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	खातीखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	दोलतपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	लुहारिया जाट	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	बधावा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	रतनगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	देहपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	लुहारिया चुण्डावत	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	आलोरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>सिंगोली</b>							
		00001	धारडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	थडौद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	बडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	फुसिरया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	सिंगोली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	पटीयाल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	धनगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	कछाला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	ताल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	कोज्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	आम्बा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	परलाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	बाणदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	अथवा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला									
			00085	रौरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00134	उटीला	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00084	अहूपुरा जागीर	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00086	बस्तरी	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00087	सौसा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00088	बंधौली	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00133	भट्टपुरासानी	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00135	गुरी	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00136	दिहोली	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00137	टांकोली	-	-	-	-	-	-	बाजरा
		कलैथ									
			00033	कैथा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00045	जिंगसोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00032	तिघरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00034	मेहदपुर	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00035	सोजना	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00036	रामपुरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00039	ओडपुरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00040	जेवरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00041	सिंगोरा	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00042	कलैथ	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
			00043	तिलघना	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00044	निरावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		पुरानीछावनी									
			00046	पुरानीछावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00047	मालनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00048	मिलावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00051	रायरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00049	वरौआनुराबाद	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00050	सुसैरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00052	रूदपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00053	थर	-	-	-	-	-	-	बाजरा
		बडागांव									
			00109	सुरौ	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00112	खेरियापदमपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		महलगांव									
			00075	पिपरौली	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00072	नौगांव	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00074	पुरासानी	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00073	सातऊ	-	-	-	-	-	-	बाजरा
			00076	केदारपुर	-	-	-	-	-	-	बाजरा
		मुरार									
			00098	भदरोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00099	सेधरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00100	गिरगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00101	वरेठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00097	चकरायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-

	<b>वहोडापुर</b>									
		00095	जलालपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00096	जम्हार	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	<b>सिरसाँद</b>									
		00127	सिरसाँद		-	-	-	-	-	बाजरा
		00128	दुहिया		-	-	-	-	-	बाजरा
	<b>सुपावली</b>									
		00117	रतबाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		00118	वेरजा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		00104	बहादुरपुर		-	-	-	-	-	बाजरा
		00105	सरसपुरा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00106	पारसेन	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		00107	सुनारपुरा माफी		-	-	-	-	-	बाजरा
		00114	बीरमपुरा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00115	चक केशोपुर		-	-	-	-	-	बाजरा
		00116	सिरोली		-	-	-	-	-	बाजरा
		00119	गोवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		00120	बिल्हेटी		-	-	-	-	-	बाजरा
		00121	सुपावली		-	-	-	-	-	बाजरा
		00123	राई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00125	बिजौली		-	-	-	-	-	बाजरा
	<b>हस्तिनापुर</b>									
		00153	हस्तिनापुर		-	-	-	-	-	बाजरा
	<b>घाटीगांव</b>									
	<b>घाटीगांव</b>									
		00015	आरोन		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00016	चैत		-	-	-	-	-	बाजरा
		00018	सिमरियाटांका	धानसिंचित	-	-	-	-	-	बाजरा
		00017	हकुमगढ		-	-	-	-	-	बाजरा
		00019	महारामपुरा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00020	सिरसा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00021	घाटीगांव		-	-	-	-	-	बाजरा
		00022	पार		-	-	-	-	-	सोयाबीन
	<b>बरई</b>									
		00023	पनिहार		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00026	बरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00027	पबा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00029	चराईडांग		-	-	-	-	-	बाजरा
		00024	नयागांव		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00025	रायपुर		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00030	सुरहेला		-	-	-	-	-	बाजरा
		00031	लखनपुरा		-	-	-	-	-	बाजरा
	<b>मोहना</b>									
		00008	मोहना	धानसिंचित	-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00009	उम्मेदगढ		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00010	वन्हेरी		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00011	करही		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00012	पाटई		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00013	बडका गांव		-	-	-	-	-	बाजरा
		00014	समराई		-	-	-	-	-	सोयाबीन
	<b>रैहट</b>									
		00002	जखोदा		-	-	-	-	-	बाजरा
		00003	रैहट		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00004	चराईश्यामपुर		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00005	दौरार		-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00006	सहसारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	सोयाबीन
		00007	बडागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-	सोयाबीन

		00001	बागबालागांव		-	-	-	-	बाजरा
<b>चिनौर</b>									
	<b>आंतरी</b>								
		00003	बडैराभारस		-	-	-	-	बाजरा
		00006	कछीआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	पुरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खैरबाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	पिपरउ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	आंतरी		-	-	-	-	बाजरा
	<b>करहिया</b>								
		00025	ककधा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	करहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	ईटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	मऊछ		-	-	-	-	बाजरा
		00020	घिरोली		-	-	-	-	बाजरा
		00022	बनवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	उर्वा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>चीनौर</b>								
		00030	मेंहगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	सिरसुला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	किशोरगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	चिनौर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	ररूआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	घरसोदी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	नौनकीसराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	मैना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	दौनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	दौलतपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	पचौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>सिकरोदा</b>								
		00001	अमरौल		-	-	-	-	बाजरा
		00002	सिकरोदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	बडकीसराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	भैगना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	कैथी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	ओरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	झांकरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	पिपरौआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>डबरा</b>								
	<b>करियावटी</b>								
		00062	लोहगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	सालबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00075	मिलघन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00077	घिरोरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00078	झाडौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00079	करियावटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00080	जतरथी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00081	जरावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00082	नुन्हारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	सर्बा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>छीमक</b>								
		00048	चौमो	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	खडवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	बारोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	चितावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	महाराजपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00067	रजियावर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00068	अकबाईछोटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	छीमक	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	सिरसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	खेडीरायमल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	गोवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	देवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	कोसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>टेकनपुर</b>								
		00001	कल्याणी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	चिरुली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	बीरमदाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	अकबई बडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	घई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	पठापनिहार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	समूदन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	टेकनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	बोना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	बेरु	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>डबरा</b>								
		00041	सरनागत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	इटायल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	सिमरियाताल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	गोडोलकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	डबरा (ग्राम)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	मगरोरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	वरोठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	अरु	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	करा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	चांदपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>पिछोर</b>								
		00033	पिछोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	वडेराबुजुर्ग	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	छपरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	अजयगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>शुक्लहारी</b>								
		00022	कम्हरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
<b>भितरवार</b>									
	<b>देवरीकला</b>								
		00030	चिटौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	हर्सी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	बेलगढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	धोबट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	देवरीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	मस्तुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	गधीटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	पलायछा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	बनियातौर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	सहारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	आदमपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	खेडाभितरबार	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		<b>भितरवार</b>								
			00001	सिंघारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	गढाजर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	चर्खा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	वरोआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	इकहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-

			00006	सोताखिरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	बागबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	सासन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	भितरवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	किठौंदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	श्यामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	जौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		<b>रिछारीकला</b>								
			00021	रही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	वेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	खेडाटाकां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	रिठोदन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	सुयाउ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	रिछारीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00027	रिछारीखुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	बाजना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	डोगरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	मुशाहरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		<b>साखनी</b>								
			00007	बन्हैरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00009	बासोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	साखनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00011	लुहारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00012	पवाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	बामरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	कैरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	गोहिन्दा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	देवगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	मोहनगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	खडौंआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
भिण्ड	अटेर									
		अटेर								
			00002	कनेरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00003	उदोतगढ	-	-	-	-	-	बाजरा
			00008	अहरोलीघाट	-	-	-	-	-	बाजरा
			00009	सौरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00010	निवारी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00012	चौम्हो	-	-	-	-	-	बाजरा
			00013	अहरोलीकाली	-	-	-	-	-	बाजरा
			00025	जम्हौरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00026	रिदौली	-	-	-	-	-	बाजरा
		सुरपुरा								
			00027	दैपरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00029	जौरीकोतवाल	-	-	-	-	-	बाजरा
			00030	किशुपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00031	आकौन	-	-	-	-	-	बाजरा
			00032	नखलीली	-	-	-	-	-	बाजरा
			00033	सुरपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00034	परा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00035	सोई	-	-	-	-	-	बाजरा
			00036	जनौरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00037	कमई	-	-	-	-	-	बाजरा
			00038	दुल्हागन	-	-	-	-	-	बाजरा
			00039	गजना	-	-	-	-	-	बाजरा
			00040	मनैपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00041	क्यारीपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00042	कोषड	-	-	-	-	-	बाजरा
			00045	मधैयापुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00047	रमा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00048	सकराया	-	-	-	-	-	बाजरा
			00050	बडापुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00053	विरगवाराणी	-	-	-	-	-	बाजरा
	गोरमी									
		गोरमी								
			00001	सुकाण्ड	-	-	-	-	-	बाजरा
			00002	आरोली	-	-	-	-	-	बाजरा
			00003	कुटरोली	-	-	-	-	-	बाजरा
			00004	कचनावकला	-	-	-	-	-	बाजरा
			00005	कचनावखुर्द	-	-	-	-	-	बाजरा
			00006	पचैरा	-	-	-	-	-	बाजरा
		फूप								
			00058	स्योडा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00059	भदाकर	-	-	-	-	-	बाजरा
			00061	डिडी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00063	फूपकला	-	-	-	-	-	बाजरा
			00065	बरही	-	-	-	-	-	बाजरा
			00066	सपाड	-	-	-	-	-	बाजरा
			00069	सराया	-	-	-	-	-	बाजरा
			00070	भोनपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00071	सांकरी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00072	विण्डवा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00073	मीसा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00074	कनावर	-	-	-	-	-	बाजरा
		भिण्ड								
			00037	भटमासपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा

		00039	बवेडी	-	-	-	-	बाजरा
		00040	नुन्हाटा	-	-	-	-	बाजरा
		00041	बाराखुर्द	-	-	-	-	बाजरा
		00042	सिकहाटा	-	-	-	-	बाजरा
		00043	अकोडा	-	-	-	-	बाजरा
		00044	बाराकला	-	-	-	-	बाजरा
		00045	चरथर	-	-	-	-	बाजरा
		00050	खदरगऊघाट	-	-	-	-	बाजरा
		00054	रछेडी	-	-	-	-	बाजरा
		00056	कचोंगरा	-	-	-	-	बाजरा
		00057	परसोना	-	-	-	-	बाजरा
	मिहोना							
	मिहोना							
		00003	परायच	-	-	-	-	बाजरा
		00004	रहावली बेहड़	-	-	-	-	बाजरा
		00008	रहावलीउवारी	-	-	-	-	बाजरा
		00009	सिकरीजागीर	-	-	-	-	बाजरा
		00016	मछण्ड	-	-	-	-	बाजरा
		00020	सुरघान	-	-	-	-	बाजरा
		00022	असनेट	-	-	-	-	बाजरा
	मेहगांव							
	अमायन							
		00043	गोअरा	-	-	-	-	बाजरा
		00044	भारौलीखुर्द	-	-	-	-	बाजरा
		00045	भारौलीकला	-	-	-	-	बाजरा
		00046	गोरम	-	-	-	-	बाजरा
		00055	आंतो	-	-	-	-	बाजरा
	रीन							
	रीन							
		00001	पदोरा	-	-	-	-	बाजरा
		00002	परसाला	-	-	-	-	बाजरा
		00003	ररूआ नं. 1	-	-	-	-	बाजरा
		00004	मैहदा	-	-	-	-	बाजरा
		00005	रैवजा	-	-	-	-	बाजरा
		00006	निवसाई	-	-	-	-	बाजरा
		00007	पुराभीमनगर	-	-	-	-	बाजरा
		00011	मैहदवा	-	-	-	-	बाजरा
		00015	विरखड़ी	-	-	-	-	बाजरा
		00016	नौधा	-	-	-	-	बाजरा
		00019	काट	-	-	-	-	बाजरा
		00024	दोहई	-	-	-	-	बाजरा
		00025	बोनापुरा	-	-	-	-	बाजरा
	लहार							
	असवार							
		00037	धरमपुरा	-	-	-	-	बाजरा
	दवोह							
		00055	वीसनपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00056	विजपुर	-	-	-	-	बाजरा
	लहार							
		00001	मड़ोरी	-	-	-	-	बाजरा
		00002	अजनार	-	-	-	-	बाजरा
		00003	रोहानीसींगपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00004	लिलवारी	-	-	-	-	बाजरा
		00005	गिरवासा	-	-	-	-	बाजरा
		00007	डूडा	-	-	-	-	बाजरा
		00008	जमुहा	-	-	-	-	बाजरा
		00009	भटपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00010	वैशपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00011	मेहराबजुर्ग	-	-	-	-	बाजरा
		00015	छिदी	-	-	-	-	बाजरा
		00018	लहार	-	-	-	-	बाजरा
		00019	लहार	-	-	-	-	बाजरा
		00020	रोहानीजागीर	-	-	-	-	बाजरा
		00021	पृथ्वीपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00022	चिरोली	-	-	-	-	बाजरा

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
गना	आरोन	आरोन										
			00020	इमलिया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00021	रामगिरकला		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	आरोन		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	रिजोदा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	शहबाजपुर		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	सुगनयाई		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	पहारुआ		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	मातामूडरा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	हिनातिया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	पतलेश्वर		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	रामपुर		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	बन्दावन		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	दिमरयाई		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	सिरसी		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00034	भौरा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00035	खामखेडा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00036	जखोदा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00037	मूडराखुर्द		-		सोयाबीन	-	-	-	-
		<b>पनवाडीहाट</b>										
			00038	सालय		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00039	रोरिया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00040	बरोद		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00041	टकपरोरिया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00042	कुन्दोली		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00043	देहरीकला		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00044	रुसल्लीकला		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00045	चौपना		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00046	खिरियादागी		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00047	करैया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00048	कम्बामठी		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00049	नेव		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00050	क्षे;पाल,		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00051	पनवाडीहाट		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00052	सर्राई		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00053	सेमराचांच		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00054	डगराई		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00055	मूहासा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00056	झितिया		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00057	आमखेसडासूखा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00058	हापाखेडी		-		सोयाबीन	-	-	-	-
		<b>बरखेडाहाट</b>										
			00001	पाटन		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	सगाबरखेडा		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	बरखेडाहाट		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	बारोद		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	देवरी		-		सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	भादौर		-		सोयाबीन	-	-	-	-

		00007	नठाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	घटवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	देहरीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बूढाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	अमोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बनवीरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	शहरोग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	झाझोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	साबनभादो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	ककरुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कुशमान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पिपरोदा मैना	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>कुम्भराज</b>							
	<b>कुम्भराज</b>							
		00035	मानकचौक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	केकडयाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	गुलबाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	अगरयाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	आमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कुम्भराज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गोल्याखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बरखेडाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	तुलसीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	परवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	ईटखेडीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कुदारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रोडाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अल्लीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	कानाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	उपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	केकडयाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खटकिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>भमावद</b>							
		00017	रामनगर लोघापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मोहम्मदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सीगनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सानई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	भूमलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मदागनमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	आमखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पीपल्या सीगनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	तलाबडा मजरा सानई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	झारेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मोहनपुरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बडौद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	आकखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बहूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खेजडारामा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बिरयाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	भमावद	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मृगवास</b>							
		00001	जामोल्या जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	झीकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	खानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00004	कोलूखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	खेडीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बासाहेडाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खजूरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	तलावडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	केकडीवीरान		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	झीरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	वकान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सोलाई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	कडैयाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	तोरकाखेडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	टटूजखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मगवास		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>गुना</b>								
		<b>उमरी</b>							
		00027	गाजीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	उकावद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गोपालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गजनाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कुन्दोल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मगराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	इमझरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	रिछेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	महखान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	हिनीतिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खुटियावद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रेझाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पुरैनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	घमनार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	तरावटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिलावटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	विलोनीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	उमरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	अगरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	भिडरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	चकदेवपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मकरावदा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	नेगमा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पूरापोसार		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00052	हरिपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	सिधाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	गढा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>गुना</b>								
		00055	पांज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बजरगगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	महगढा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	हिलगना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	कुशमोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	विनायकखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गुना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	सक्तपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	पिपरोदाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	छावनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	मावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	टोरिया		-	सोयाबीन	-	-	-

		00069	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बेहटाघट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	माहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	पिपरोदाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	खंजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	गढलागिर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	गोपालपुरटकटैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गेहूखेडागिर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	बरखेडागिर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	करोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	मंगवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	देवरीमार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	परसोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सिरसीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	सतनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	चुराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	छीपोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	दुरदुरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	तिल्लीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>म्याना</b>						
		00001	रेहपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कलेछरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	नयागांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	मझौला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सांडखडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	सनबाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सिरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	करीली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कर्के की महु	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	मार की महु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	उदयपुरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	म्यापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	राई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	खेरीखता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	महोदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	भटौरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	लहरकोता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	इगासरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	तिनस्याई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सिंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	टकनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	खजूरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	म्याना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पदमनखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	लहरघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	जमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>चाचौडा</b>						
		<b>चाचौडा</b>						
		00001	फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	बटावदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	जलालपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	पीपलहेडाडांग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	झूकरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	कुसुमपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	उमरथाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	मांगरोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मोरियाखेडीखुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00010	कालापीपल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	पीपल्यामोती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चांचोडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	महेशपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	खातोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बीजनीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कुडाल्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	बरखेडीमाफी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	दैदला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>पैची</b>							
		00038	पैची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मुहासाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नैत्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	आमासैर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मुरेला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	पाखरियापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सोनाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कनकनहेरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	नारायणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कोकल्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मेरियाखेडीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	डाबरया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	तेलीगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	रतोधना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	लखनवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	वापचाविक्रम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	खेजडाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>रमडी</b>							
		00019	रमडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अजगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बरखेडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	खैजडाकलारानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	घाटाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	चितोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कोलुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	वापचालहरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	जयसिंहपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पटोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	टोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	अरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गेहूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पीपल्याकलाबांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जटैरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कीताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	लहरचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	भेसुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बामोरी</b>							
	<b>फतेहगढ़</b>							
		00001	कपासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	चकलोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सिलावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जोहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बर्धा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	टीली	-	सोयाबीन	-	-	-

		00007	पाडोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	नरवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	छिकारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बरवन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कलोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	फतेहगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मिडरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कुडका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बावडीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	चीलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	डिगडोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पाठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	हमीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	कोहन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	अजरोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कशेपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	मगरोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	कान्सल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	किशनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	भोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	लालानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	चुरेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बनेह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	धनोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	धाननखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सुहाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	परवाह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पेटबाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	रत्नागिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	झागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	मूडराहनुमान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सूजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	विश्वनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बमौरी</b>							
		00011	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	विशनवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पाटन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बिटठलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	डोगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गढलाउजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	सोनखरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	काबरबमौरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	डुमावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बरोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पराठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	देहरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डोगरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खडेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बाधेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मूहालकालोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पांचोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सिलावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	उकावद कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बमौरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	लोडेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	रवारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	दोहरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	मुरादपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	गोलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00068	खेजराबावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	बेरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	शेखपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	विसोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	सामरसीगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	साबरामोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	कोतर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	खरगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	ख्यावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	अमरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	भूराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	मोहनपुरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	सिमरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मकसूदनगढ़</b>							
	<b>जामनेर</b>							
		00001	खजेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	परेवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	टोडरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सालोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	लक्ष्मणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बलरामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गादेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पाटन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	विजावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मोरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गोचाआमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जामनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	वापचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मलियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बंजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	डरपई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कंजई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	डोगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पचगोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	धीनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	जागरू	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मकसूदनगढ़</b>							
		00023	सियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कोलारस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मोहम्मदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	तोरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	करेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कजलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मकसूदनगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	परवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	एमनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बारोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कीताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	दिरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	नागनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	भगवतीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बडौदकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	उकावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	करोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	नसीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	खेराड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	शाहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	कादीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00046	दुर्गपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	विशनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खेरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	महु	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>राघोगढ</b>							
			<b>करमाखेडी (रुठियाई)</b>					
		00001	खेजडागुरुजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	खिरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	घरनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	भुलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	ककवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सक्तपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बेलका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	विजयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बालाभेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	दावतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	टोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	भदोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	करमाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	दुहावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बंदरगढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	खेराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नादनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पुरैना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	दौराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पाडरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डोगर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>राघोगढ</b>							
		00024	भैसाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अहीरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	अहमदापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	विदौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नोहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सावरीनाथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सारसहेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	अचकलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	आवन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	बेहराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	साकोन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सौरामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नारायणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	गोविन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सुन्दरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	पारकना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गावरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	दीतलबाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	सागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	फाजलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पीलाघाटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सावतखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	चैनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	किशनगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	गोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	चोपडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बरखेडीडांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	परसोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	आमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	पीपलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बरसत	-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
विदिशा	कुरवाई									
		कुरवाई 01								
			00001	करईबेरखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	छीरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	करहैया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	शेखपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	दादूरार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	टेकू	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	धुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	तमोइया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	इमलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	बरबाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	खजुरियाजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	फतेहपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	नेहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	वीरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	मदउखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	झगरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	काछीकुम्हरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	भौरासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	कस्बाकुरवाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	पाड़ोछा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	लचायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	बासौदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	मलियाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	बरखेड़ा(लायरा)	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	लायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	धारुखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	नाउकुण्ड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	कांकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	जरगंवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	राजपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	कैथोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	बरुअल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	तलापार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	सीहोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	पनावर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	बरेठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	रुसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	ईसाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	पैराखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	मेहलुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	रोशनपिपरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	बजीराबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	माला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	पिथौली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	कुल्हन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	विशनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	पीकलोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	लेटनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00049	सिरावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	देवली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सिरनोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भैसवाहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	गुदावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कौसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	नगवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>गुलाबगंज</b>							
	<b>गुलाबगंज 01</b>							
		00001	इकोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	अंडियाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	संतापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	पिपरिया गुनुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मुगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	लखगार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	घोसुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चक रघुनाथपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गुलाबगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	एरन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बरीघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सुमेरबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मढीचौबीसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सौजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	वनजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मेहरुखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मूंडरागुनुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	चाठोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सुआखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सिमरहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	नादौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मढीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	अटारीखेजड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	दीघोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	अम्बार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खेजड़ा पड़रात	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	नौलास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बंडवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बरखेड़ा गंभीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	धतूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	हतियाखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गुनुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	झिरनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>ग्यारसपुर</b>							
	<b>ग्यारसपुर</b>							
		00001	चिरावटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	इमलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पथरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	इन्दरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	ऊहर कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	ग्यारसपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कोलुआधामनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पिपरिया पाराशर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	दैयरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बासादेही	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सेमराधामनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मढियाधामनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बेहलोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	धामनोद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00015	खिरियाजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	चीकली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोहम्मदगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	औलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मानोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बंजरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सियासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	धौखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पचपेड़िया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	नोरजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कोलुआ जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गुल्नोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मठियाजामन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मठियादरोई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पुरागुसाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	कंजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	हैदरगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मदनई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सीहोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बोरीरामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	लखूली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बरवाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	घटेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	त्यांदा							
	त्यांदा 01							
		00001	देलवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मूंडरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भिलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	हामिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अमारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	महौली त्यांदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मुराहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	उकायला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सैरवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खैरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मैनवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	खामखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पचपीपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पिपराहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रसूलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	त्यांदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	रीछई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बारौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सिरनोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	करौंदाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भिदवासन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सौसेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पिपरिया दौलत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	घटेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	आबूपुर उर्फ कुचौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	अनवई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सतपाड़ाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	लगधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बरमठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गौड़खेड़ीमार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कस्बा बागरीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बूठी बागरीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	विसधा	-	सोयाबीन	-	-	-

नंटेरन									
	<b>नंटेरन 01</b>								
		00001	एचदा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00002	रजोदा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00003	मह	-		सोयाबीन	-	-	-
		00005	रायखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00008	बमुरिया	-		सोयाबीन	-	-	-
		00009	फूफेर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00010	जोगी किराँदा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00011	हसनपुर जाठोदा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00012	तिलातिली	-		सोयाबीन	-	-	-
		00014	मरखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00015	बूधोरा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00016	पडरियाजागीर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00019	नानकपुर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00004	घोघरा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00006	सकराई	-		सोयाबीन	-	-	-
		00007	पैरवासा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00017	सोमवारा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00018	खड़ेर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00020	रमपुराकलां	-		सोयाबीन	-	-	-
		00021	आमखेड़ासूखा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00024	महूआखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00025	पंवारिया	-		सोयाबीन	-	-	-
		00026	नरखेड़ाखड़या	-		सोयाबीन	-	-	-
		00027	नागोर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00028	मूडरापीताम्बर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00029	रायपुर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00030	घटवाई	-		सोयाबीन	-	-	-
		00031	दिघौनी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00032	जौहद	-		सोयाबीन	-	-	-
		00033	सिलवायखजूरी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00034	ताजखजूरी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00036	नंटेरन	-		सोयाबीन	-	-	-
		00037	सेऊ	-		सोयाबीन	-	-	-
		00038	रिनिया	-		सोयाबीन	-	-	-
		00039	मूडराशेरपुर	-		सोयाबीन	-	-	-
		00040	रावन	-		सोयाबीन	-	-	-
		00041	किम्बाखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00042	खाईखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00043	खजूरीदास	-		सोयाबीन	-	-	-
		00013	गुराँद	-		सोयाबीन	-	-	-
		00022	पिपरियाशमशाबाद	-		सोयाबीन	-	-	-
		00023	आमखेड़ाकालू	-		सोयाबीन	-	-	-
		00035	खेराई	-		सोयाबीन	-	-	-
	<b>पठारी</b>								
	<b>पठारी 01</b>								
		00001	शहरवासा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00002	दतेरा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00003	उकावद	-		सोयाबीन	-	-	-
		00004	श्यामपुर गुदावल	-		सोयाबीन	-	-	-
		00005	भालबामोरा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00006	दुधावरी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00009	बन्दावठा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00010	धामोनीपुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
		00012	रामगढ़	-		सोयाबीन	-	-	-
		00013	खजूरियापठारी	-		सोयाबीन	-	-	-
		00014	विसलोनी	-		सोयाबीन	-	-	-

		00015	जाजपोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मनेशा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	सिमरधान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बाबईखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पठारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	छपारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मथुरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बरखेड़ापठारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बड़ोह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कांकलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बासीदा</b>							
	<b>अम्बानगर 01</b>							
		00001	ऊहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मेहमूदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	आटस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	करहेया जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हरगनाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	उकायला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पड़रिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	अम्बानगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सकरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	निबोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	खरथरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बीलाढाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	आगासोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रोजरु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	धनवाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मसूदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	किरवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मुटरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	अरनोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कुल्हार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	दाउद बासीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बाबली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	साहबा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	औरंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भुआरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	काजी किरादा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	झिलीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पुरवाई चक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बरेठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	भाटनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	उदयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	चुल्हेटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	वडवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सताखेड़ी जाजोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	लेहदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बासीदा 02</b>							
		00036	मुरादपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	डिढोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	रबरयाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	हतौडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	हरदूखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	खेरुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	महागौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पचमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	गमाखर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00051	नोघई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	कुल्हा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सोठिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पवई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	फरीदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सेमराबासौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मूंडरा बासौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	ककरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	बसरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	न्यारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	नेगमा विपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	गंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	चौराबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मढियासेमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	देरखी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	तवक्कलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	आकाडोढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मोरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बरखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	करोदाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	आटासेमर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	मासेर	-	सोयाबीन	-	-	-
लटेरी								
	आनन्दपुर 01							
		00001	पटेराचाण्डू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मूंडरारतनसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	उनारसीकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जरसेना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नारायणखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	कालादेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सावनखेड़ीदेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	चान्दबड़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	तीतरबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अहमदनगर उर्फ मोतीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	ओखलीखेड़ाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	परवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	जावती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	आनन्दपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खैरखेड़ीकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गोलाखेड़ीकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	वापचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	महोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	चमरउमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	डोडाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बनारसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	निसोबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	लटेरी 02							
		00013	सुनखेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मढावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	ईशरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	भटोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	ताजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	महावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कोलुआपठार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	लटेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मोहब्बतपुर उर्फ मलनिया	-	सोयाबीन	-	-	-

		00034	वावनखेड़ीरुसल्ली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मसूडीउर्फ रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रुसिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बलरामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	मुरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	धरगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मुरारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	मूडरासागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	वीरपुरकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	ललचिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	काछीखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	रुसल्लीसाहू	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>शहरखेडा 03</b>							
		00042	बरखेडाघोसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	झुकरजोगी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	देहरीपामा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बीजूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बैरागढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	धीरगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	अगरापठार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मुस्करा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सेमरीअहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	तिलोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	जमुनियाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सेमरामेघनाथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	नैनवासकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शहरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	गोपालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	दनवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	सिरारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	टोंकरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	मुडैला	-	सोयाबीन	-	-	-
<b>विदिशा</b>								
	<b>पीपलखेडा 01</b>							
		00001	नथनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सहजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सतपाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	रुसल्ली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	शेरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	अहमदानगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पीपलखेडाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	सुलतनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	अरवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बिलौरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पुरैनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गंगरवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	थान्नेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सनीटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बरौ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पिपरियाअजीत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	धमनोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भूतपरासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कबूला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पौआनाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बालाबरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सायर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00031	खेजड़ासुल्तान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खामखेड़ाकस्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	करैयाहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	नीमखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	चितौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	दुपारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	हिनातिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कागपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	मूंडरा सुरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कोलिजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अमऊखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	देवखजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सांकलखेड़ाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सांकलखेड़ाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	कोठीचारकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कोटरालशकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	परासीगूजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	गढला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	करेला	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>वर्कलोड 03</b>							
		00067	डाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	मिर्जापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	पांझ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	किरमचीबंधेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	भदारबड़ागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	खरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	कुआखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	कराखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	मुंडराहरिसिंह	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>विदिशा 02</b>							
		00012	गुरारियालशकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	छीरखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	जम्बार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बागरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	इमलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	करारिया लशकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	लशकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खेरुआहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	हरुखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	पैरवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बैस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सुनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	करैयाहवेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	कस्बा विदिशा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	शेरपुर मुंजप्ता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	सोठिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पठारीहवेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	खामखेड़ालशकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	जीवाजीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	चिड़ौरिया मु.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	पालकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	पड़रात	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	ठर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	जैतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	बरखेड़ाकछवा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00085	परसोराहवेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	हंसुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	देवराजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	मूंडरापरसूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	भाटनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	बेरखेडी अहमदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	डंगरवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	सौर्यर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	घाटखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	कांकरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	करारियाअहमदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	नितरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	पीपरहूठा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	गुबरहेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	अहमदपुरकस्बा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	मूंडरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	शम्शाबाद								
		शम्शाबाद 01							
		00001	कोलुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	महूठा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सिंगरामपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	भियाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	शम्शाबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बरुआखार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	जमनयाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	डंगरवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बामोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	करैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नेहरयाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बिछिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पिपलधार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	अमरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रुसल्ली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	धोबीखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बीड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मोही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बेरखेडीकिरार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बर्धा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बरखेड़ा माखू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सांगुल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	हीरापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	थाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	रमपुराजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बरखेड़ाजागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बीलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हींगली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	साइर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बाइर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	हिनीतियामाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	भरना खेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सतपाड़ाहाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	करमेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नादिया		-	सोयाबीन	-	-	-

		00042	लखार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	हडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	जीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सिरॉज</b>							
	<b>दीपना खेडा 04</b>							
		00035	बगरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	दामोदरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	चाठोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	दीपनाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	त्रिभुवनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	ललितपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	करैयाहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रिनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	जगथर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	दीगनाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	गोपालनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	कुडका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	बड़ोदाताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	बमुरियाताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बामोरीशाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सालपुरकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	प्याराखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कराखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	हरगनाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>भगवतपुर 02</b>							
		00001	करईखेडाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	भगवन्तपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मूंडराघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	नरखेडाजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खेजड़ाहाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भोजूखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रतनबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	प्यासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गेहूँखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	अनूपपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	देवपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सरवरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	पगरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	पामाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	काजीखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	धानोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सेमरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	महुआखेडापृथ्वीराज	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मुगलसराय 03</b>							
		00011	अबूआढना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बांसखेड़ीअसपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	खोदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कांदरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कचनारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सरेखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पिपरियाहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मूंडराधर्म	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	झण्डुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	मुगलसराय	-	सोयाबीन	-	-	-

		00052	सन्तोषपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पैकोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बांसखेड़ीगूगल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	भियाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कोरबासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	गरेठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	अमीरगढ़ उर्फ गोपालखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	पारधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>सियलपुर 05</b>						
		00034	परसोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बरेज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	गुलाबगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	भटोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	देहरीजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बेरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	इकलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	रुसल्लीदामा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	पथरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	महादेवखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	सियलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	सोना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	सुल्तानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	सफदलपुरताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	घोसुआताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	ईकोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	कम्बाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	कूजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	घटवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	उनारसीताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>सिरोंज 01</b>						
		00018	झुकरहोज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	देवीटोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	तरवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	खेजड़ागोपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	घुटुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	छापू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	चितावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	महू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नेकान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	इमलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	लिघोड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चौड़ाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सांकलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मूंडरावागल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	विसैपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कम्बा सिरोंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	चुनियाखोह	-	सोयाबीन	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
बैतूल	आठनेर	आठनेर	00020	कावला रै.	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00021	सातकुण्ड र	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00022	गारगुड रै	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00023	वडाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00024	मेढा छिदवाड	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00025	बरखेड	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00026	धामोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00027	सावंगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00028	गूनखेड	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00029	मोढवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00030	बोरपानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00031	मुसाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00032	जावरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00033	धनोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00034	धनोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00035	पुसली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00036	टेभुरनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00037	येनखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00038	गुजरमाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00039	आठनेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00040	गौडी घोघरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00041	सूकी रै.	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00042	आष्टी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00043	हिडली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00044	पानबेहरा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			00045	मोरुदाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			सातनेर	सातनेर	सातनेर	00001	रजोला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-
						00002	पाँदुरना	-	-	सोयाबीन	तुअर	-
						00003	हिवरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00004	देहगुड	-	-	सोयाबीन	-	-
						00005	अक्कलवाडी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00006	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00007	बाकुड	-	-	सोयाबीन	-	-
						00008	सातनेर	-	-	सोयाबीन	-	-
						00009	कोयलारी रै	-	-	सोयाबीन	-	-
						00010	KHAIRWADA	-	-	सोयाबीन	-	-
						00011	बाथी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00012	अम्बाडा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00013	टेमनी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00014	धायवानी व0ग्या0	-	-	सोयाबीन	-	-
						00015	अपेंधेरबावडी	-	-	सोयाबीन	-	-
						00016	दाभोना	-	-	सोयाबीन	-	-
						00017	बैलकुण्ड	-	-	सोयाबीन	-	-
						00018	केलबेहरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00019	मानी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-
आमला	आमला	आमला	00001	ठानी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का			

		00002	आवरिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	परसोडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	तोरनवाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	आमलौ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बोडखी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	हसलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	ससावड		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	अंधारिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	अम्बाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	बोधिया (ब्राम्हणवाडा )		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	समुन्द्रा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	नान्दपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	रमली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	परसोडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	रम्भाखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	लालावाडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	कनोजिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	खापाखतेडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	बोरीखुर्द		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	रतेडा कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	लादी वन ग्राम		-	-	-	मक्का	-
		00023	जमदेही कला		-	-	-	मक्का	-
		00024	बारंगवाडी		-	-	-	मक्का	-
		00025	लिखडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	छीपन्या पिपरीया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	नरेरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	जमदेही खुर्द		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	पिपरीया देउ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	रानीडौंगरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	छावल		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	देवगाँव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	जम्बाडा बजर्ग		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	जम्बाडी खुर्द		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	तिरमह		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	हरदोली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			<b>बोरदेही</b>						
		00037	उमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बाबरबोह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोनेगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	राजेगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कौंदर खापा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बारछी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	सोमलापुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	कूटखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	मालेगाव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	हरन्या		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	बामला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	जामुन बिछवा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	कोठिया रं.		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	कलमेश्वरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	खान्डे पिपरीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	दीपा मोडई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	बोरदेही		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00054	इटावा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	घाटवाडी कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	हथनोरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00057	तरीडाकला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	डंगारिया		-	सोयाबीन	-	-	-

		00059	डेहरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	कजबा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00061	खेडली बाजार		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	ब्राम्हणवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बिछवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	मोरखा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	तरोडा बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	डुडरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	बिसखान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गूबरेल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	लीलाझर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	काठी		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>घोडाडोंगरी</b>								
	<b>घोडाडोंगरी</b>								
		00018	बासपुर		-	-	-	मक्का	-
		00019	रातामाटी		-	-	-	मक्का	-
		00020	घोडाडोंगरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	कान्हावाडी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00022	पचामा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00023	खारी		-	-	-	मक्का	-
		00024	खदारा		-	-	-	मक्का	-
		00025	नीमपानी		-	-	-	मक्का	-
		00026	चिखली	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00027	झाडकुंड		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	जाखली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	पादरबुजुर्ग	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00030	पीसाझोडी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00031	मेढापानी		-	-	-	मक्का	-
		00032	डोलीढाना	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00033	दूधावानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	महेन्द्रवाडी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00036	पांढरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सुखाढाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	सलैया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	छतरपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	बाकुड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	विक्रमपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	धसेड	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	कोलगांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सीता कामथ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	छुरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	जुवाडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	रतनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मेहकार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कुही	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	रानीपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	अनकावाडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	चिखली आमढाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>चोपना</b>								
		00001	खापा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00002	बंजारीढाल	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00003	सातलदेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	शक्तिगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	भीगईखापा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00007	आमठाना ₹ 0	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00008	नूतनडंगा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	झोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	चोपना-1	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	आमाडोह	धानसिंचित	-	-	-	-	-

			00065	तिन्दोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	बरखेड़ी गढ़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	सांका जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	बिहार	-	सोयाबीन	-	-	-
<b>राजगढ़</b>	<b>नरसिंहगढ़</b>								
		<b>कुरावर</b>							
			00070	जामोन्त्या गोपचौहान	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	पालखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	लसुडल्या हाजी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	लश्करपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	तरेनी धाकड़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	झाड़क्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	शिवपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00077	कांकरिया मीना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00078	माना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	मोयलीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00080	मानपिछोड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00081	लसुडल्या पाता	-	सोयाबीन	-	-	-
			00082	बरखेड़ा डोर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	आंवली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	झाड़ला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00085	मुंडलाबारोल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00086	सुखल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	कोटरीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00088	पीपल्या बीरम	-	सोयाबीन	-	-	-
			00089	ताजीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00090	बीरखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00091	धनखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00092	बिरगड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00093	पीपलखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00094	निपान्याचेतन	-	सोयाबीन	-	-	-
			00095	मानपुरा गुजराती	-	सोयाबीन	-	-	-
			00096	मुगलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00097	मेगलादीप	-	सोयाबीन	-	-	-
			00098	बिजोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00099	साहूखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00100	लसुडल्या रामनाथ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00101	खैरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00102	गीलाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00103	कुरावर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00104	बड़नगर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00105	पीलूखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
<b>राजगढ़</b>	<b>जीरापुर</b>	<b>माचलपुर</b>							
			00001	धानोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	जैयली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	भगौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	घोघटपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बावड़ीखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	आगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	गादियाँ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	पापल्याकुल्मी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	झरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	झरनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	डुंगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	बदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	भगौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	पोलखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00019	कोदाररोटी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	हिवरखेडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बोदीजूनावानी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	दोवगांव		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	डहरगांव		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	महतगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खेडी सावलीगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सराड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सेलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चांदबेहडा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बैतूल -1</b>								
		00037	खेडला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कुम्हारटेक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बघवाड		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	निम्झिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भोवाड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	कन्हडगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	लाखापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बरसाली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	मलकापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	भैसदेही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खेडली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बाजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	रोढा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खडला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सावंगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पिपला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सेहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	हथनाझिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बोरीकास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	दीवानचारसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	कोलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	गोराखार		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बैतूल -2</b>								
		00028	ढोढवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भडूस		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	टेमनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	दनोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भोगीतेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बैतूल बाजार</b>								
		00061	जसोन्दी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	चारबन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	गोडीगौला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बधोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	अमदर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	सूरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	भरकावाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बैतूल बाजार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	आरूल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	जैतापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	नहिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	सोहागपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	मिलानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	बयावाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	साईखंडारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	जावरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	धावडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	रेडवा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00079	सेलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	गुडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बारवही		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>भैंसदेही</b>								
	<b>चिल्लौर</b>								
		00001	कासमसर खण्डी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	पिपरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	गुरबा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	काबरा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00005	पातरी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00006	चकढाना	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00007	वासिदा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00008	चिल्लौर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	बाटलाखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	दसली	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00011	महतपुर जावरा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00012	डुलारिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	कैकडिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बाटलाकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	झाकस	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बोरकण्ड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	दामजीपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बटकी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पालगा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	टिटवी		-	-	-	मक्का	-
		00022	कामोद	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00023	खैरा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00024	डोडाजाम	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00025	कुनखेडी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00026	गधाखार		-	-	-	मक्का	-
		00027	नान्दा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	पाट रै.	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
	<b>झल्लार</b>								
		00055	चोपनी खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	माजरवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	राकसी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00058	गोरेगाँव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	आमला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	मच्छी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	केरपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	बोरगाँव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	टैभुरनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	झल्लार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बोथिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बासनेर खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	मालेगाँव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बासनेर कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	विजयग्राम		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	निपान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	कालडोंगरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00072	धामनगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00073	चिल्कापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	पिपरया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	<b>भीमपुर</b>								
		00029	बेला		-	-	-	मक्का	-
		00030	खामापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	झापल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00032	भांडवा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	सिंगार चावडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00034	रतनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	कुटगा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	लक्कडजाम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	आदर्श धनोरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	पलासपानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	भीमपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00040	आदर्श पिपरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	कुण्डबकाजन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	चिखली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	रातामाटी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	सिमोरी		-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00045	चुनालोहमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	डीक्या	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	जमन्या	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00048	धामन्या	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	ऊती		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	जामू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	चोहटा पोपटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	पलस्या	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	रम्भा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	चौदू	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
	<b>भैसदेही</b>								
		00075	जामझिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बरहापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	पारडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	चिचोलीदाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बगदरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	भैसदेही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	नवापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	काटोल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	पोहर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	सिवनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	भिवकुण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	धुडिया नई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00087	कौडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	रामघाटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	गदराझिरी रै		-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	धुगरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	पलासपानी रै		-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	कोरडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	देडपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	खामला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	कुकरू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	बानूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	जामूलनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	धार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	उदामा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	कोयलकुण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	सावलमेढा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	पिपलना कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00103	खोमई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00104	धाबा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	डेडवाकुण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	थपोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मूलताई</b>								
	<b>इनावा</b>								
		00041	करपा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	बरई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	महतपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00044	माथनी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	छिन्दी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खैरवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	खडकवार	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	परसठानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	उहआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बघोली बु.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पारडसिंगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मालेगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	हतनापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	बाडिया खा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सेमरया पादरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	बरखेड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00057	पिपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सावरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	कपास्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	रिधोरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00061	मयावाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	दुनावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	धाटपिपरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	सरई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00065	सोनेगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	सिपावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	भैसादंड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	चिखलीकला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00069	लेन्दा गोन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00070	जाम	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>प्रभात पट्टन</b>							
		00071	खेडी देवन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	धाटबिरोली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	खम्बारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	निबोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	चिचन्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	चिल्हाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	गाडरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	खडकी)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	पावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	प्रभातपट्टन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00081	मगोनाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सोमगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	बिरोली झिल्पा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	शेरगढ (बो)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	नरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सिरसावाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	देवगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	बघोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	अमरावती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	मंगोनाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	गोधनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	मालेगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	तिवरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	गंगापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	बंडली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	खेडी रामो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	दातौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मासोद</b>							
		00098	मासोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	वायगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	सहनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-

		00101	हीवरखेड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	सावगी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	आष्टा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	रायआमला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	ताईखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	बल्हेगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00107	बाडेगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	बिरुलबाजार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	सेन्दूरजना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	छिन्दखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	बीहरगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	डोहलन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	धाबला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00114	हिरडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	बोरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	काजली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00117	नादकुडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	पचधार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	विसनूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	जामठी सवासन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	SIRDI		-	सोयाबीन	-	-	-
		00122	साईखेडा खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	चकोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00124	रगडगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	वलनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00126	मोरंड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00127	सारसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00128	बोरपेड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00129	सालबडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00130	रजापुर र.		-	सोयाबीन	-	-	-
		00131	गेहूबारशा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00132	चिखली माल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00133	इटावा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00134	माजरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00135	दाबका		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>मूलताई</b>							
		00001	साबडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	टेमझिरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	कान्हा खाप		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खेडीकोट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	येनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	निमनवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पोनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	लिहदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मोहरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	दातौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पिसाटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पोहर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	साईखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बानूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जूनापानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बोधिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	ऐनस		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	उआरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सेमझिरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जम्बाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सोनोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सांडिया		-	सोयाबीन	-	-	-

		00024	जामगांव			सोयाबीन			
		00025	चौथिया			सोयाबीन			
		00026	मुलताई			सोयाबीन			
		00027	कामथ			सोयाबीन			
		00028	देवरी			सोयाबीन			
		00029	परमण्डल			सोयाबीन			
		00030	बलनी			सोयाबीन			
		00031	भिलाई			सोयाबीन			
		00032	मोही			सोयाबीन			
		00033	निरगुड			सोयाबीन			
		00034	दिवटिया			सोयाबीन			
		00035	जौलखेडा			सोयाबीन			
		00036	हेटी			सोयाबीन			
		00037	खतेडा कला			सोयाबीन			
		00038	सर्ग			सोयाबीन			
		00039	टेमझिरा			सोयाबीन			
		00040	चन्दोरा खु			सोयाबीन			
	शाहपुर								
	शाहपुर								
		00002	ढोढरामउ			सोयाबीन		मक्का	
		00003	डाबरी			सोयाबीन		मक्का	
		00004	धनवार					मक्का	
		00005	ं खाप					मक्का	
		00006	झापडी	धानसिंचित				मक्का	
		00007	कछार	धानसिंचित				मक्का	
		00008	सालीमेट	धानसिंचित				मक्का	
		00009	बानाबेहडा	धानसिंचित				मक्का	
		00010	हांडीपानी	धानसिंचित				मक्का	
		00011	मूढा	धानसिंचित				मक्का	
		00012	काजली					मक्का	
		00013	बीजादेही					मक्का	
		00014	टांगनामाल			सोयाबीन		मक्का	
		00015	फोफल्या रैयत	धानसिंचित		सोयाबीन		मक्का	
		00016	चिखलीरैयत			सोयाबीन		मक्का	
		00017	दुमका रैयत			सोयाबीन		मक्का	
		00018	तारा			सोयाबीन		मक्का	
		00019	आवरिया					मक्का	
		00020	कान्हेंगाव					मक्का	
		00021	केसिया					मक्का	
		00022	सेहरा	धानसिंचित				मक्का	
		00023	सीतलझिरी			सोयाबीन		मक्का	
		00024	रामपुरमाल			सोयाबीन		मक्का	
		00025	खोकरा रैयत			सोयाबीन		मक्का	
		00027	पावरझंडा					मक्का	
		00028	रायपुर			सोयाबीन		मक्का	
		00030	गुवाडी	धानसिंचित				मक्का	
		00031	धपाडामाल	धानसिंचित				मक्का	
		00032	कुण्डी	धानसिंचित		सोयाबीन		मक्का	
		00033	पहावाडी			सोयाबीन		मक्का	
		00034	पाठ ई					मक्का	
		00035	देशावाडी	धानसिंचित				मक्का	
		00036	मोखामाल			सोयाबीन		मक्का	
		00037	शाहपुर	धानसिंचित		सोयाबीन		मक्का	
		00038	कोटमी	धानसिंचित				मक्का	
		00039	सिलपटी	धानसिंचित		सोयाबीन		मक्का	
		00040	भयावाडी	धानसिंचित		सोयाबीन		मक्का	

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
राजगढ़	खिलचीपुर											
		भोजपुर										
			00001	करकरी		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00002	बावड़ीखेड़ा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00003	हिम्मतपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00004	सैमलीकलों		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00005	भोजपुर		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00006	चीबड़कला		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00007	धामन्या		-		सोयाबीन	-		-	-
			00008	ढावली कला		-		सोयाबीन	-		-	-
			00009	मोकमपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00010	खो खेड़ा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00011	समेली		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00012	सतनखेड़ी		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00013	हरिपुरा नजदीक		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00014	देहरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00015	खाजली		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00016	सेदरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00017	दुर्गपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00018	रीछडिया		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00019	ढण्ड		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00020	भवानीपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00021	खेरखेड़ी		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00022	भूमरिया		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00023	रामपुरिया		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00024	पपडेल		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00025	गोपालपुरा		-		सोयाबीन	-		-	-
			00026	बरखेड़ा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00027	बादरी		-		सोयाबीन	-		-	-
			00028	खाजला		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00029	कुशलपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00030	बारौल		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00031	सुआहेड़ी		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00032	सडियाकुआ		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00033	बोरकापानी		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
राजगढ़	खिलचीपुर	खिलचीपुर										
			00034	छोपीपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00035	डालूपुरा		-		सोयाबीन	-		-	-
			00036	मोड़ाखेड़ा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00037	बघेला		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00038	चौदपुरा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00039	रूपपुरा		-		सोयाबीन	-		-	-
			00040	दौलाज		-		सोयाबीन	-		-	-
			00041	लिम्बोदा		-		सोयाबीन	-		-	-
			00042	रूपाहेड़ा		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00043	गादियामेर		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00044	गादियाकला		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00045	दिलावरी		-		सोयाबीन	-		-	-
			00046	खुरचन्याकला		-		सोयाबीन	-		मक्का	-
			00047	अमानपुरा		-		सोयाबीन	-		-	-
			00048	बावड़ीखेड़ाजागीर		-		सोयाबीन	-		मक्का	-

			00049	जैतपुराकला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	गूर्जरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	पीपल्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	विशल्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00053	रूपारेल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	जामोन्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00055	मेहराजपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00056	फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	खिलचीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	बड़बेली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00059	सेमली काकड़	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00060	शेरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	धामन्याजोगी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00062	अभयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	पानखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	हिनीत्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	लक्ष्मणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
राजगढ़	खिलचीपुर	छापीहेड़ा							
			00066	कलीखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	जैतपुराखुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00068	भादाहेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	दूँदाहेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	हालाहेड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00071	ब्यावराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	अम्बावता	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	कछोटिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00074	देवाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	कुआखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	पूँवाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00077	चितावल्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	बाजनोर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	रनारा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00080	नाटाराम	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00081	भाटखेड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00082	जटामही	-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	खाताखेड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00084	छापीहेड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00085	खजूरीगोकुल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00086	काकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	दरियापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00088	देवलीसांगा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00089	सिकन्दरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00090	बरखेड़ा मौजा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00091	गुनाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00092	गादाहेट	-	सोयाबीन	-	-	-
			00093	लसूडली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00094	चमारी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00095	गुँगाहेड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00096	बामनगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00097	सोनखेड़ाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
राजगढ़	नरसिंहगढ़	बोड़ा							
			00001	पानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	लसूडल्या जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	पीपल्या रसोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	कोडिया गोड़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	घाटाजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	आंकखेडीकला	-	सोयाबीन	-	-	-

			00008	कुकल्याखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	हरलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	कुराडियाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	भैसाना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	ताजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	धियाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	खानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	चांदबड़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	उदपुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	नून्याहेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	मण्डावर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	रनावा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	कुंवरकोटरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	निपान्यागढ़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	बोड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	बकानी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	झाड़पीपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	सुकली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	गागर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	उमरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	हलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	कडाराकोटरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	पनवाड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	दाबला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	झागरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	हिनोल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	कांकरवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
राजगढ़	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़							
			00035	बैरासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	पलासी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	सोनकच्छ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	पीपल्याबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	आंदलहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पाडल्याबना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	चैनपुराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	गादिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	चारपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	मानपुरादेव	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	मुवालियाखेदर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	पांजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	सवांसीजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	पुरा बरायठा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	रामगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	विजयगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	नरसिंहगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	कडियाचन्द्रावत	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	भवानीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	कुदाली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	नन्दगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	मवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	गनियारी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	खेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	सराना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	खजुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	बडोदियातालाब	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	बरखेड़ाअमरदास	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	जामोन्यागणेश	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	जामोन्याजोहार	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	तिन्दोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	बरखेड़ी गढ़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	सांका जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	बिहार	-	सोयाबीन	-	-	-

राजगठ	नरसिंहगठ								
		करावर							
			00070	जामोन्या गोपचौहान	-		सोयाबीन	-	-
			00071	पालखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00072	लसुडल्या हाजी	-		सोयाबीन	-	-
			00073	लशकरपुर	-		सोयाबीन	-	-
			00074	तरेनी धाकड़	-		सोयाबीन	-	-
			00075	झाड़क्या	-		सोयाबीन	-	-
			00076	शिवपुरा	-		सोयाबीन	-	-
			00077	कांकरिया मीना	-		सोयाबीन	-	-
			00078	माना	-		सोयाबीन	-	-
			00079	मोयलीकला	-		सोयाबीन	-	-
			00080	मानपिछोड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00081	लसुडल्या पाता	-		सोयाबीन	-	-
			00082	बरखेड़ा डोर	-		सोयाबीन	-	-
			00083	आंवली	-		सोयाबीन	-	-
			00084	झाड़ला	-		सोयाबीन	-	-
			00085	मंडलाबारोल	-		सोयाबीन	-	-
			00086	सुखल्या	-		सोयाबीन	-	-
			00087	कोटरीकला	-		सोयाबीन	-	-
			00088	पीपल्या बीरम	-		सोयाबीन	-	-
			00089	ताजीपुरा	-		सोयाबीन	-	-
			00090	बोरखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-
			00091	धनखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00092	बिरगड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00093	पीपलखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-
			00094	निपान्याचेतन	-		सोयाबीन	-	-
			00095	मानपुरा गुजराती	-		सोयाबीन	-	-
			00096	मृगलखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00097	मेगलादीप	-		सोयाबीन	-	-
			00098	बिजोरी	-		सोयाबीन	-	-
			00099	साहूखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00100	लसुडल्या रामनाथ	-		सोयाबीन	-	-
			00101	खैरखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00102	गीलाखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00103	करावर	-		सोयाबीन	-	-
			00104	बड़नगर	-		सोयाबीन	-	-
			00105	पीलूखेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
राजगठ	जीरापुर	माचलपुर							
			00001	धानोदा	-		सोयाबीन	-	-
			00002	जैथली	-		सोयाबीन	-	-
			00003	भगौरा	-		सोयाबीन	-	-
			00004	घोघटपुर	-		सोयाबीन	-	-
			00005	बावड़ीखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-
			00006	आगरिया	-		सोयाबीन	-	-
			00007	गादियाँ	-		सोयाबीन	-	-
			00008	पापल्याकुल्मी	-		सोयाबीन	-	-
			00009	झरनी	-		सोयाबीन	-	-
			00010	झरनिया	-		सोयाबीन	-	-
			00011	डुंगरी	-		सोयाबीन	-	-
			00012	बदा	-		सोयाबीन	-	-
			00013	भगौरी	-		सोयाबीन	-	-
			00014	पोलखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-
			00015	खेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00016	लिम्बोदा	-		सोयाबीन	-	-
			00017	पीपल्याबिजरेल	-		सोयाबीन	-	-
			00018	राजाहेड़ी	-		सोयाबीन	-	-
			00019	मीनागाँव	-		सोयाबीन	-	-
			00020	अमलाबे	-		सोयाबीन	-	-
			00021	लसुडल्या	-		सोयाबीन	-	-
			00022	मोहली	-		सोयाबीन	-	-
			00023	माचलपुर	-		सोयाबीन	-	-
			00024	कचनारिया	-		सोयाबीन	-	-
			00025	ब्राह्मणगाँव	-		सोयाबीन	-	-

			00026	कुमड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	कुमड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	गड़वाच	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	मुकुन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	अरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	बाँकपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	रामगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	लखौनी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	गूलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	बादगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	कौड़क्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	कवसीखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	धतुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	चिलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	गोविन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	पोलखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	चौखण्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	गोरियाखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	उचावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	खौखरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	पाइल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	भानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	हरिगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
राजगढ़	जीरापुर								
		जीरापुर							
			00050	गागोरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	पाइली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	डोबड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	सूरजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	रानीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	पीपल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	परोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	मैनाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	जीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	नाईहेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	खारपा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	टपरियाहेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	कहारखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	कुण्डालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	जैतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	उभापान	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	धतरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	बरमनखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	महाराजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	लक्ष्मनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	भण्डावद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	बटावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	काशीखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	ब्राह्मणखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	सादलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	दुपाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	तमोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00077	रूपाहेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00078	खेजडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	खाकरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00080	सिरपोई	-	सोयाबीन	-	-	-
			00081	बालाहेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00082	झाड़मउ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	मोहन	-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00085	बाँसखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00086	बरखेड़ी उमठ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	लसूडल्याखेराज	-	सोयाबीन	-	-	-
			00088	कंडेली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00089	नांदनीजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-



2	3-रजोधा	19	रन्हेरा					बाजरा
		20	हमीरपुरा					बाजरा
		23	कुरैठा					बाजरा
		24	सिलावली					बाजरा
		25	धौरा					बाजरा
		26	नगरापोरसा					बाजरा
		27	चापक					बाजरा
		28	भदावली					बाजरा
		29	कीचौल					बाजरा
		30	अरौन					बाजरा
		31	सिकहरा					बाजरा
		32	डोंडरी					बाजरा
		33	रजोधा				तुअर	बाजरा
		34	साठो					बाजरा
		35	खड़िया पोरसा					बाजरा
		36	लालपुरा					बाजरा
		37	करसण्डा					बाजरा
		38	खेरली पोरसा					बाजरा
		4	अम्बाह	1 अम्बाह	9	रिठौना		
10	ककरारी							बाजरा
11	भड़ोली							बाजरा
12	अम्बाह							बाजरा
13	बिचौला							बाजरा
14	बडफरा							बाजरा
15	दोहरा							बाजरा
16	चांदकापुरा							बाजरा
17	बरेह							बाजरा
39	रुपहटी							बाजरा
40	नावली							बाजरा
41	थरा							बाजरा
42	जलका नगरा							बाजरा
43	भौनपुरा							बाजरा
44	सुनावली							बाजरा
45	कुकथरी							बाजरा
46	सिंगपुरा							बाजरा
47	किरियच							बाजरा
48	तरैनी							बाजरा
49	धनसुला				बाजरा			

5	अम्बोह	02 दिमनी	1	अरौली					बाजरा			
			2	मलबसई					बाजरा			
			3	बीलपुर					बाजरा			
			4	कुथियाना					बाजरा			
			5	जोहा					बाजरा			
			6	छण्डौली					बाजरा			
			7	खिरेंटा					बाजरा			
			8	गूझ					बाजरा			
			18	रानपुर					बाजरा			
			19	गोठ					बाजरा			
			20	कचनौधा					बाजरा			
			21	भयामपुरखुर्द					बाजरा			
			22	ऐसाह					बाजरा			
			23	लहर					बाजरा			
			24	दिमनी					बाजरा			
			25	चौदपुर					बाजरा			
			26	रिठौराकापुरा					बाजरा			
			27	बिरहरुआ					बाजरा			
			28	कमतरी					बाजरा			
			6	अम्वाह	03 सिहोनिया	29	गोपी					बाजरा
						30	खडियाहार					बाजरा
						31	महुरी					बाजरा
						32	लल्लूबसई					बाजरा
						33	सिहोनिया					बाजरा
						34	पुराबसकला					बाजरा
						35	बाबडीपुरा					बाजरा
						36	खडियाबेहड़					बाजरा
						37	सिकरोड़ी					बाजरा
38	तुतवास								बाजरा			
50	पुराबसखुर्द								बाजरा			
51	इकहरा								बाजरा			
52	मनपुररजपूती								बाजरा			
53	कोलुआ								बाजरा			
54	भिड़ौसा								बाजरा			
55	लेपा								बाजरा			
56	सांगोली								बाजरा			

7.	मुरैना	1-मुंगावली	1	कैथरी					बाजरा
			2	जारह					बाजरा
			3	मसूदपुर					बाजरा
			4	भानपुर					बाजरा
			5	पिपरई					बाजरा
			8	हेतमपुर					बाजरा
			9	बंधा					बाजरा
			20	पीपरखेड़ा					बाजरा
			21	पचोरघरा					बाजरा
			26	हिं गोनाकला					बाजरा
			27	जतावर					बाजरा
			28	कैथोदा					बाजरा
			29	हॉसई मेवदा					बाजरा
			30	मुंगावली				बाजरा	
8	मुरैना	2 मृगपुरा	7	हुसेनपुर					बाजरा
			10	मैथाना					बाजरा
			11	गड़ौरा					बाजरा
			12	रिठौराखुर्द					बाजरा
			13	जरखौना					बाजरा
			14	तिछोला			तुअर		बाजरा
			15	गोसपुर					बाजरा
			16	मृगपुरा					बाजरा
			17	पलपुरा					बाजरा
			18	पिड़ावली					बाजरा
			19	बिडवाक्वारी					बाजरा
			22	दीखतपुरा					बाजरा
9	मुरैना	3 मुरैना	23	सिकरोदा					बाजरा
			24	देवरी					बाजरा
			25	हिनौनाखुर्द					बाजरा
			31	मुरैनागांव					बाजरा
			32	जौराखुर्द					बाजरा
			33	जौरी					बाजरा
			34	निवी					बाजरा
			35	अतरसुमा					बाजरा
			36	लालौर					बाजरा
			37	बड़ोखर					बाजरा
			38	छोंदा					बाजरा
			39	डोमपुरा					बाजरा
			45	मुडियाखेड़ा					बाजरा
10	मुरैना	4 जीगनी	46	इमलिया					बाजरा
			40	भौंडेरी					बाजरा

			41	जगतपुर					बाजरा
			42	किशनपुर					बाजरा
			43	डोंगरपुरकिरार					बाजरा
			44	जेबराखेड़ा					बाजरा
			47	गंजरामपुर					बाजरा
			49	जीगनी					बाजरा
			50	मीरपुर					बाजरा
			51	खबरोली					बाजरा
			53	खेड़ामेवदा			तुअर		बाजरा
			54	रसीलपुर					बाजरा
			68	काजीबसई					बाजरा
			69	नगरा					बाजरा
11	मुरैना	5 ना.बड़ागाँव	52	बरेथा					बाजरा
			55	नावलीबड़ागाँव					बाजरा
			56	करारी					बाजरा
			57	जंतवारकापुरा					बाजरा
			58	मिरघान					बाजरा
			59	घुस्धान					बाजरा
			60	सिरमिती					बाजरा
			61	डोंगरपुरलोधा					बाजरा
			62	छिछावली					बाजरा
			63	दतहरा					बाजरा
			64	बिजौलीपुरा					बाजरा
			65	अजनोधा			तुअर		बाजरा
			66	सुरजनपुर					बाजरा
			67	माताबसैया					बाजरा
12	मुरैना	6 बमरौली	70	कोतवाल					बाजरा
			71	नाका					बाजरा
			72	पिलुआ					बाजरा
			75	गिरगौनी					बाजरा
			102	बमरौली					बाजरा
			103	सोंगोली					बाजरा
			104	परीक्षा					बाजरा
			105	अरदौनी					बाजरा
			106	भैंसोरा					बाजरा
			107	पढ़ावली					बाजरा
13	मुरैना	7 नूराबाद	77	जारौनी					बाजरा
			78	करुआ					बाजरा
			79	चुरहेला					बाजरा
			81	जयनगर					बाजरा

			82	जररुआ					बाजरा
			83	लोहगढ़					बाजरा
			84	दोरावली					बाजरा
			86	धनेला					बाजरा
			91	नूराबाद					बाजरा
			92	नाऊपुरा					बाजरा
14	मुरैना	8 बामौर	89	बामौरखुर्द	धान सिंचित				
			90	सेवा					बाजरा
			95	मड़राई					बाजरा
			96	महतौली					बाजरा
15	मुरैना	9 रिठौराकंला	108	मितावली	धान सिंचित				
			109	सिलगिला	धान सिंचित				
			111	रिठौराकंला	धान सिंचित		तुअर		बाजरा
			112	ऐंती					बाजरा
			113	गडाजर					बाजरा
			114	पिपरसेवा					बाजरा
			115	उरहाना					बाजरा
16	जौरा	1-भर्रा	1	बरेंड					बाजरा
			2	सिंगरोली					बाजरा
			3	चिन्नोनी चम्बल					बाजरा
			4	पचोखरा					बाजरा
			5	तिन्दौखर					बाजरा
			6	वृजगढ़ी					बाजरा
			7	हुसेनपुर					बाजरा
			8	खेरली					बाजरा
			9	खेड़ा हुसेनपुर					बाजरा
			10	कोटरा					बाजरा
			11	कोल्हूडाड़ा					बाजरा
			12	रजोध्रा					बाजरा
			13	ककरौली					बाजरा
			14	बंधपुरा					बाजरा
			15	भर्रा					बाजरा
			23	रन्छोरपुरा					बाजरा
17	जौरा	2-चिन्नोनी करैरा	22	खिडौरा					बाजरा
			24	छिनवारा					बाजरा
			25	तिलावली					बाजरा
			26	उत्तमपुरा					बाजरा
			27	ताजपुर					बाजरा
			28	सुखपुरा					बाजरा

			29	खरिका					बाजरा
			30	सरसेनी					बाजरा
			31	खिटौरा					बाजरा
			32	सेंथरी					बाजरा
			33	स्यारु					बाजरा
			34	चिन्नोनीकरैरा					बाजरा
			35	बदरपुरा					बाजरा
			36	जैतपुर					बाजरा
			37	बुढावली					बाजरा
			39	रसोधना					बाजरा
18	जौरा	3-बधेल	16	सुजानगढ़ी					बाजरा
			18	मददीपुरा					बाजरा
			19	टुड़ीला					बाजरा
			20	अहरोली					बाजरा
			21	खुटियानीहार					बाजरा
			38	मोहना					बाजरा
			40	बधेल					बाजरा
			41	जलालपुर					बाजरा
			42	बिसनौरी					बाजरा
			43	कैमारा					बाजरा
			44	जौनारा					बाजरा
			45	सिकरोदा	घान सिंचित				
			46	गैपरा					बाजरा
			47	अगरोता					बाजरा
			48	नरहोली					बाजरा
19	जौरा	4-जौरा	52	मजरा					बाजरा
			53	बुरावली					बाजरा
			54	नरहेला					बाजरा
			56	सॉकरा					बाजरा
			57	बधोराखुर्द					बाजरा
			58	बधोराकला					बाजरा
			59	रुनीपुरा					बाजरा
			62	अलापुर					बाजरा
			63	गुडाआसन					बाजरा
			64	धमकन					बाजरा
			66	थरा					बाजरा
			67	डोगरपुर					बाजरा
			68	बिलगांव चौधरी					बाजरा
20	जौरा	5-बागचीनी	69	मुद्रावजा				तुअर	बाजरा

			70	सकतपुर					बाजरा
			71	गांगोलीहार					बाजरा
			72	चचेहा					बाजरा
			73	विसगपुर					बाजरा
			74	छेरा			तुअर		बाजरा
			75	उरहेरा					बाजरा
			76	इमलिया					बाजरा
			77	जाफरावाद					बाजरा
			78	उरहेड़ी					बाजरा
			79	कुम्हेरी			तुअर		बाजरा
			80	हड़वासी			तुअर		बाजरा
			81	बरोली					बाजरा
			82	घर्षा					बाजरा
			83	अरहेला					बाजरा
			84	नन्दगांगोली					बाजरा
			85	मोघनाजवाहर					बाजरा
			86	मोगनीसामन्त					बाजरा
			87	बिण्डवादेवगढ़					बाजरा
			91	बागचीनी			तुअर		बाजरा
21	जौरा	6-गलेथा	88	नन्दपुरा			तुअर		बाजरा
			89	गुढ़ाचम्बल					बाजरा
			90	बरहाना					बाजरा
			92	भैसरोली			तुअर		बाजरा
			93	गलेथा			तुअर		बाजरा
			94	खाडोली					बाजरा
			95	सिहोरी					बाजरा
			96	नहरावली					बाजरा
			98	उम्मेदगढ़बाँसी					बाजरा
			99	साँटा					बाजरा
			100	चैना					बाजरा
			101	देवरी			तुअर		बाजरा
			102	सहराना					बाजरा
22	जौरा	7-सुमावली	106	घुरैयाबसई			तुअर		बाजरा
			107	पहावली			तुअर		बाजरा
			108	अटा					बाजरा
			109	जरैना					बाजरा
			110	सहदपुर					बाजरा
			111	निटहरा					बाजरा
			112	दुलहनी					बाजरा

			113	बडौना					बाजरा
			114	हथरिया				तुअर	बाजरा
			115	गणेशपुरा					बाजरा
			116	सुमावली				तुअर	बाजरा
			117	टिकटौलीगूजर				तुअर	बाजरा
			118	मैनाबसई				तुअर	बाजरा
			119	लोहाबसई					बाजरा
			120	बिरुंगा					बाजरा
			121	इटावली					बाजरा
			122	सिधोरा					बाजरा
23	जौरा	8-पहाडगढ़	49	परसोटा					बाजरा
			50	घाडौर					बाजरा
			125	कुँअरपुर					बाजरा
			126	टिकटौलीदूमदार					बाजरा
			128	नीचलीबहराई					बाजरा
			129	पहाडगढ़					बाजरा
			130	धूरकड़ा					बाजरा
			131	कहारपुरा					बाजरा
			132	मानपुर					बाजरा
			133	कन्हार					बाजरा
			134	जड़ेरु					बाजरा
			135	धौघा			सोयाबीन		
24.	कैलारस	1-सुजर्मा	1	मांघोगढ़					बाजरा
			2	बड़मन					बाजरा
			3	खेड़ाकला					बाजरा
			4	खेड़ातोर					बाजरा
			5	रजपुरा जागीर					बाजरा
			6	सेमई					बाजरा
			7	कुटरावली					बाजरा
			8	ऐंचोली					बाजरा
			9	नैपरी					बाजरा
			10	हटीपुरा					बाजरा
			11	पचेखा					बाजरा
			12	जरैना मानगढ़					बाजरा
			13	किरावली जदीद					बाजरा
			14	किर्रायच					बाजरा
			16	उचाड़					बाजरा
			17	महेबा					बाजरा
			18	इटीरा					बाजरा

			19	बधरेंटा				बाजरा
			20	सहदपुर				बाजरा
			36	सुजर्मा				बाजरा
25	कैलारस	कैलारस	40	भिलसैयां				बाजरा
			42	कैलारस				बाजरा
			44	कुरौली				बाजरा
			45	चमरगवां				बाजरा
			46	लाभकरन				बाजरा
			47	बिलगांव क्वारी				बाजरा
			48	तोरिका				बाजरा
			49	दीपेरा				बाजरा
			50	भोखपुर				बाजरा
			51	बघरोली				बाजरा
			53	रीझोनी				बाजरा
			54	बस्तोली				बाजरा
			55	ब्रह्म बाजना				बाजरा
			56	माली बाजना				बाजरा
			57	अरांदा				बाजरा
			58	डुमजर				बाजरा
			63	बूढसिरथरा				बाजरा
			64	गस्तोली				बाजरा
26	कैलारस	मामचौन	21	चौकी				बाजरा
			22	नगावनी				बाजरा
			23	मामचौन			तुअर	बाजरा
			24	कट्टोली				बाजरा
			25	खिरी				बाजरा
			26	गोल्हारी			तुअर	बाजरा
			27	देवरी				बाजरा
			28	डुमरावली				बाजरा
			29	बहरार जागीर				बाजरा
			30	पनिहारी				बाजरा
			31	पलखिनी				बाजरा
			33	बाल्हेरा जागीर				बाजरा
			34	सिंगाचौली				बाजरा
			35	लहरा				बाजरा
			37	तिलौजरी				बाजरा
			59	किसरोली				बाजरा
			61	कोटसिरथरा				बाजरा
			62	ठाटीपुरा				बाजरा
27	सबलगढ़	टैटरा	1	बरोठा			तुअर	बाजरा

			2	कैमराकला				तुअर	बाजरा
			3	कैमाराखुर्द				तुअर	बाजरा
			4	गोन्दोली				तुअर	बाजरा
			5	बाबड़ीपुरा				तुअर	बाजरा
			6	खिरका					बाजरा
			7	जवाहरगढ़					बाजरा
			8	अनघोरा					बाजरा
			9	टेंटरा				तुअर	बाजरा
			10	जाटोली				तुअर	बाजरा
			11	जाबरोल					बाजरा
			35	पंचेर					बाजरा
28	सबलगढ़	मांगरोल	12	अटार				तुअर	बाजरा
			13	डिगवार				तुअर	बाजरा
			14	खेड़ाडिगवार				तुअर	बाजरा
			15	रहूकागाँव				तुअर	बाजरा
			16	बनवारा				तुअर	बाजरा
			17	नौरावलीखैरोन				तुअर	बाजरा
			29	बत्तोखर					बाजरा
			30	रामगढ़					बाजरा
			31	बाबड़ी					बाजरा
			32	मांगरोल				तुअर	बाजरा
			33	कीरतपुर					बाजरा
			34	रामपहाड़ी					बाजरा
			36	खोह					बाजरा
			37	गुलालई					बाजरा
			38	पूछरी					बाजरा
			39	कैमारी					बाजरा
29	सबलगढ़	झुण्डपुरा	18	खैरोन				तुअर	बाजरा
			20	झुण्डपुरा				तुअर	बाजरा
			21	कढ़ावना					बाजरा
			22	हीरापुर					बाजरा
			23	गुरैमा					बाजरा
			24	किशोरगढ़					बाजरा

			27	जमनीपुरा					बाजरा
			42	खेरला					बाजरा
			43	रामपुरगिर्द					बाजरा
			46	कटघर					बाजरा
			47	चनोटी					बाजरा
30	सबलगढ़	सबलगढ़	40	पिपरघान			तुअर		बाजरा

			41	बेरईगिर्द			तुअर		बाजरा
			48	कुल्होली			तुअर		बाजरा
			49	लकैझरा					बाजरा
			50	बकसपुर					बाजरा
			51	पासौनकला					बाजरा
			52	पहाड़ी					बाजरा
			53	रन्हेरा					बाजरा
			54	सबलगढ़			तुअर		बाजरा
			55	टोंगा			तुअर		बाजरा
31	सबलगढ़	रामपुरकला	57	जलालगढ़					बाजरा
			59	सिमरोदा किरार					बाजरा
			60	धरसोला					बाजरा
			61	सराय					बाजरा
			62	रुनधानखालसा					बाजरा
			63	सेमना					बाजरा
			64	सालई					बाजरा
			65	रामपुरकला			तुअर		बाजरा
			66	बामसौली			तुअर		बाजरा
			67	गौबरा			तुअर		बाजरा
			68	बेरखेड़ा					बाजरा

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर									
			00071	गिराला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा	
			00053	चिचल गुड़ा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00054	अलीराजपुर	-	-	-	-	मक्का	-	
			00055	घोंघसा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00056	हरसवाट	-	-	-	-	मक्का	-	
			00057	वड़ी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00058	बड़ा उण्डवा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00060	इन्दरसिंह की चौकी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00061	रामसिंह की चौकी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00063	बन्द	-	-	-	-	मक्का	-	
			00064	आम्बुआ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
			00065	भोरदु	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
			00066	चिचलाना	-	-	-	-	मक्का	-	
			00067	अड़वाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
			00068	कोटबु	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
			00069	कवठु	-	-	-	-	मक्का	बाजरा	
			00070	बोराना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00072	लक्ष्मणी	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00073	चोगनवाट	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00074	भाणारावत	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00075	खण्डाला	-	-	-	-	मक्का	बाजरा	
			00076	पलासदा	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00079	खारकुआ	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00080	बेगड़ी	-	-	-	-	मक्का	बाजरा	
			00082	मयाला	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00083	नानपुर	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00084	तीती	-	-	-	-	मक्का	बाजरा	
			00086	फाटा	-	-	-	-	मक्का	बाजरा	
			00087	मौरासा	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00088	सेजगांव	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00089	आजन्दा	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00090	खरपई	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00091	कानपुर	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00092	जवानिया	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00093	आली	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00094	थोड़सिन्धी	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00095	बोरकुआ	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00096	सुखी बावड़ी	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00097	मालवई	-	-	-	-	-	बाजरा	
			00101	खेरवड़	-	-	-	-	मक्का	-	
			00102	बड़दला	-	-	-	-	मक्का	-	
	कट्टीवाड़ा	कट्टीवाड़ा									
			00002	अम्बार	-	-	धानअसिंचित	-	मक्का	-	
			00003	खामड़का	-	-	धानअसिंचित	-	मक्का	-	
			00004	खेड़ाबड़ा	-	-	धानअसिंचित	-	मक्का	-	
			00005	मोटोबड़ोई	-	-	-	-	मक्का	-	

		00006	साजनपुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	ध्याना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	हवेलीखेड़ा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	इन्दलावाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	करेली महड़ी	-	-	-	मक्का	-
		00018	आमखुट	-	-	-	मक्का	-
		00019	पुनियावाट	-	-	-	मक्का	-
		00020	पस्टार	-	-	-	मक्का	-
		00021	आम्बी	-	-	-	मक्का	-
		00022	बड़ी सर्दी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	कहा	-	-	-	मक्का	-
		00025	इंगगरगांव	-	-	-	मक्का	-
		00027	गुड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00028	अकोला	-	-	-	मक्का	-
		00029	आगलगोटा	-	-	-	मक्का	-
		00030	चांदपुर	-	-	-	मक्का	-
		00031	मोरधी	-	-	-	मक्का	-
		00032	बोकड़िया	-	-	-	मक्का	-
		00033	झींझना	-	-	-	मक्का	-
		00034	आम्बाड़बेरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	मोरियागांव	-	-	-	मक्का	-
		00036	फल्यामह	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	खुन्दर	-	-	-	मक्का	-
		00040	खेड़ा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	अंधारकाच	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	अकलवा	-	-	-	मक्का	-
		00044	कालीबेल	-	-	-	मक्का	-
		00045	सोरवा	-	-	-	मक्का	-
		00046	दरखड़	-	-	-	मक्का	-
		00047	सुमन्यावाट	-	-	-	मक्का	-
		00048	मेहणी	-	-	-	मक्का	-
	<b>जोवट</b>							
		<b>उदयगढ़</b>						
		00001	टोकरयिझिरण	-	-	-	मक्का	-
		00002	कालुखेड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00003	सागोटा	-	-	-	मक्का	-
		00004	टेमाची	-	-	-	मक्का	-
		00005	छोटा इटारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हरदासपुर	-	-	-	मक्का	-
		00007	बड़ा इटारा	-	-	-	मक्का	-
		00008	बोरझाड़	-	-	-	मक्का	-
		00009	मोटाउमर	-	-	-	मक्का	-
		00010	देकालकुआ	-	-	-	मक्का	-
		00011	छोटी जुवारी	-	-	-	मक्का	-
		00012	कानाकावड़	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	आम्बी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	जाम्बुखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	तलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	धामन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	उदयगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बावड़ी खूद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	खण्डालाराव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	जामलीबड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	थान्दला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	टेरका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	पानगोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भरण्डी फलिया	-	-	-	मक्का	-
		00025	बरड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	वेकलगाँवड़ी	-	-	-	मक्का	-
		00027	उत्ती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सियाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कुण्डलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कोल्याबरड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सुडीबड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कोटड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00033	डेडरवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	फुटतलाब बड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	आम्बाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बुडकुईबड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पाटबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रतनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	चूलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>जोबट</b>							
		00041	डेकाकण्ड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	थापली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	रणजीतगढ़	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	देवलई	-	-	-	मक्का	-
		00045	कनवाड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00046	पहाड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00047	बलेड़ी	-	-	-	मक्का	-
		00048	कोसदुना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	बेटरवासा	-	-	-	मक्का	-
		00050	भिलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	उन्डारी	-	-	-	मक्का	-
		00052	बिलासा	-	-	-	मक्का	-
		00053	किलाजोबट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	घोघस्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	जाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	बड़ागुड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00057	सेमलाया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	उबलड़	-	-	-	मक्का	-
		00059	खुटाजा	-	-	-	मक्का	-
		00060	बलदमूंग	-	-	-	मक्का	-
		00061	हिरापुरबड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	बड़ीखट्टाली	-	-	-	मक्का	-
		00063	छोटीखट्टाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	चमारबेगड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00065	कन्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00066	देहदला	-	-	-	मक्का	-
		00067	कस्बाजोबट	-	-	-	मक्का	-
		00069	नेहतड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00070	जामनी	-	-	-	मक्का	-
		00071	बांझा बयड़ा	-	-	-	मक्का	-
		00072	उमरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	सेवरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00074	वागदी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	सिन्धी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00076	उम्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	सालखेड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00078	डाबड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00079	इन्दवन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	<b>भाभरा</b>							

	<b>चन्द्रशेखर</b>							
	<b>आजाद नगर</b>							
		00001	बरझर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00002	बडगाँव	-	-	-	मक्का	-
		00003	बोरकुण्डिया	-	-	-	मक्का	-
		00004	महेन्द्रा	-	-	-	मक्का	-
		00005	बड़ाखुटाजा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	रिंगोल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	सेजावाड़ा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	अमनकूआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	इंशलावानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	सन्दा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00014	माथना				मक्का	
		00015	मैदा				मक्का	
		00016	काल्यावाव				मक्का	
		00017	कोरियापान				मक्का	
		00018	छोटाखुटाजा				मक्का	
		00021	छोटीपोल				मक्का	
		00022	बड़ीपोल				मक्का	
		00023	रोलीगाँव				मक्का	
		00024	भाबरा				मक्का	
		00025	छोटीफाटा				मक्का	
		00027	गिरधा				मक्का	
		00030	गेरूघाटी				मक्का	
		00031	जवानिया				मक्का	
		00032	देवली		सोयाबीन			
		00033	किलाना				मक्का	
		00034	झीरण				मक्का	
		00035	मायावाट				मक्का	
		00028	बड़ीमिरियावाट				मक्का	
	सोंडवा							
	सोंडवा							
		00108	पिपलियावाट				मक्का	
		00110	बयड़िया	धानअसिचित			मक्का	
		00111	धोरट				मक्का	
		00114	चिखोड़ा				मक्का	
		00115	रोशिया				मक्का	
		00116	बड़ी उतावली				मक्का	
		00122	चनोटा					बाजरा
		00125	उमराली					बाजरा
		00126	औंझड़					बाजरा
		00127	मोराजी					बाजरा
		00130	अम्बाजा				मक्का	
		00131	मधुपल्लवी	धानअसिचित				
		00132	मूण्डला		सोयाबीन			
		00133	कोसारिया	धानअसिचित				
		00136	कटवाड़	धानअसिचित				
		00137	छकतला		सोयाबीन			
		00138	अचपई				मक्का	
		00141	खेरवाड़ा				मक्का	
		00142	उमरखड़				मक्का	
		00146	मथवाड़					बाजरा
		00153	सिरखड़ी बड़ी					बाजरा
		00154	बेजड़ा					बाजरा
		00155	उमरठ					बाजरा
		00156	साकड़ी					बाजरा
		00157	गुलवट					बाजरा
		00159	कुकड़िया					बाजरा
		00160	टेमला					बाजरा
		00161	सोण्डवा					बाजरा
		00162	बयड़िया					बाजरा
		00163	दरकली					बाजरा
		00164	बोड़गाँव					बाजरा
		00165	खामट					बाजरा
		00166	वालपुर					बाजरा
		00167	फडतला					बाजरा
		00168	गुनेरी					बाजरा
		00171	सोलिया					बाजरा
		00172	छोटी हथवी					बाजरा
		00173	उन्हाला					बाजरा
		00174	तिखोला					बाजरा
		00175	कुलवट					बाजरा
		00176	सैमलानी					बाजरा
		00177	ककराना					बाजरा

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार								
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी	00001	बीसरोडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-			
			00002	बोरतलाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00003	धुरपन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00004	नयागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00005	तीखड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00006	मलोथर		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00007	टांगना		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00008	डोबी उर्फ तालपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-			
			00009	जमाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00010	बाबई खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00011	भट्टी		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00012	मेहरागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00013	इटारसी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00014	सोनासावरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00015	रेसलपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
					<b>केसला</b>								
						00037	पथरोटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						00038	जुझारपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						00039	देहरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00040	गोचीतरौदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00041	पीपलदाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00042	ताकू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00043	केसला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						00045	मोरपानी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00046	भरगदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00047	घोघरा रैयत		-	-	-	मक्का	-
						00048	सहेली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00049	चारटेकरा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
						00050	कोहदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00051	पिपरिया खुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00052	छीतापुरा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
						00053	चांदकिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
						00054	साधपुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00055	कालाआखर		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00056	चौकीपुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00057	सिलवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00058	डांडीवाडा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
					<b>रामपुर</b>								
						00021	मरोडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00016	तारारोडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00017	लोहारिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00018	पाहनबरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00019	रामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00020	सिलारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00022	बिछुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00023	सोनतलाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00024	बेलावाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
						00025	गजपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00026	चिल्लई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	गुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	दमदम	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	सनखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	सोमलवाड़ा खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	चांदोन	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00032	कांदई कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	नागपुर कला	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00035	पांडूखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00036	घाटली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>डोलरिया</b>								
		<b>डोलरिया-१</b>							
		00001	नानपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मिसरोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	टेमला कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	दतवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कोटलाखेड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बघवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चंदवाड़	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रतवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सैल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रोड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बम्हनगाव कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		<b>डोलरिया-२</b>							
		00014	खरखेड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गुनौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कान्दाखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोहारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आमपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	बेहराखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बाईखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	भीलाखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सेमरी खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डोलरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	ढाबा खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	ढाबा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>पिपरिया</b>								
		<b>तरौनकला</b>							
		00033	राइखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	तरौन कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	खैरीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	मुहारी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	सिमारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	समनापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	पनारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	रिछेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	लौंझी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	नंदवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		<b>पिपरिया</b>							
		00017	खिडिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00018	सिलारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	सुरेला कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	हथवास	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	देवगांव पिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	रामपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00023	महलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	पौसेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00025	खेरूआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सिरपन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	पारखी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	कन्हवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	बांसखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	सिघोडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00031	ठूठा दहलवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	पाली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>सांडिया</b>								
		00001	सहलवाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	सिवनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	सांडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	सुरेला किशोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	खैरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सेमरीतला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	माथनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	पचलावरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00009	झालोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	पुनोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	धनासरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	गाडाघाट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00013	उटिया किशोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	जमारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	खापरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	मरका ढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>बनखेडी</b>								
	<b>उमरधा</b>								
		00001	उमरधा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	समनापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	परसवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	पुरैनाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	तिसरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सलेया किशोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	करपा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	निभौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	सेमखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	बेदर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00011	मलकजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	डूमर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	पुरैनारंधीर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	बारछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	अन्हाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	सुरैलारंधीर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	जमुनियारंधीर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>चांदोन</b>								
		00018	चांदोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	भैरौपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	देवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	गौदलवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	कलगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	महगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	जासरवानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	कपूरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	मछेराकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	परसवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	माहल्लनवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	पलिया पिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00030	तिदवाड़+ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	गरधा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	ईशरपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	खपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	केसला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	पौड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>बनखेड़ी</b>								
		00036	बाघावानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	बनखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	नगवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	जुन्हेटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	पथरकुही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	रहटवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	दहलवाड़ाकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	सिंगपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	बिछुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	पंजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	कलकुही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	मेंदाखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	नयागाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	महुआखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	पडरईठाकुर	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00051	जूनावानी (ढाना)	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00052	पीपरपानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	कोटरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	कामती	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	मुर्गीढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	डंगरहाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	घड़ावपड़ाव	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
	<b>बाबई</b>								
	<b>आरी</b>								
		00001	गोरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	शुक्करवाड़ाकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	गुडला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	कटैया	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00005	मांगरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	बुधनी	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00007	बीकोर	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00008	बीकोरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	मजोजलपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	मोहासा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	सांगाखेड़ाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	चपलासर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	गुराडिया मोती	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	मढ़ावन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	आरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	बज्जरवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	मनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	आचलखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	सुआखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	पंवारखेड़ाखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	जावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>गनेरा</b>								
		00022	समौन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	बगलौन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	बागलखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	सोयाबीन	-
		00025	खरगावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00026	मुंडियाखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	गनेरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00028	नसीराबाद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	बछवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	कोंडरवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	मारागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	सांगाखेड़ाखुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00033	सतवासा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00034	उमरखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	चौराहेट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00036	तालकेसरी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00037	पाटनी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00038	फुरतला	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-
		00039	गौदलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00040	रेपुरा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00041	खिड़िया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
	बाबई								
		00042	सिरवाड़	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00043	बुधवाड़ा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00044	शिवपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	बहारपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	गोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	गुराडिया कलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	कांसखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	आखमऊ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	बाबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	रजौन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	गूजरवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	कोटगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	बागड़ा मानागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	मोहगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	काजलखेड़ी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
		00057	महेन्द्रवाड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	गुलौन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	झालोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	खारदा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-
	सिवनी-								
		खपरिया							
		00052	रमपुरा		-	-	सोयाबीन	-	-
		00053	मुंडियाखेड़ी		-	-	सोयाबीन	-	-
		00054	लोधडी		-	-	सोयाबीन	-	-
		00055	अमलाडा डोगर		-	-	सोयाबीन	-	-
		00056	पथाड़ा		-	-	सोयाबीन	-	-
		00057	मकडाई		-	-	सोयाबीन	-	-
		00058	गवाड़ी		-	-	सोयाबीन	-	-
		00059	चौतलाय		-	-	सोयाबीन	-	-
		00060	सोयत		-	-	सोयाबीन	-	-
		00061	झिन्लाय		-	-	सोयाबीन	-	-
		00062	खपरिया		-	-	सोयाबीन	-	-
		00064	भांगिया		-	-	सोयाबीन	-	-
		00063	रेहड़ा		-	-	सोयाबीन	-	-
		00067	रजोरा कुर्मी		-	-	सोयाबीन	-	-
		00066	भिलाडिया कला		-	-	सोयाबीन	-	-
		00065	हरपालपुर		-	-	सोयाबीन	-	-
		पगढाल							
		00015	बिसौनी कला		-	-	सोयाबीन	-	-
		00016	कोठरा		-	-	सोयाबीन	-	-

		00017	निरखी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भैरोपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	भरलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	चौकीगावां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जीराबेह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पगढाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बाबडिया भाऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	रावनपीपल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	धामनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बासनिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	फरीदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अमलाडा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	चौकीमाफी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गुरंजघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	नवलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	घाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	साटई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	लोखरतलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सामरधा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>शिवपुर</b>								
		00001	उमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	लुंछगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	अचनागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	रीछी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	भिलाडिया खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	भैसादेह		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	कजली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बाबरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बनाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	गुराडियाजाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	थुआ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	शिवपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चापडा ग्रहण		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नाहरकोलाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सतवासा</b>								
		00068	रजोराजाट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	धरमकुंडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सतवासा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खुटवांसा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	हिरनखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	भडंग चौखली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	सोमलवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	खारदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	भमेडीदेव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	गाजनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	भमेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	नाहरकोला कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	झाडबीडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बटकी उर्फ इकलानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सोता चौखली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	नंदरवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	मालापाट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	तिली आवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	केवलाझिर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सि०मालवा</b>								
		00036	महुआढाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सूरजपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00038	बांकाबेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	तिन्सया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	खरार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	जमानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पिपल्या कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पीपलठोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बिल्दी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बराखड कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बनापुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	निपानिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	झकलाय	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	घतरखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	दमाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	रूपादेह		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>सोहागपुर</b>								
	<b>धपाडाकला</b>								
		00001	रेवा बनखेडी	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00002	साकला	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00003	भटगांव	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00004	सोसरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	मुडियाखेडा	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00006	ईशरपुर	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00007	लखनपुर	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00008	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	रानी गोहान	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00010	ठीकरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	भिलाडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	भौखेडी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	गूजरखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	अजबगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	तेलसिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	बोडना गूजर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	पामली	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00018	नगतारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	<b>सोहागपुर</b>								
		00019	सोहागपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	बम्होरी खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	बारंगी	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00022	चीचली	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00023	पालादेवरी	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00024	सेमरी हरचंद	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00026	गुरमखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	पथरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	बासखापा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	निभौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	नयागांव	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00031	गोंडी खैरी माल	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00032	बिछुआ		-	तुअर	-	-	-
		00037	गुन्दरई	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00038	चारगांव	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00039	नवलगांव	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
		00040	करनपुर	धानसिंचित	-	तुअर	-	-	-
	<b>शोभापुर</b>								
		00041	शोभापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	अकोला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	नीमनमूढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	कोहानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00045	गुरारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	चांदीखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	महुआखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	उटियाशकर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00049	गलघा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00051	अजेरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00052	माछा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00053	तिघड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	काजलखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	चंदेरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	ढिकवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	अजनेरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	रानी पिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	मोकलवाड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	निवारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	बमारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	कलमेशरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	बरुआढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	भानपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	होशंगाबाद								
		होशंगाबाद- १							
		00001	तालनगरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	रठाल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	परदिह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बड़ोदिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पालनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सावलखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	रोहना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	खेड़ला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डोगरवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रसूलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मालाखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	बुधवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	उन्द्राखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00014	साकेत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		होशंगाबाद- २							
		00015	ब्यावरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	निटया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	कुलामड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	रायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	जासलपुर	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00021	निमसाडिया	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00022	पांजरा कला	धानसिंचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00023	मेहराघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1	बिरीदा						मक्का			
			2	लोनी							मक्का		
			16	जैनाबाद					सोयाबीन				
			20	दर्यापुर					सोयाबीन				
			29	बड़गांवमाफी					सोयाबीन				
			40	इच्छापुर								मक्का	
			1	ईटारिया					सोयाबीन				
			2	सुक्ताखुर्द					सोयाबीन				
			3	झिरपांजरिया					सोयाबीन				
			4	घौन्ड					सोयाबीन				
			5	बोरिबुजुर्ग					सोयाबीन				
			6	भगवानिया					सोयाबीन				
			7	धुलकोट					सोयाबीन				
			8	हरदा					सोयाबीन				
			9	खातला					सोयाबीन				
			10	जलान्दा					सोयाबीन				
			16	टिटगांवकलां					सोयाबीन				
			17	सारोला					सोयाबीन				
			19	महलगुराडा					सोयाबीन				
			20	सांडसकलां					सोयाबीन				
			21	हिगनारैयत					सोयाबीन				
			22	हनमतखेडा					सोयाबीन				
			24	डयालिखुर्द					सोयाबीन				
			29	सीवल					सोयाबीन				
			30	साईखेडा					सोयाबीन				
			32	पंचईमली					सोयाबीन				
			33	डाबियाखेडा					सोयाबीन				
			34	हैदरपुर					सोयाबीन				
			35	धाधरला					सोयाबीन				
			36	नावरा					सोयाबीन				
			1	सिंधखेडाकलां					सोयाबीन				
			2	मुलई					सोयाबीन				
			4	चाकबारा					सोयाबीन				
			6	सिरपुर					सोयाबीन				
			7	खैरखेडा					सोयाबीन				
			9	ताजनापुर					सोयाबीन				
			10	डोईफाईया					सोयाबीन				
			14	साईखेडा					सोयाबीन				मक्का
			15	कारखेडा					सोयाबीन				मक्का
			16	धाबा									मक्का
			17	बसाली					सोयाबीन				
			19	पांगरी					सोयाबीन				
			20	खकनारखुर्द									मक्का
			26	शेखापुररैयत					सोयाबीन				
			27	रंगई					सोयाबीन				
			33	चिडियामाल					सोयाबीन				
34	तुकईथड					सोयाबीन							
35	झिरमीटी					सोयाबीन							
36	रामतलाई					सोयाबीन							
37	मोन्दा					सोयाबीन							
38	पिपलानी					सोयाबीन							
41	बालाघाट									मक्का			
43	दैयत					सोयाबीन							
44	परेठा					सोयाबीन							
45	गोन्दी					सोयाबीन							
46	तेलियाघड़									मक्का			